



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 17—अक्टूबर 23, 2009 (आश्विन 25, 1931)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 17—OCTOBER 23, 2009 (ASVINA 25, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of  
the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 03/2010-एनडीए-1

(आवेदन-प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख : 16.11.2009)

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2010

(आयोग की वेबसाइट <http://www.upsc.gov.in>)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 2009

फा. सं. 7/3/2009 प. I (ख)--राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना और वायु सेना स्कंधों के लिए 30 दिसम्बर, 2010 से शुरू होने वाले 125वें पाठ्यक्रम हेतु और नौ सेना अकादमी के 45वें पाठ्यक्रम 10+2 (कार्यपालक शाखा) में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 18 अप्रैल, 2010 को एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 335 होगी (जिसमें थल सेना के लिए 195, नौ सेना के लिए 39, वायु सेना के लिए 66 और नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा के लिए यह संख्या 35 होगी)। रिक्तियां अनंतिम हैं तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स की प्रशिक्षण क्षमतानुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष ध्यान : (i) उम्मीदवार को आवेदन पत्र के कालम 17(1) में यह स्पष्ट रूप से बतलाना होगा कि वह किन सेवाओं के लिए वरीयता क्रम में विचार किए जाने का इच्छुक है। उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करे ताकि योग्यता क्रम में उसके रैंक को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते समय उसकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

(ii) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं सेवाओं पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जिनके लिए वे अपनी वरीयता व्यक्त करते हैं, अन्य सेवा व सेवाओं पर नहीं। उम्मीदवार द्वारा अपने प्रपत्र में पहले निर्दिष्ट वरीयता में वृद्धि/परिवर्तन के अनुरोध को आयोग स्वीकार नहीं करेगा।

(iii) विभिन्न कोर्सों में अपनी वरीयताओं को निर्दिष्ट करने से पहले उम्मीदवार दोनों अकादमियों, अर्थात् राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) के लिए अपनी वरीयता सुनिश्चित कर लें। यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपने पहले विकल्प के रूप में चुनता है, तो उसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के विभिन्न स्कंधों अर्थात् थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना में अपनी पहली

वरीयता निर्दिष्ट कर देनी चाहिए तथा नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को उसके बाद वरीयता देनी चाहिए। इसी प्रकार, यदि कोई उम्मीदवार नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को अपने पहले विकल्प के रूप में चुनता है तो उसे नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को अपनी पहली वरीयता निर्दिष्ट कर देनी चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के विभिन्न स्कंधों के लिए अपनी वरीयताएं देनी चाहिए। अतः जो उम्मीदवार नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) कोर्स के साथ-साथ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के अन्य कोर्सों का भी चयन करते हैं उन्हें नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को अपने पहले या अंतिम वरीयता के रूप में विकल्प देना चाहिए। नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को दूसरी या तीसरी वरीयता नहीं दी जा सकती है। यदि उम्मीदवार द्वारा नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को दूसरी या तीसरी वरीयता भी दी गई तो उसे उम्मीदवार को अंतिम वरीयता समझा जाएगा।

(iv) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा।

2. परीक्षा के केन्द्र : परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला, अहमदाबाद, ऐज़ल, इलाहाबाद, बंगलौर, बरेली, भोपाल, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, पणजी (गोवा), पटना, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची, सम्बलपुर, शिलांग, चण्डीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़, दिसपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर और विशाखापट्टनम।

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखों में परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिए उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास किए जाएंगे, तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विवक्षा पर अलग केन्द्र दे सकता है। जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) को जानकारी दे दी जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा, किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है। ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा। किन्तु 16 दिसम्बर, 2009 के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रीयता

उम्मीदवार या तो :—

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल को प्रजा, या

3. भूयन को प्रजा, या

4. भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो; या

5. भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, उगाण्डा तथा तंज़ानिया, संयुक्त गणराज्य, ज़ांबिया, मलावी, ज़ैरे, तथा इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन कर आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो, पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति :

केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार जिनका जन्म 2 जनवरी, 1992 से पहले न हुआ हो तथा 1 जुलाई, 1994 के बाद न हुआ हो, पात्र हैं।

आयोग जन्म को वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्ट्रारों में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। मूल प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए 'मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार को जन्म को उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने को तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म को तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद को किसी अन्य परीक्षा में परिवर्तन करने को अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के कॉलम 8 में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद को किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि को उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी-4 : उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो

उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा। चाहे वह उस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वह सब उससे वसूल किया जाएगा।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना स्कंध के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायु सेना और नौ सेना स्कंधों तथा नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा 10+2 के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भौतिकी और गणित सहित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

जो उम्मीदवार स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 के अधीन 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे उम्मीदवार जो एस एस बी साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं लेकिन एस एस बी साक्षात्कार के समय मैट्रिक/10 + 2 या समकक्ष प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें प्रमाण-पत्र, उनकी फोटोप्रति सहित अपर महानिदेशालय, भर्ती, सेना मुख्यालय, वैस्ट ब्लॉक-III, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 को तथा नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों के मामले में नौसेना मुख्यालय, डी एम पी आर (आर एवं आर) अनुभाग, कमरा सं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को 5 दिसम्बर, 2010 तक भेजना होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अन्य वे सभी उम्मीदवार जो मूल रूप में अपने मैट्रिक और 10+2 पास या समकक्ष प्रमाण-पत्र एस एस बी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर चुके हैं तथा एस एस बी प्राधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करवा चुके हैं उन्हें सेना मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय, जैसा भी मामला हो, इन्हें फिर से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

ऐसे मामलों में जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए हों, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा दिये गये मूल प्रमाण-पत्र भी स्वीकार्य होंगे, ऐसे प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां/फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जायेंगी। अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएं हों, आयोग के विचार से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता हो।

टिप्पणी-1 : वे उम्मीदवार जो 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी-2 : वे उम्मीदवार, जिन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अभी तक अर्हता प्राप्त करनी है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि उनको दी गई यह विशेष छूट है। उन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख 5 दिसम्बर, 2010 तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम घोषणा में विलंब या अन्य किसी

कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-3 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-4 : वे उम्मीदवार जो आईएनएसबी/पीएबीटी में पहले फेल हो चुके हैं, वायु सेना के लिए योग्य नहीं हैं।

(घ) शारीरिक मानक:

उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2010 हेतु परिशिष्ट-II में दिए गए शारीरिक मानकों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

वे उम्मीदवार जिन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें सशस्त्र बल के किसी प्रशिक्षण संस्थान से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निकाल दिया गया हो, आवेदन करने की योग्यता नहीं रखते हैं।

4. शुल्क:

(i) परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को आयोग को रु. 50/- (केवल पचास रुपये) के शुल्क का भुगतान करना होगा जो कि समुचित मूल्य की एक केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के रूप में हो। केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट (डाक टिकट नहीं) डाकघर से प्राप्त करें और आवेदन प्रपत्र पर इसके लिए निर्धारित स्थान पर चिपका दें। जारी करने वाले डाकघर की तारीख की मोहर सहित उस टिकट को इस तरह से रद्द किया जाए कि रद्द करने की मोहर की छाप आंशिक रूप से आवेदन प्रपत्र पर भी किंतु आवेदन प्रपत्र में दिए गए स्थान के अंदर, अपने आप आ जाए। रद्द किए गए टिकट की छाप स्पष्ट होनी चाहिए ताकि तारीख तथा जारी करने वाले डाकघर की पहचान स्पष्ट रूप से हो सके।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश में स्थित प्रतिनिधि के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो, इस अनुरोध के साथ जमा करना होगा ताकि वह "051-लोक सेवा आयोग-परीक्षा शुल्क" के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और आवेदन प्रपत्र के साथ उसकी रसीद लगा कर भेजनी चाहिए।

जिन आवेदन प्रपत्रों में इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जायेगा। यह उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जो निम्नांकित पैराग्राफ के अंतर्गत निर्धारित शुल्क में छूट का दावा करते हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा।

किसी भी हालत में केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के स्थान पर डाक टिकट स्वीकार नहीं की जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट, मनीआर्डर, रेखांकित चैक, चलमुद्रा नोट या ट्रेजरी चालान आदि आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन प्रपत्रों को

शुल्क रहित माना जाएगा तथा उन्हें एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) थल सेना के जूनियर कमीशनड अफसरों, नान-कमीशनड अफसरों तथा अन्य रैंकों और भारतीय नौ सेना तथा भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के बच्चों और थल सेना के भूतपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों, भूतपूर्व नान-कमीशनड अफसरों तथा भूतपूर्व अन्य रैंकों और भारतीय नौ सेना तथा भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के बच्चों को उस स्थिति में निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी जब वे निर्मालिखित शर्तें पूरी कर देते हैं। अर्थात् :

(क) वे मिलिट्री स्कूल (पहले किंग जार्ज स्कूल के नाम से ज्ञात)/सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं और,

(ख) उनके आवेदन संबद्ध स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा अग्रेषित किए जाते हैं।

टिप्पणी : मिलिट्री स्कूल/सैनिक स्कूलों के उम्मीदवारों के संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य द्वारा अपेक्षित आवेदन प्रपत्रों की संवीक्षा आयोग के कार्यालय में यह निश्चय करने के लिए की जाएगी कि क्या ऐसे उम्मीदवार उपर्युक्त, नोटिस के पैरा 4 (ii) के अंतर्गत शुल्क के छूट के हकदार हैं। किन्तु मिलिट्री स्कूलों/सैनिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को अपने स्कूल के विद्यार्थियों के आवेदन प्रपत्र आयोग को अग्रेषित करने से पहले संतुष्ट होना चाहिए कि वे नोटिस की उक्त व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। अग्रेषण पत्र भेजते समय आवेदक का नाम तथा आवेदन प्रपत्र क्रमांक (8 अंकीय) का उल्लेख भी करना चाहिए। अग्रेषण पत्र को आवेदन प्रपत्र के साथ टैग अथवा पिन नहीं करना चाहिए। आयोग प्रधानाचार्य के कृताकृतों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदन के साथ आयोग को अदा किये गये शुल्क को वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न उसे किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

5. आवेदन कैसे करें:

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी सभी परीक्षाओं के लिए सामान्यतः एक आवेदन प्रपत्र तैयार किया है जिसे कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा जांचा जा सकता है। आवेदन प्रपत्र के साथ सूचना विवरणिका जिसमें प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, पावती कार्ड एवं आवेदन प्रपत्र भेजने के लिए एक लिफाफा शामिल है, नोटिस के परिशिष्ट-III में सूचीबद्ध देश भर के निर्दिष्ट किए प्रधान डाकघरों/डाकघरों से 20 रु. (केवल बीस रुपये मात्र) नकद भुगतान करके प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रपत्र केवल निर्दिष्ट किए डाकघरों से ही खरीदने चाहिए किसी अन्य एजेंसी से नहीं। यह प्रपत्र एक परीक्षा के लिए केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है। उम्मीदवार केवल सूचना विवरणिका के साथ दिए गए प्रपत्र का प्रयोग करें तथा उन्हें किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छायाप्रति/प्रतिलिपि/अप्राधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चूंकि इस प्रपत्र की इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा बारीकी से जांच की जाती है, आवेदन प्रपत्र को सही ढंग से भरने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र को भरते समय, कृपया नोटिस के परिशिष्ट-II में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को देखें। उम्मीदवार को पावती कार्ड के संगत स्थानों पर अपना आवेदन प्रपत्र संख्या (आठ अंकीय) और परीक्षा का नाम भी भरना चाहिए। आवेदक को आवेदन प्रपत्र के साथ पावती

कार्ड पर रु. 6/- (छः रुपये मात्र) का डाक टिकट लगाकर उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा। यदि आवेदक वांछित मूल्य का डाक टिकट नहीं लगाता है, तो उसका पावती कार्ड प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा कार्ड को आवेदक द्वारा प्राप्त न किए जाने के लिये आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। विधिवत् भरा गया आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड तब सूचना विवरणिका के साथ दिए विशेष लिफाफे में भेजे जाने चाहिए। लिफाफा 'सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110 069' को भेजने से पहले आपको उसके ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात् 'राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी परीक्षा (I), 2010' भी लिखना चाहिए। उम्मीदवार को अपना टेलिफोन/फैक्स नं. लिखना चाहिए।

(ख) सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन प्रपत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है, या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं, उनको यह परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में सेवारत हैं उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र अपने कमांडिंग अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए, जिन्हें वे अग्रेषण पत्र के साथ आवेदक का नाम तथा आवेदन प्रपत्र क्रमांक (8 अंकीय) का उल्लेख करते हुए, आयोग को अग्रेषित करेंगे।

भारतीय नौ सेना में नौ सैनिकों (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित) के आवेदन पत्रों को, तभी स्वीकार किया जाएगा जब उन्हें उनके कमांडिंग अधिकारियों द्वारा विधिवत् अनुशंसित किया गया हो। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल कहा जाता था) देहरादून, मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों को अपने आवेदन प्रपत्र संबद्ध कालेज/स्कूलों के प्रिंसिपल के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए, जिन्हें वह अग्रेषण पत्र पर आवेदक का नाम तथा उसका आवेदन प्रपत्र क्रमांक (8 अंकीय) का उल्लेख करते हुए आयोग को अग्रेषित करेंगे। अग्रेषण पत्र को आवेदन प्रपत्र के साथ टैग या पिन न किया जाये।

टिप्पणी 1 : उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। एक ही उम्मीदवार के अलग-अलग केन्द्र देते हुए एक से अधिक आवेदन प्रपत्र किसी

भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पूरे भरे हुए आवेदन प्रपत्र भेजे तो भी आयोग अपने विवेक से केवल एक ही आवेदन प्रपत्र स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी 2 : जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे या गलत भरे हुए हों, उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियां और शुल्क में छूट आदि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। इसलिए वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। अतः परीक्षा में उनका प्रवेश भी पूर्णतः अनन्तिम होगा। यदि किसी बाद की तारीख को सत्यापन करते समय यह पता चलता है कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के जुलाई, 2010 में घोषित होने की संभावना है।

साक्षात्कार के लिये बुलाये गये सभी उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के समक्ष मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें साक्षात्कार के तुरंत बाद मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। जांच पड़ताल के बाद मूल प्रमाणपत्र लौट दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार पहले ही 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे सेवा चयन बोर्ड हेतु अपना 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाण-पत्र या अंक सूची अवश्य लाएं।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है :

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्मांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है:

- (i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
- (iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या
- (iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गये प्रलेख प्रस्तुत करना, या
- (v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या
- (vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- (viii) उत्तर-पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या

- (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या
- (x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या
- (xi) परीक्षा के दौरान कोई मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या।
- (xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, या
- (xiii) ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना।

वह अपने को दण्ड-अभियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक्त :

- (क) आयोग की जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है।

और/या

- (ख) स्थाई रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये अपवर्जित किया जा सकता है :

- (1) आयोग द्वारा उनकी किसी परीक्षा या चयन के लिए;
- (2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए; और

- (ग) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

- (i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

6. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख :

- (i) पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 को 16 नवम्बर, 2009 को अथवा इससे पहले पहुंच जाना चाहिए।
- (ii) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपमंडल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप और विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों के मामले में केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 23 नवम्बर, 2009 है। उपर्युक्त क्षेत्रों/प्रदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए दिया गया अतिरिक्त समय-सीमा का लाभ केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त आवेदन प्रपत्रों के मामले में ही दिया जाएगा।

वैयक्तिक रूप से अथवा कूरियर सेवा से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों के मामलों में आवेदकों के निवास स्थान को ध्यान में न रखते हुए, अतिरिक्त समय सीमा का लाभ नहीं मिलेगा।

अतिरिक्त समय सीमा के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र में दिए गए कालम 13(II) में उस विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश, (अर्थात् असम, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर आदि) जहां उनका निवास हो, के एरिया कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-I : उम्मीदवार स्पष्ट रूप से यह समझ लें कि आयोग उसके आवेदन प्रपत्र के प्राप्त न होने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से विलम्ब से प्राप्त होने के लिए किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन प्रपत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और विलम्ब से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन प्रपत्रों को तुरन्त अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अतः वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आवेदन प्रपत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएं।

टिप्पणी-II : उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र आयोग के काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से भी जमा करके उसकी समुचित रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आयोग के अन्य किसी पदाधिकारी को जमा करने के लिए दिए गए आवेदन प्रपत्रों के सम्बन्ध में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी III : कूरियर सेवा अथवा कूरियर जैसी अन्य सेवा के माध्यम से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों को आयोग के काउन्टर पर "दस्ती रूप से" जमा किए गए आवेदन पत्रों के रूप में माना जाएगा।

टिप्पणी-IV : उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि निर्दिष्ट काउन्टर पर सिर्फ सांय 5 बजे तक एक बार में केवल एक ही आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा न कि बड़ी संख्या में।

#### 7. आवेदन प्रपत्रों की पावती :

उम्मीदवार से आवेदन प्रपत्र प्राप्त होते ही उसके द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ जमा कराए गए पावती कार्ड पर उसका आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के प्रमाण के तौर पर मोहर लगाकर आयोग के कार्यालय द्वारा उसे भेज दिया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को 30 दिन के भीतर पावती कार्ड प्राप्त नहीं होता है तो उसे आवेदन प्रपत्र सं. (8 अंकों में), नाम तथा परीक्षा का वर्ष दर्शाते हुए तत्काल आयोग से संपर्क करना चाहिए। आयोग के काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रपत्र जमा कराने वाले उम्मीदवारों को काउन्टर पर ही पावती कार्ड दे दिया जाएगा।

केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवार का आवेदन पत्र आयोग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया गया है। उम्मीदवारों को उनके परीक्षा में प्रवेश अथवा उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किए जाने के बारे में शीघ्रतिशीघ्र सूचित कर दिया जाएगा।

#### 8. आयोग/थल सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार:

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

(i) उन उम्मीदवारों को जिन्हें परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, अनुक्रमांक, केन्द्र तथा कोर्स जिसके लिए प्रवेश दिया गया है आदि दर्शाते हुए प्रवेश

प्रमाणपत्र प्रेषित किया जाएगा। प्रवेश प्रमाणपत्र में उम्मीदवार के फोटोग्राफ का समावेश होगा। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व तक प्रवेश प्रमाणपत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। ऐसी किसी सूचना के प्राप्त होने पर प्रवेशित उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी अनुप्रति/अनुलिपि भेज दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा कार्डेटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125, 011-23098543 से प्राप्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाण पत्र न प्राप्त होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए उम्मीदवार प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए पते की फोटो कापी करके प्रेषित किए जाएंगे। अतः उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिया गया पता पिन कोड सहित पूर्ण होना चाहिए।

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाणपत्र के बिना बैठने नहीं दिया जाएगा। प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की त्रुटि/असंगति होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

किसी कोर्स में प्रवेश विभिन्न कोर्सों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनकी पात्रता तथा उम्मीदवार द्वारा दिये गये त्वरियता क्रम को ध्यान में रखकर दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर रहेगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन किए जाने पर आधारित होगा।

(ii) यदि किसी उम्मीदवार को आयोग से एक से अधिक प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त हों वह परीक्षा में बैठने के लिए उनमें से किसी एक प्रवेश प्रमाण पत्र का ही प्रयोग करें तथा अन्य प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग के कार्यालय को वापिस कर दें।

(iii) यदि किसी उम्मीदवार को गलती से किसी अन्य उम्मीदवार का प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाये तो उसे तत्काल आयोग को वापिस कर दें तथा सही प्रवेश प्रमाण पत्र प्रेषित करने का अनुरोध करना चाहिए। उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य उम्मीदवार के प्रवेश प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(v) उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(vi) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन पत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

महत्वपूर्ण : आवेदन के सम्बन्ध में सभी पत्र-व्यवहार सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए:

1. परीक्षा का नाम तथा वर्ष
2. आवेदन प्रपत्र संख्या (8 अंकीय)
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)
5. पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।

विशेष ध्यान (1) : जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

विशेष ध्यान (2) : यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है या जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद, अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिए लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए--सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खंड (III), स्कंध-1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473।

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिये--नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, आर. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010097/23011282।

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3(ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7081, को सूचित कर देना चाहिए।

जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से बंचित हो जाएगा।

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए अनुशंसित हैं उनको अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध सीधे--सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए--सेना मुख्यालय, ए.जी.ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खण्ड-III, स्कंध-(I), आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473, नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए--नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, आर. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010097/23011282।

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए--वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3 (ए) कमरा नं. 17, "जे" ब्लाक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7081/7082 के पते पर लिखने चाहिये।

उम्मीदवार को भेजे गए सम्मन-पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए पहुंचना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा। इस प्रकार के अनुरोध उस चयन केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी को संबोधित होने चाहिए जहां से साक्षात्कार हेतु आह्वान-पत्र (कॉल लेटर) प्राप्त हुआ है। सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय में प्राप्त पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार सितम्बर, 2010-अक्टूबर, 2010 में अथवा भर्ती निदेशालय की सुविधानुसार किए जाएंगे।

9. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अन्तिम परिणामों की घोषणा और अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा में आयोग के निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ये उम्मीदवार बौद्धिक तथा व्यक्तित्व परीक्षणों के लिए सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे जहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना/नौ सेना अकादमी 10+2 (कार्यपालक शाखा) के उम्मीदवारों की अधिकारी क्षमता तथा वायु सेना के उम्मीदवारों का पाइलट एप्टीच्यूट परीक्षण तथा अधिकारी क्षमता का निर्धारण किया जाएगा।

दो चरणों की चयन प्रक्रिया :

मनोवैज्ञानिक अभिरूचि परीक्षण और बुद्धिमत्ता परीक्षण पर आधारित दो चरणों की चयन-प्रक्रिया चयन केन्द्रों/वायुसेना चयन बोर्डों पर प्रारंभ की गई है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों/वायु सेना चयन केन्द्रों पर पहुंचने के प्रथम दिवस पर प्रथम चरण में रखा जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को द्वितीय चरण/शेष परीक्षणों के लिए प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने पहला चरण उत्तीर्ण कर लिया हो। वे उम्मीदवार जिन्होंने चरण-II उत्तीर्ण कर लिया है उन्हें (i) अपनी जन्मतिथि के समर्थन के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष प्रमाण पत्र की फोटो प्रति और (ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण मूल प्रमाण-पत्र जमा करने होंगे।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपने ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों के माता-पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकार्यता हेतु थल सेना/नौ सेना और नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों को (1) लिखित परीक्षा तथा (2) अधिकारी क्षमता परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे और वायु सेना के उम्मीदवारों को (1) लिखित

परीक्षा, (2) अधिकारी क्षमता परीक्षा, (3) पायलट एप्टीच्यूट परीक्षण में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे।

इन शर्तों पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता के अन्तिम क्रम में तीन अलग-अलग सूचियों में एक थल सेना तथा नौ सेना के लिए, दूसरी वायु सेना के लिए और तीसरी नौ सेना के अकादमी कोर्स के लिए रखा जाएगा। जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सभी अंगों के लिए और नौ सेना अकादमी के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनका नाम तीनों योग्यता सूचियों में होगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना और नौ सेना विंगों में प्रवेश के लिए अंतिम चयन थल सेना तथा नौ सेना की योग्यता सूची में से रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम में से किया जाएगा। वायु सेना विंग में प्रवेश के लिए अन्तिम चयन वायु सेना की योग्यता सूची में से रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा और नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा में प्रवेश के लिये अंतिम चयन नौ सेना की योग्यता सूची में रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा। जो कि शारीरिक स्वस्थता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के आधार पर होगा। जिन उम्मीदवारों के नाम तीनों योग्यता सूचियों में हैं उन पर तीनों सूचियों में चयन हेतु विचार उनके वरीयता क्रम को देखते हुए होगा और उनके एक सूची से अन्तिम रूप से चुन लिए जाने पर शेष सूचियों से उनका नाम रद्द कर दिया जाएगा।

विशेष ध्यान : वायु सेना के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीच्यूट परीक्षण केवल एक बार किया जाता है। अतः उसके द्वारा प्रथम परीक्षण में प्राप्त ग्रेड वायु सेना चयन बोर्ड के सामने बाद में होने वाले साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा। जो उम्मीदवार पायलट एप्टीच्यूट के प्रथम परीक्षण में असफल हो जाता है वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के वायु सेना विंग या जनरल ड्यूटी (पायलट) ब्रांच या नेवल एयर आर्म में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स में पायलट एप्टीच्यूट परीक्षण हो चुका है तो उन्हें इस परीक्षा के वायु सेना विंग के लिए तभी आवेदन करना चाहिए, अगर उन्होंने यह प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो। अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जाएं इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

#### 10. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अनर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा के किसी पहले कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी सुलभ विशेषताओं के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये थे उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

किंतु जिन उम्मीदवारों को अस्वस्थता के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नौ सेना अकादमी से वापस ले लिया गया था या जिन्होंने अपनी

इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी हो उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते कि वे स्वास्थ्य तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

11. उम्मीदवार को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबंधित उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. (क) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण (ख) अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक मानक के मार्गदर्शक संकेत और (ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण आदि की विस्तृत जानकारी के संबंध में क्रमशः परिशिष्ट I, II और III में विस्तार से समझाया गया है।

कुलदीप कुमार सहरावत  
उप सचिव

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना:

1. लिखित परीक्षा के विषय, नियत समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे।

| विषय                    | कोड | अवधि       | अधिकतम अंक |
|-------------------------|-----|------------|------------|
| गणित                    | 01  | 2-1/2 घंटे | 300        |
| सामान्य योग्यता परीक्षण | 02  | 2-1/2 घंटे | 600        |
| कुल                     |     |            | 900        |

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे। गणित और सामान्य योग्यता परीक्षण के भाग-ख के प्रश्न-पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किये जाएंगे।

3. प्रश्न-पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी हालत में उन्हें प्रश्न-पत्र के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी।

5. परीक्षा के एक अथवा सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विवक्षा पर रहेगा।

6. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (प्रश्न-पुस्तिकाओं) के उत्तर लिखने के लिये केलकुलेटर अथवा गणितीय अथवा लघुगुणकीय सारणियां प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः ये उन्हें परीक्षा भवन में नहीं लानी चाहिए।



## (ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण :

## प्रश्न-पत्र-I

## गणित

(कोड संख्या 01)

(अधिकतम अंक 300)

## 1. बीजगणित:

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों पर संक्रिया, वेन आरेख। द-मारगन नियम, कार्तीय गुणन, संबंध, तुल्यता-संबंध।

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण। संमिश्र संख्याएं-आधारभूत गुणधर्म, मापांक, कोणांक, इकाई का घनमूल। संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली। दशमलव प्रणाली की एक संख्या का द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन। अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा हरात्मक श्रेणी, वास्तविक गुणांकों सहित द्विघात समीकरण। ग्राफों द्वारा दो चरों वाले रैखिक असमिका का हल। क्रमचय तथा संचय। द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। लघुगणक तथा उनके अनुप्रयोग।

## 2. आव्यूह तथा सारणिक:

आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों पर संक्रिया। आव्यूह के सारणिक, सारणिकों के आधारभूत गुणधर्म, वर्ग आव्यूह के सहखंडन तथा व्युत्क्रम, अनुप्रयोग-दो या तीन अज्ञातों में रैखिक समीकरणों के तंत्र का कैमर के नियम तथा आव्यूह पद्धति द्वारा हल।

## 3. त्रिकोणमिति:

कोण तथा डिग्रियों तथा रेडियन में उनका मापन। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय सर्वसमिका योग तथा अंतर सूत्र। बहुल तथा अपवर्तक कोण। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। अनुप्रयोग-ऊँचाई तथा दूरी, त्रिकोणों के गुणधर्म।

## 4. दो तथा तीन विमाओं की विश्लेषिक ज्यामिति:

आयतीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दूरी सूत्र, एक रेखा का विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण। एक रेखा से एक बिन्दु की दूरी। मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत्त का समीकरण। परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानक प्रकार। एक शांकव की उत्केन्द्रता तथा अक्ष। त्रिविम आकाश में बिन्दु, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी। दिक्-को साइन तथा दिक्-अनुपात। समतल तथा रेखा के विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण तथा दो तलों के मध्य कोण। गोले का समीकरण।

## 5. अवकल गणित:

वास्तविक मान फलन की अवधारणा-फलन का प्रांत, रेंज व ग्राफ। संयुक्त फलन, एकैकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, सीमांत की धारणा, मानक सीमांत-उदाहरण। फलनों के सांतत्य-उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीज गणितीय संक्रिया, एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलन एक अवकलन के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रयोग। योग के अवकलज, गुणनफल। और फलनों के भागफल, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज। द्वितीय श्रेणी अवकलज, वर्धमान तथा ह्रास फलन। उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग।

## 6. समाकलन गणित तथा अवकलन समीकरण:

अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडशः समाकलन, बीजीय व्यंजकों सहित मानक समाकल, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अलिपरवलयिक फलन। निश्चित समाकलनों का मानांकन वक्र रेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण-अनुप्रयोग।

अवकलन समीकरण की डिग्री तथा कोटि की परिभाषा, उदाहरणों द्वारा अवकलन समीकरण की रचना। अवकलन समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल। विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकलन समीकरणों का हल-उदाहरण। वृद्धि तथा क्षय की समस्याओं में अनुप्रयोग।

## 7. सदिश बीजगणित:

दो तथा तीन विमाओं में सदिश, सदिश का परिमाण तथा दिशा, इकाई तथा शून्य सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दुगुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल, अनुप्रयोग-बल तथा बल के आघूर्ण तथा किया गया कार्य तथा ज्यामितीय समस्याओं में अनुप्रयोग।

## 8. सांख्यिकी तथा प्रायिकता :

**सांख्यिकी:** आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण। ग्राफीय निरूपण-आयत चित्र, पाई चार्ट, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। प्रसरण तथा मानक विचलन-निर्धारण तथा तुलना। सहसंबंध तथा समाश्रयण।

**प्रायिकता:** यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि, घटना, परस्पर अपवर्जित तथा निश्चेष घटनाएं-असंभव तथा निश्चित घटनाएं, घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ। पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं। प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय-साधारण प्रश्न। प्रतिदर्श समष्टि पर फलन के रूप में यादृच्छिक चर। द्विआधारी बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण।

## प्रश्न पत्र-II

## सामान्य योग्यता परीक्षण

(कोड संख्या 02)

(अधिकतम अंक-600)

## भाग (क) अंग्रेजी

(अधिकतम अंक 200)

अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग का परीक्षण हो सके। पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और प्रयोग विधि शब्दावली तथा अंग्रेजी में उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित परिच्छेद की बोधगम्यता तथा संबद्धता।

## भाग (ख) सामान्य ज्ञान

(अधिकतम अंक 400)

सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सामायिक विषय आयेंगे।

इस प्रश्न-पत्र में शामिल किए गए विषयों का क्षेत्र निम्न पाठ्य-विवरण पर आधारित होगा। उल्लिखित विषयों को सर्वांग पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के ऐसे विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका इस पाठ्य विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है। उम्मीदवार के उत्तरों में विषयों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेधा और ज्ञान का पता चलना चाहिए।

खंड-क (भौतिकी) :

द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व, आर्कमिडिज का सिद्धांत, वायु दाब मापी, बिम्ब की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति नियम, बल और संवेग, बल समान्तर चतुर्भुज, पिण्ड का स्थायित्व और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान।

ऊष्मा का प्रभाव, तापमान का माप और ऊष्मा, स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा अभिगमन की विधियां। ध्वनि तरंग और उनके गुण-धर्म, सरल वाद्य यंत्र, प्रकाश का ऋतुरेखीय चरण, परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय दर्पण और लेन्सेज, मानव नेत्र, प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक के गुण धर्म। पृथ्वी चुम्बक के रूप में। स्थैतिक तथा धारा विद्युत। चालक और अचालक, ओहम नियम, साधारण विद्युत परिपथ। धारा के मापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव, वैद्युत शक्ति का माप। प्राथमिक और गैणसेल। एक्स-रे के उपयोग। निम्नलिखित के कार्य के संचालन के सिद्धान्त : सरल लोलक, सरल घिरनी, साइफन, उत्तोलक, गुब्बारा, पंप, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्सूचक, तड़ित चालक, सुरक्षा फ्यूज।

खंड-ख (रसायन शास्त्र) :

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण तथा यौगिक, प्रतीक सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर) वायु तथा जल के रासायनिक गुण धर्म, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाई-आक्साइड की रचना और गुण धर्म, आक्सीकरण और अपचयन।

अम्ल, क्षारक और लवण।

कार्बन-भिन्नरूप

उर्वरक-प्राकृतिक और कृत्रिम।

साबुन, कांच, स्याही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपाउडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री।

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार, संयोजकता का प्रारंभिक ज्ञान।

खंड (ग) (सामान्य विज्ञान) :

जड़ और चेतन में अंतर।

जीव कोशिकाओं, जीव द्रव और ऊतकों का आधार।

वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन।

मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान।

सामान्य महामारियां और उनके कारण तथा रोकने के उपाय।

खाद्य-मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत। खाद्य के अवयव, संतुलित आहार, सौर परिवार, उल्का और धूमकेतु, ग्रहण।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां।

खंड-घ (इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि) :

भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर सर्वेक्षण तथा संस्कृति और सभ्यता की विशेष जानकारी।

भारत में स्वतंत्रता आंदोलन

भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारंभिक अध्ययन। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायती राज, सहकारी समितियां और सामुदायिक विकास की प्रारंभिक जानकारी।

भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य।

महात्मा गांधी के मूल उपदेश।

आधुनिक विश्व निर्माण करने वाली शक्तियां, पुनर्जागरण, अन्वेषण और खोज, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और रूसी क्रांति, समाज पर विज्ञान और औद्योगिकी का प्रभाव।

एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र, पंचशील, लोकतंत्र, समाजवाद तथा साम्यवाद, वर्तमान विश्व में भारत का योगदान।

खंड-ङ (भूगोल) :

पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और रेखांश, समय संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा, पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव, पृथ्वी का उद्भव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण, अपक्षय-यांत्रिक और रसायनिक, भूचाल तथा ज्वालामुखी। महासागर धाराएं और ज्वार भाटे।

वायुमण्डल और इसका संगठन, तापमान और वायुमण्डलीय दाब।

भूमण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, आर्द्रता, द्रव्यण और घर्षण,

जलवायु के प्रकार, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र।

भारत का क्षेत्रीय भूगोल-जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण। भारत के महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन, मुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग, भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मर्दे।

खंड-च (सामयिक घटनाएं) :

हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। सामयिक महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं।

महत्वपूर्ण व्यक्ति-भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, इनमें सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल हैं।

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र के भाग (ख) में नियत अधिकतम अंकों में सामान्यतः खण्ड क, ख, ग, घ, ङ तथा च प्रश्नों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20%, 20% तथा 10% अंक होंगे।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण :

उम्मीदवार की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित परीक्षा ली जाएगी। उनके ग्रुप परीक्षण भी किए जाएंगे, जैसे ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना, बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा। ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेधाशक्ति की जांच के लिए हैं। मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए अपितु इनसे उसकी सामाजिक विशेषताओं तथा सामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

#### परिशिष्ट-II

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानक के मार्गदर्शक संकेत

टिप्पणी : उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। इस संबंध में मार्गदर्शक संकेत नीचे दिये गये हैं। बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अन्तिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि सेवा चयन बोर्ड से अनुशंसा के बाद सैनिक अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा में शीघ्र निर्णय के लिए छोटी-मोटी कमियों/बीमारियों को दूर कर लें।

कुछ ऐसे दोष/बीमारियां नीचे दर्शाई गई हैं :--

- (क) कान का मैल
- (ख) डेवियेटिड नेज़ल सेप्टम
- (ग) हाइड्रोसिल/फीमोसिस
- (घ) अधिक भार/कम भार
- (ङ) छाती कम होना
- (च) बवासीर
- (छ) गाहनी कामेस्टिया
- (ज) टॉसिल
- (झ) वेरिकोसिल

सशस्त्र सेना में सभी प्रकार के कमीशन के लिए प्रवेश पाने वाले असैनिक उम्मीदवार चयन बोर्ड द्वारा अपनी जांच के दौरान किसी क्षति या संक्रमित रोग होने पर सेना के स्रोतों से सरकारी खर्च पर बाह्य-रोगी चिकित्सा के हकदार होंगे--वे अस्पताल के अधिकारी-वार्ड में सरकारी खर्च पर अंतरोगी चिकित्सा के भी पात्र होंगे, बशर्ते कि--

- (क) क्षति परीक्षण के दौरान हुई हो, अथवा
- (ख) चयन बोर्ड द्वारा परीक्षण के दौरान रोग का संक्रमण हुआ हो और स्थानीय सिविल अस्पताल में उपयुक्त जगह नहीं हो या रोगी को सिविल अस्पताल में ले जाना अव्यवहारिक हो; अथवा

(ग) चिकित्सा बोर्ड उम्मीदवार को प्रेषण हेतु दाखिल कराना अपेक्षित समझे।

नोट : वे विशेष सेवा के हकदार नहीं हैं।

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। अकादमी में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिये जाते हैं। चिकित्सा बोर्ड का कार्यवृत्त गोपनीय होता है, जिसे किसी को नहीं दिखाया जाएगा। किन्तु अयोग्य/अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड से अपील करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी। अपील चिकित्सा बोर्ड के दौरान अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के प्रावधान के बारे में सूचित किया जायेगा।

(क) उम्मीदवारों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक सैन्य कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन/दैहिक दोष या वजन की कमी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार ज्यादा वजन और मोटा नहीं होना चाहिए।

(ग) कद कम से कम 157.5 सेंमी. (वायु सेना के लिए 162.5 सेंमी) का हो। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमायूँ के व्यक्तियों का 5 सेंमी. कम कद स्वीकार्य होगा। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेंमी. की कमी भी स्वीकार्य की जा सकती है। कद और वजन मानक नीचे दिए जाते हैं।

कद और वजन के मानक-थल सेना/वायु सेना के लिए

#### सारणी-I

| कद सेंटीमीटरों में<br>(बिना जूता) | वजन किलोग्राम में |               |               |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                   | 16-17<br>वर्ष     | 17-18<br>वर्ष | 18-19<br>वर्ष |
| 152                               | 42.5              | 44            | 45            |
| 155                               | 43.5              | 45.5          | 47            |
| 157                               | 45                | 47            | 48            |
| 160                               | 46.5              | 48            | 49            |
| 162                               | 48                | 50            | 51            |
| 165                               | 50                | 52            | 53            |
| 167                               | 51                | 53            | 54            |
| 170                               | 52.5              | 55            | 56            |
| 173                               | 54.5              | 57            | 58            |
| 175                               | 56                | 59            | 60            |
| 178                               | 58                | 61            | 62            |
| 180                               | 60                | 63            | 64.5          |
| 183                               | 62.5              | 65            | 66.5          |

कद और वजन के मानक-नौसेना के लिए

सारणी-II

| कद सेंटीमीटरों में<br>(बिना जूता) | वजन किलोग्राम में |         |         |
|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|
|                                   | 16 वर्ष           | 18 वर्ष | 20 वर्ष |
| 152                               | 44                | 45      | 46      |
| 155                               | 45                | 46      | 47      |
| 157                               | 46                | 47      | 49      |
| 160                               | 47                | 48      | 50      |
| 162                               | 48                | 50      | 52      |
| 165                               | 50                | 52      | 53      |
| 168                               | 52                | 53      | 55      |
| 170                               | 53                | 55      | 57      |
| 173                               | 55                | 57      | 59      |
| 175                               | 57                | 59      | 61      |
| 178                               | 59                | 61      | 62      |
| 180                               | 61                | 63      | 64      |
| 183                               | 63                | 65      | 67      |

उपर्युक्त सारणी-1 में दिए गए औसत वजन का  $\pm 10$  प्रतिशत (नौ सेना के लिए  $\pm 6$  किलोग्राम) कम ज्यादा वजन सामान्य सीमा के अंदर माना जाएगा। किन्तु भारी हड्डियों वाले लंबे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-1 : ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित कर देता है कि उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा होने तक बढ़कर अपेक्षित मानक तक हो सकता है कद में 2.5 सेंमी की (नौ सेना के लिए 5 सेंमी) छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-2 : वायु सेना में पायलट के रूप में विशेष अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई तथा बैठे हुए लंबाई की स्वीकार्य माप निम्न प्रकार होगी :-

|                | न्यूनतम      | अधिकतम        |
|----------------|--------------|---------------|
| टांग की लंबाई  | 99.00 सेंमी. | 120.00 सेंमी. |
| जांघ की लंबाई  | --           | 64.00 सेंमी.  |
| बैठे हुए लंबाई | 81.50 सेंमी. | 96.00 सेंमी.  |

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के उम्मीदवार की कम उम्र के कारण 5.0 सेंमी तक ऊंचाई में 2.5 सेंमी (न्यूनतम) एक टांग की लंबाई में और 1.0 सेंमी (न्यूनतम) तक बैठे हुए ऊंचाई में गुंजाइश दी जा सकती है बशर्ते कि चिकित्सा बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया हो कि उम्मीदवार में बढ़ोत्तरी हो सकती है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने तक यह अपेक्षित स्तर प्राप्त कर सकता है।

(घ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए, पूर्ण रूप से फुलाया हुआ सीना 81 सेंमी. से कम नहीं होना चाहिए। पूरा सांस लेने के बाद

इसका न्यूनतम फुलाव 5 सेंमी होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए। छाती का एक्स-रे करना जरूरी है। इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है।

(ङ) हड्डियों या जोड़ों में कोई अप विकास या उनकी कार्यप्रणाली में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए।

मेरुदण्ड स्थितियां

(च) मेरुदण्ड अथवा त्रिक--श्रेणिफलक--संधि संबंधी रोग या अभिघात का पूर्व चिकित्सीय इतिहास, अभिदृश्यक लक्षणों सहित या उनके बिना जो उम्मीदवार को शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन सफलतापूर्वक जीने से रोक रहे हों के मामले में भारतीय वायु सेना में कमीशन नहीं दिया जाएगा। मेरुदण्ड अस्थिभंग/अन्तरा कशेरुका चक्रिया भ्रंश का इतिहास तथा इन स्थितियों के लिए किए गए शल्य चिकित्सकीय उपचार स्वीकार्य नहीं होंगे। चिकित्सा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित स्थितियां पाए जाने पर उम्मीदवार वायु सेना सेवा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे :-

(i) मेरुदण्ड का कणिकागुल्मीय रोग

(ii) संधिशोथ संरूप/कशेरुकासन्धिग्रह

—रुमेटॉइड सन्धिशोथ तथा संबद्ध विकार

—बढ़ कशेरुकासन्धिशोथ

—अस्थिसंधिशोथ, कशेरुकासंधिग्रह तथा अपविकसित संधि रोग

—संधिहीन आभवात (यथा घूर्ण कफ की विक्षति, टेनिस कूर्पर, पुनरावर्ती कटिवेदना आदि)

—एस एल ई, त्वकपेशी शोथ, बहुपेशीशोथ पर्विका वाहिकाशोथ सहित विविध विकार

(iii) कशेरुकाग्रसर्पण/कशेरुकासन्धिग्रह

(iv) कशेरुकाओं का सम्पीड़न अस्थिभंग

(v) शेयूरमैन रोग (कौमार कुब्जता)

(vi) मग्नैव मेरुदण्ड की निर्बन्धित गतियों से संबद्ध होने पर ग्रैव अग्रकुब्जता की क्षति

(vii) एक पार्श्वीय/द्विपार्श्वीय ग्रैव पशुका सहित प्रभाण्य तंत्रिकावैज्ञानिक या परिसंचरण कमी

(viii) कौब पद्धति द्वारा मापे जाने पर 15 डिग्री से अधिक पार्श्वकुब्जता

(ix) मज्जा केन्द्रक हर्नियेशन

(x) एक से अधिक स्तर पर शमोल पर्व की मौजूदगी

(xi) शीर्षधर पश्चकपाल और शीर्षधर अक्षक विषमताएं

(xii) ग्रैव, अभिपृष्ठ या कटि मेरुदण्ड में किसी भी स्तर पर अर्ध कशेरुका तथा/अथवा अपूर्ण रोध (संयुक्त) तथा ग्रैव, अभिपृष्ठ या कटि मेरुदण्ड में एक से अधिक स्तर पर पूर्ण कशेरुका रोध

(xiii) सभी स्तरों पर एकपाश्वीय त्रिकास्थ संयोजन अथवा कटि कशेरुका भवन (पूर्ण या अपूर्ण) तथा द्विपाश्वीय अपूर्ण त्रिकास्थ संयोजन अथवा कटि कशेरुका भवन

(xiv) विशेषज्ञ द्वारा विचार की गई कोई अन्य असामान्यता

(छ) हल्का काइफोसिस या लोडोसिस जहां विरूपता मुश्किल से दिखाई देती है जहां दर्द की या हरकत में रुकावट की शिकायत नहीं है, स्वीकृति में बाधा नहीं बनेगा।

(ज) दिखाई पड़ने वाले स्कोलिओसिस के या अन्य किसी तरह की असामान्यता या मेरुदण्ड की विरूपता का जो मामूली से अधिक हो—संदेह होने पर मेरुदण्ड का उपयुक्त एक्स-रे लिया जाना है और परीक्षार्थी को विशेषज्ञ की सलाह हेतु प्रस्तुत करना है।

(झ) एक्स-रे परीक्षा के बाद पाई गई निम्नलिखित अवस्थाएं थल सेना में प्रवेश हेतु अयोग्यता का कारण मानी जाएंगी :—

1. मेरुदण्ड की ग्रैन्यूलोमेट्स बीमारी
2. आर्थराइटिडीस/स्पेण्डिलोसिस
3. कावपद्धति से यथामापित स्कोलियोसिस जो 15° से अधिक हो। (थल सेना के लिए 10 डिग्री)
4. मामूली से ज्यादा काइफोसिस/लोडोसिस
5. स्पेण्डिलोसथेसिस/स्पेण्डिलोसिस
6. हरनिएटिड न्यूक्लियस, पलपोसिस
7. कशेरुक का संपीडन विभंग
8. श्वैरमेन की बीमारी
9. प्रदर्शनीय तंत्रकीय या प्रसिंचारी अभाव के साथ ग्रेव पशुका
10. एक से अधिक स्तर पर श्मोले के नोड की उपस्थिति।
11. शीर्षधरानुकपाल (अटलांटे-आक्सीपीटल) तथा अटलांटे अक्षीय असंगतियां।
12. 'एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय अपूर्ण स्कारलाइजेशन'
13. एस.वी. 1 तथा एल.वी. 5 के इतर स्पाईनाबाइफिडा।
14. विशेषज्ञ द्वारा मानी गई कोई अन्य अपसामान्यता।

(ञ) उम्मीदवार मानसिक विकृति या दौरे पड़ने का पिछला रोगी नहीं होना चाहिए।

(ट) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके। उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 सें.मी. की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके। कर्ण नासिका की पिछली या अब की बीमारी का कोई प्रमाण न हो। वायु सेना के लिए श्रव्यतामिक्त परीक्षण किये जाएंगे। 250 एच. जैड, 4000 एच. जैड के बीच की आवर्तियों में श्रव्यतामिक्त कमी +20 डेसिबल से अधिक नहीं हो। वाणी में किसी प्रकार की हकलाहट नहीं होनी चाहिए।

(ठ) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए। रक्त दाब सामान्य हो।

(ड) जिगर या तिल्ली बड़ी हुई न हो, उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ढ) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया है और उसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो तो वह उम्मीदवार अनुपयुक्त होगा, ऐसे मामले में जहां हर्निया की शल्य-क्रिया की गई हो, पाठ्यक्रम आरंभ होने से पहले अंतिम चिकित्सीय परीक्षण के पहले कम से कम छः महीने बीत गए हों।

(ण) हाइड्रोसील, वेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए।

(त) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असमानता मिलती है तो इस पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा।

(थ) अशक्तता लाने या आकृति बिगाड़ने वाले चर्म का ऐसा रोग होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(द) उम्मीदवार को दूर-दृष्टि चार्ट को ऐनक लगाकर या ऐनक हटाकर अच्छी आंख में 6/6 तथा खराब आंख में 6/9 की दृष्टि से पढ़ने में समर्थ होना चाहिए। मायोपिया 2.5 डी तथा हायपरमेट्रोपिया 3.5 डी (एस्टिमेटिज्म सहित) से अधिक नहीं होना चाहिए। यह जानने के लिए कि आंख में कोई रोग तो नहीं है आंख की आंतरिक परीक्षा औपथलमेस्कोप से की जाएगी। उम्मीदवार के दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। वर्ण दृष्टि का मानक सी.पी. स्थल सेना के लिए सीपी III होगा। उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि उसे या इसके परिवार के किसी सदस्य को जन्मजात रतौंधी आने का रोग नहीं हुआ है।

जिन उम्मीदवारों ने दृष्टि की तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए रेडियल केरीटोमी करवाई हो या जिनके पास से इसे करवाने का प्रमाण मिलेगा उन्हें सभी तीनों सेवाओं से स्थाई रूप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने वर्तन दोष (रिफ्रेक्टिव एर) को ठीक करवाने के लिए लेसिक सर्जरी करवाई हुई है, वे रक्षा सेवाओं के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

नौसेना उम्मीदवारों की दृष्टि मानक :

|                        |       |
|------------------------|-------|
| बिना चश्मे के असंशोधित | 6/6   |
| चश्मे के साथ संशोधित   | 6/6   |
| निकट दृष्टि की सीमा    | -0.75 |
| दूर दृष्टि की सीमा     | +1.5  |
| दूरबीन दृष्टि          | 111   |
| कलर प्रिसेप्शन की सीमा | 1     |

दृष्टि संबंधी पेशी संतुलन मेडाक्स रॉड टेस्ट के साथ हैट्रोफोरिया निम्न से अधिक बिल्कुल न हो :

(i) 6 मीटर पर

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| एक्सोफोरिया | 8 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| एसोफोरिया   | 8 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| हाइपरफोरिया | 1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |

(ii) 33 से.मी. पर

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| एक्सोफोरिया | 16 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| एसोफोरिया   | 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस  |
| हाइपरफोरिया | 1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस  |

वायु सेना के लिए दृष्टि मानक :

प्रायः ऐनक पहनने वाले उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं। न्यूनतम दूरस्थ दृष्टि 6/6 एक आंख में तथा 6/9 दूसरी आंख में, हाइपरमेट्रोपिया के लिए केवल 6/6 तक सही किए जाने योग्य। वर्ण दृष्टि दोष सी पी-1 हाइपरमेट्रोपिया : + 2.0 डी एस पी एच प्रत्यक्ष निकट दृष्टिता-शून्य नेत्र अपवर्तमापीय निकटदृष्टिता : 0.5 किसी भी अनुमेय याम्योत्तम में एस्टिग्मेटिज्म : + 0.75 डी सी वाई एल (+ 2.0 के अंदर डी-मैक्स)

मैडोक्स रोड परीक्षण

(i) 6 मीटर पर — इक्जो - 6 प्रिज्म डी  
इजो - 6 प्रिज्म डी  
हाइपर - 1 प्रिज्म डी  
हाइपो - 1 प्रिज्म डी

(ii) 33 से.मी. पर — इक्जो - 16 प्रिज्म डी  
इजो - 6 प्रिज्म डी  
हाइपर - 1 प्रिज्म डी  
हाइपो - 1 प्रिज्म डी

हस्त -- त्रिविधदर्शी--सभी बी एस वी ग्रेड्स

अभिसरण - 10 से. मी. तक के लिए

दूर तथा निकट के लिए कवर परीक्षण

पार्श्वीय अपसरण/अभिसरण

शीघ्र तथा पूर्व उपलब्धि

सीटू में रेडियल केरेटोमी, प्रकाश अपवर्तन केरेटोमी/लेजर

अपवर्तन संबंधी दोषों को सही कराने हेतु की गई केरेटोमिल्यूसिस (पी आर के/लेसिक) शल्य चिकित्सा वायुसेना दायित्वों के लिए अनुमत नहीं है।

आई ओ एल रोप सहित या उसके बिना मोतियाबिन्द की शल्य चिकित्सा कराने वाले उम्मीदवारों को भी अयोग्य घोषित किया जाएगा।

द्विनेत्री दृष्टि--अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होनी चाहिए (उत्तम आयाम तथा गहराई सहित संयोजन तथा स्टीरियोप्सिस)

जिन उम्मीदवारों की लेसिक शल्य चिकित्सा हुई है, उन्हें भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

(ध) यू.एस.जी. उदर जांच की जाएगी तथा किसी प्रकार की जन्मगत संरचनात्मक असामान्यता या उदर के अंगों का रोग पाए जाने पर सशस्त्र सेना से अस्वीकृत किया जा सकता है।

(न) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए। कम से कम 14 दांत बिन्दु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य है। जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत बिन्दु होते हैं।

उम्मीदवार को तोत्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए।

(प) वायुसेना के उम्मीदवारों के लिए रुटीन ईसीजी तथा ईईजी सामान्य सीमा में होने जरूरी हैं।

(फ) 'शारीरिक उपयुक्तता' प्रतिशत उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नीचे दी गई क्रियाओं के दैनिक पालन के द्वारा वे अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें :

(क) 15 मिनट में 2.4 कि.मी. की तेज दौड़।

(ख) उछल-कूद।

(ग) दण्ड-बैठक (प्रत्येक कम से कम बीस-बीस बार)।

(घ) ठोड़ी को ऊंचाई तक छूना (कम से कम आठ बार)।

(ङ) 3 से 4 मीटर रस्सी पर चढ़ना।

### परिशिष्ट-III

(सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण)

1. अकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता-पिता या संरक्षक को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे :

(क) इस आशय का प्रमाण पत्र कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाए या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) इस आशय का बंधपत्र कि, यदि उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इस आधार पर बर्खास्त या निकाला या वापस किया गया कि उसने उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने के लिए अपने आवेदन-प्रपत्र में जानबूझकर गलत विवरण दिया अथवा महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया अथवा उसे उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अनुशासनिक आधार पर बर्खास्त या निकाला अथवा वापस किया गया अथवा उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान विवाह के कारण अथवा किसी ऐसे कारण से जो कैडेट के नियंत्रण में है, वह अपने प्रशिक्षण की अवधि पूरी नहीं करता अथवा वह कैडेट, ऊपर बताए गए के अनुसार किसी कमीशन को स्वीकार नहीं करता तो गारंटीकर्ता तथा कैडेट अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से तत्काल सरकार को वह रोकड़ राशि देने के लिए बाध्य होंगे जो सरकार नियत करेगी। किंतु यह राशि उस व्यय से अधिक नहीं होगी जो सरकार ने कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान उस पर खर्च की है तथा कैडेट द्वारा सरकार से प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्ते सहित सारी राशि पर ब्याज भी लगेगा जिसकी दर सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर लगने वाली ब्याज दर, जो उस समय लागू है, के समान होगी।

2. आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी, उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक से यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार का जब खर्च वे खुद वहन करेंगे-सामान्यतया इन खर्चों के 400 रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को पूरा या आंशिक रूप से बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो पहले और दूसरे वर्ष के लिए रु. 400 तक और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीसरे वर्ष के प्रशिक्षण के लिए रु. 400 और थल सेना/नौ सेना/वायु सेना प्रशिक्षण

प्रतिष्ठानों में आगे के वरिष्ठ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के लिए रु. 400 तक सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा सकती है। ऐसा कोई कैडेट वित्तीय सहायता लेने का हकदार नहीं होगा जिसके माता-पिता अथवा अभिभावक की आय 1500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक तथा 2000/- रुपये प्रतिमाह है और यदि उनका एक से अधिक लड़का/आश्रित नौ सेना और वायु सेना में स्थापित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी तथा इनके सदृश प्रशिक्षण में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहा है।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता सा संरक्षक सरकार से किसी प्रकार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो अपने पुत्र/संरक्षित के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन-पत्र देना चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे (411023) के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा।

3. अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये, उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी:--

|   | रुपये        |
|---|--------------|
| (क) प्रतिमाह रु. 400 के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च | 2,000        |
| (ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मर्दों के लिए                  | 3200         |
| (ग) 1 सेमिस्टर के दौरान प्रासंगिक व्यय                  | 425          |
| योग   | <u>5,625</u> |

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में से नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी:--

|   | रुपये |
|---|-------|
| (क) 400 रु. प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च | 2,000 |
| (ख) वस्त्र तथा उपस्करों की मर्दों के लिए लगभग           | 475   |

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियाँ/वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं:

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है। जिनके माता-पिता की आय सभी साधनों से रु. 350 तथा रु. 500 प्र.मा. के बीच हो। छात्रवृत्ति की राशि सरकारी वित्तीय सहायता के बराबर होगी। जब तक कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या अन्य कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में रहेगा तब तक के लिए वह प्राप्त होगी किंतु शर्त यह है कि कैडेट का व्यवहार अच्छा रहे और वह संतोषजनक प्रगति करता रहे और उसकी माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से कम रहे। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी उन्हें सरकार से अन्य वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(2) कर्नल कैडिल फ्रेंक मेमोरियल छात्रवृत्ति : यह 360 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति उस मराठा कैडेट को दी जाएगी जो भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

(3) कौर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियाँ उन दो कैडेटों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतर स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक छात्रवृत्ति 37 रु. प्रति मास की होगी तथा अधिकतम 4 वर्ष के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी, देहरादून तथा वायु सेना फ्लाईंग कालिज तथा नौ सेना अकादमी, कोचीन में जहाँ कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, दी जाती रहेगी। छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जब कैडेट उपर्युक्त संस्थाओं में अच्छी प्रगति करता रहे।

(4) असम सरकार छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियाँ असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति 30 रु. प्रति मास की रहेगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिए बिना प्रदान की जाएगी। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, उन्हें सरकार की ओर से अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(5) उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियाँ : दो छात्रवृत्तियाँ 30 रु. प्रति मास की तथा 400 रु. की परिधान वृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैडेटों की योग्यता तथा आय के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में संतोषजनक प्रगति करने पर 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। जिन कैडेटों को ये छात्रवृत्तियाँ मिलेंगी उन्हें अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार से नहीं मिलेगी।

(6) केरल सरकार छात्रवृत्ति : पूरे वर्ष के लिए 480 रु. की एक योग्यता छात्रवृत्ति रा. र. अकादमी में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए केरल राज्य द्वारा उस कैडेट को दी जाती है जो केरल राज्य का अधिवासी निवासी हो और जो रा. र. अकादमी हेतु अखिल भारतीय सं. लो.से.आ. की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है भले ही उसने वह परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सेना कालिज से या भारत भर में किसी सैनिक स्कूल से उत्तीर्ण की हो। ऐसा करते समय कैडेट के पिता/संरक्षक की आर्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(7) बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार : यह 500 रुपये का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी से प्रत्येक कोर्स के लिए मिलता है, आवेदन-पत्र कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलते हैं।

(8) उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियाँ : तीन छात्रवृत्तियाँ--एक थल सेना, एक नौ सेना तथा एक वायु सेना के कैडेट के लिए प्रत्येक 80 रु. प्रति मास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियाँ कैडेटों की योग्यता तथा आय साधन के आधार पर दी जाएंगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय रु. 5000 प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा तीसरी छात्रवृत्ति बिना उसके माता-पिता या अभिभावकों की आय को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैडेट को दी जाएगी।

(9) पश्चिम बंगाल सरकार छात्रवृत्तियाँ : निम्नलिखित वर्गों की छात्रवृत्तियाँ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो पश्चिमी बंगाल के स्थायी निवासी हैं :

## योजना-I

- छात्रवृत्तियों की संख्या : प्रत्येक वर्ष में 6 छात्रवृत्तियां।
- छात्रवृत्तियों का विवरण : प्रत्येक वर्ष में आरंभ होने वाले दोनों सत्रों में थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के लिये एक-एक छात्रवृत्ति।
- छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता के लिये वित्तीय अनुदान:
- पहले वर्ष : कपड़े खरीदने हेतु 2500/- रु. का एक मुश्त वित्तीय अनुदान तथा जेब खर्च के लिये 125/- रु. प्रति माह।
- दूसरे/तीसरे/चौथे वर्ष : 129/- रु. प्रति माह का जेब खर्च।

## योजना-II

- छात्रवृत्तियों की संख्या : प्रत्येक वर्ष 6 छात्रवृत्तियां।
- छात्रवृत्तियों का वितरण : योजना I में दिये अनुसार।
- छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को वित्तीय : पहले/दूसरे/तीसरे/चौथे वर्ष - एक मुश्त 100/- रु. प्रति वर्ष का अनुदान।

(10) पाइलट अफसर गुरमीत सिंह बेदी मेमोरियल छात्रवृत्ति : रु. 420 प्रतिमाह की एक छात्रवृत्ति ऐसे कैंडेट को दी जाती है जो वायुसेना कैंडेटों के चौथे सत्र के अंत में योग्यता में सर्वोत्तम होगा। यह एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। (पांचवें और छठे सत्र के दौरान) यह छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी। यदि प्राप्तकर्ता रेलीगेट कर दिया गया हो या इसके प्राप्त करने की अवधि में छोड़कर चला गया हो। जो कैंडेट इस प्रकार की पहले से ही कोई योग्यता छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता ले रहा है, उसे छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।

(11) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति : हिमाचल प्रदेश के कैंडेटों को 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए छात्रवृत्तियां 30 रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 40 रुपये प्रतिमास मिलेगी। यह छात्रवृत्ति उन कैंडेटों को मिलेगी जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रुपये प्रतिमास से कम होगी, जो कैंडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा हो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

(12) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति : तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स रु. 30 प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में रु. 400 सज्जा भत्ता (कैंडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैंडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक/संरक्षक की मासिक आय रु. 500 से अधिक न हो। पात्र कैंडेट अपना आवेदन कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को वहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

(13) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां : कर्नाटक सरकार ने प्रति वर्ष 18 (अठारह) छात्रवृत्तियां जनवरी से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए 9 और जुलाई से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए 9, कर्नाटक राज्य के उन कैंडेटों को दी हैं जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज, देहरादून में अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं। इन छात्रवृत्तियों की राशि 480 रुपये प्रति वर्ष है।

रु. 480 प्रति वर्ष की चार (4) और छात्रवृत्तियां (दो प्रतिसत्र) कर्नाटक राज्य के उन छात्रों को दी गई हैं जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज, देहरादून के अलावा अन्य संस्थानों पर अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं।

(14) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति : बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रु. 50/- प्रतिमास की 25 योग्यता छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छः समयावधि के पूरे समय के वास्ते एक बार और रु. 650/- वस्त्र तथा उपस्कर के वास्ते देना शुरू किया है। जिस कैंडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा। पात्र कैंडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमांडेंट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(15) फ्लाईंग आफिसर डीवी पिंटू स्मारक छात्रवृत्ति : ग्रुप कैप्टन एम. वशिष्ठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में वरीयताक्रम में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कैंडेटों को पहला सेमेस्टर पूरा करने पर दूसरे सत्र के समाप्त होने तक, एक सत्र के लिए 125/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं। सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैंडेट उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। पात्र कैंडेट प्रशिक्षण पर पहुंचने के बाद कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

(16) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता--  
महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र के भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के उन आश्रितों को, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/भारतीय सैनिक अकादमी/वायु सेना अकादमी/नौ सेना अकादमी में कैंडेट के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित जेब खर्च निम्नलिखित दरों पर दिया जाएगा :

- भूतपूर्व अधिकारी : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल जेब खर्च का 50 प्रतिशत।
- भूतपूर्व जूनियर कमीशन : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल प्राप्त अधिकारी जेब खर्च का 75 प्रतिशत।
- अन्य रैंकों के भूतपूर्व : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल सैन्य कर्मों जेब खर्च का 100 प्रतिशत।

आश्रितों के माता-पिता/अभिभावकों को अपने आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करने चाहिए और इसके साथ उन्हें अकादमी से प्राप्त प्रमाण-पत्र भी भेजने चाहिए जिनमें जेब खर्च की दरें दर्शाई गई हों, जिनके आधार पर आवेदकों के माता-पिता को इस राशि का भुगतान किया जाएगा।

इन छात्रवृत्तियों की शर्तें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे (411023) से प्राप्त की जा सकती हैं।

5. चुने हुए उम्मीदवारों के अकादमी में आने के बाद तत्काल उनके लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी:--

- (क) अंग्रेजी
- (ख) गणित
- (ग) विज्ञान
- (घ) हिन्दी



(क), (ख) तथा (ग) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सैकंडरी शिक्षा बोर्ड की हायर सैकंडरी परीक्षा के स्तर से ऊंचा नहीं होगा।

(घ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह जांचा जायेगा कि उम्मीदवार को अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का कितना ज्ञान है। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त अध्ययन के लिए उदासीन न हो जाएं।

प्रशिक्षण :

6. तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 3 वर्ष के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दिया जाता है जो एक सर्व सेना संस्था है। पहले ढाई वर्ष का प्रशिक्षण तीनों सेनाओं के लिए समान है। सफल होने पर कैडेटों को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा बीएससी/बीएससी (कम्प्यूटर)/बीए डिग्री प्रदान की जायेगी।

नौसेना अकादमी के लिए चयनित उम्मीदवारों को नौसेना अकादमी, इझिमाला में 4 वर्ष की अवधि के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 के कैडेटों (कार्यकारी शाखा) को नौसेना अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने (पासिंग आउट) पर बी. टेक डिग्री प्रदान की जाएगी।

7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने के बाद थल सेना कैडेट भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में नौ सेना कैडेट, कैडेटों के प्रशिक्षण पोत में और वायु सेना कैडेट, ए.एफ.ए. हैदराबाद जाएंगे।

8. भारतीय सेना अकादमी में सेना कैडेटों को 'जेन्टलमेन कैडेट' कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इम्फेन्ट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सकें। प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने के बाद जेन्टलमेन कैडेटों को उनके शेप-एक (SHAPE-ONE) शारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन दिया जाता है।

9. नौ सेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौ सेना का कार्यपालक इंजीनियरी और बिजली शाखाओं के लिए चुना जाता है, उन्हें छः महीने के लिए कैडेट प्रशिक्षण पोत पर समुद्री प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें मिडशिपमैन रैंक में पदोन्नत किया जाता है। संबद्ध शाखा में 6 महीने तक आगे प्रशिक्षण पाने के बाद उन्हें उप लेफ्टिनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

10. वायु सेना कैडेटों को हवाई उड़ान का डेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर अनन्तिम रूप से फ्लाईंग अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है। उनके बाद छः महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थायी रूप से कमीशन अफसर के रूप में समाहित कर दिया जाता है।

सेवा की शर्तें :

11. सेना अधिकारी एवं वायु सेना व नौ सेना के समकक्ष रैंक

(i) कैडेट प्रशिक्षण हेतु वृत्तिका

जेन्टलमैन कैडेट, सेवा अकादमियों, अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, को पूरी प्रशिक्षण अवधि के दौरान

21,000/- रु. प्रतिमाह (15,600/- रुपये पै बैड के वेतन के रूप में तथा 5,400/- रुपये का ग्रेड पे) की वृत्तिका पाने के हकदार होंगे।

(ii) वेतन

| (क) रैंक                         | पै बैड (रु.)   |
|----------------------------------|--|
| लेफ्टिनेंट से मेजर               | 15,600—39,100/- (पै बैड-3)                               |
| लेफ्टिनेंट कर्नल से मेजर जनरल तक | 37,400—67,000/- (पै बैड-4)                               |
| लेफ्टिनेंट जनरल                  | एचएजी मान 67,000/- (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)--79,000/-  |
|                                  | एचएजी+मान* 75,000/- (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)--80,000/- |

(\*लेफ्टिनेंट जनरल के कुल संख्या के 1/3 पर लागू होगी)

वी सी ओ ए एस/सेना कमांडर/लेफ्टिनेंट जनरल (एनएफएसजी) 80,000 (नियत)

सी ओ ए एस 90,000 (नियत)

(ख) वेतन के अतिरिक्त ग्रेड पे भी निम्नानुसार दी जाएगी :--

|                  |              |
|------------------|--------------|
| लेफ्टिनेंट       | 5,400/- रु.  |
| कैप्टन           | 6,100/- रु.  |
| मेजर             | 6,600/- रु.  |
| लेफ्टिनेंट कर्नल | 8,000/- रु.  |
| कर्नल            | 8,700/- रु.  |
| ब्रिगेडियर       | 8,900/- रु.  |
| मेजर जनरल        | 10,000/- रु. |

(ग) लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक के रैंक के अधिकारियों को सेना सेवा वेतन (एम एस पी) के रूप में 6,000/- रुपये प्रति माह की एक नियत धनराशि भी देय है।

(iii) योग्यता वेतन तथा अनुदान

अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर विशेष निर्धारित योग्यता होने पर रु. 6,000/-, 9,000/-, 15,000/- या 20,000/- रु. का एकमुश्त योग्यता अनुदान देय है। सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नीचे दिए अनुसार योग्यता वेतन देय है :

- मास्टर उड़ान अनुदेशक--500/- रु. प्रतिमाह
- वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I--400/- रु. प्रतिमाह
- वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-II--280/- रु. प्रतिमाह
- मास्टर ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक--400/- रु. प्रतिमाह
- ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक--280/- रु. प्रतिमाह

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को नीचे दिए गए अनुसार उड़ान भत्ता देय है:—

(क) ब्रिगेडियर तथा ऊपर 10,500/- रु.

(ख) मेजर से कर्नल 14,000/- रु.

(ग) कैप्टन 11,000/- रु.

(घ) लैफ्टिनेंट 9,000/- रु.

इस समय एक अधिकारी वेतन के अलावा निम्नलिखित भत्ते प्राप्त करता है :

(क) मंहगाई भत्ता सिविल राजपत्रित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होने वाली समान दरों से और उन्हीं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा।

(ख) 400/- रु. प्रति माह की दर से किट रख-रखाव भत्ता

(ग) तैनाती के क्षेत्र एवं रैंक के आधार पर कार्यस्थल क्षेत्रों में तैनात अधिकारी 6,780/- रु. से 8,400/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक अति सक्रिय कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता 4,200/- रु. से 5,200/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता तथा 1,600/- रु. से 2,000/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक संशोधित कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता के लिए पात्र होंगे।

(घ) प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त अधिकारियों को 9,000 फीट और उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को 1,060/- रु. प्रतिमाह से 11,200/- रु. प्रतिमाह तक की रेंज में हाई एल्टीट्यूड भत्ते के पात्र होंगे जो अधिकारी के रैंक और तैनाती के स्थान पर निर्भर करेगा।

(ङ) परिधान भत्ता : एक समय किट के लिए 14,000/- रु. की दर से आरंभिक भत्ता और प्रति तीन वर्षों के लिए 3,000/- रुपये।

(च) परिवहन भत्ता : अधिकारियों को ए-1/ए वर्ग के शहरों में परिवहन भत्ता 3,200/- रुपये + उस पर मंहगाई भत्ता प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर 1,600/- रुपये + उस पर मंहगाई भत्ता दिया जाएगा।

12. (क) सेना सामूहिक बीमा निधि एक अनिवार्य अंशदायी ग्रुप स्कीम है जो नौ सेना तथा वायु सेना कैंडेटों सहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैंडेटों को कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में आने की तारीख से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करने तक रु. 8 लाख की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराती है

जिसमें 3 वर्ष के लिए अग्रिम रूप में रुपये 4,250/- की एकमुश्त राशि की बीमा किरत का एक बार में भुगतान करना होगा। पदावनति के मामले में, प्रति पदावनति अवधि के लिए रुपये 770/- का अतिरिक्त प्रीमियम पदावनति होते ही अदा किया जाएगा। वे उम्मीदवार जिन्हें अपंगता के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से चिकित्सकीय आधार पर अलग किया जाता है उन्हें 100 प्रतिशत अपंगता के लिए बीमित राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् 100 प्रतिशत अपंगता के लिए 4 लाख रु. की बीमा सुरक्षा दी जाती है, इसी अनुपात में कम होते हुए 20 प्रतिशत अपंगता के लिए रु. 80,000/- किया जाना है। बाहर निकाले गए कैंडेट जिनकी अपंगता 20 प्रतिशत से कम है, उन्हें रु. 20,000/- की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाएगी। मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसन के कारण अपंग होने पर अपंगता लाभ तथा किसी प्रकार के अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त जो कैंडेट अनुशासनिक आधार पर या अवांछनीय या स्वैच्छिक रूप से अकादमी छोड़ता है तो वह भी अपंगता लाभ या अनुग्रह अनुदान का पात्र नहीं होगा।

(ख) भारतीय सैनिक अकादमी में जब जेन्टलमैन कैंडेट वजीफा पाते हैं, तो उन्हें नियमित अधिकारियों पर लागू ए जी आई योजना के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 30 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। जो कैंडेट अपंगता के कारण चिकित्सकीय आधार पर भारतीय सैनिक अकादमी से बाहर हो जाते हैं, उन्हें शत प्रतिशत अपंगता के लिए बीमित राशि की 50 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है, अर्थात् शत प्रतिशत अपंगता के लिए 15 लाख, जो 20 प्रतिशत अपंगता के लिए समानुपातिक रूप से घटकर 3 लाख रु. हो जाती है तथा जिनकी अपंगता 20 प्रतिशत से कम है, उन्हें 20,000/- रु. की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाएगी। मद्य एवं औषधि व्यसन तथा प्रीएनरोलमेंट ओरिजिन की बीमारियों के कारण हुई अपंगता होने से अपंगता लाभ तथा अन्य किसी प्रकार के अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, जो कैंडेट अनुशासनिक आधार या अवांछनीय या स्वैच्छिक रूप से अकादमी छोड़ता है, वह भी अपंगता लाभ तथा अनुग्रह अनुदान का पात्र नहीं होगा।

### 13. सेवा निवृत्ति लाभ

पेंशन, उपदान और ग्रेच्युटी अवार्ड समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

### 14. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार होगी।

कुलदीप कुमार सहरावत  
उप सचिव

## केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 सितम्बर 2009

सं. डीपी/पर्स.एम./2009/3154/ए-19017/1/2007--श्री रवि चन्द्र गुप्ता ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30.09.2009 (अपराह्न) से निजी सचिव, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय  
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

## भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 30 सितम्बर 2009

सं. पीडी/2(5)/2007-भर्ती-IV/7292--राष्ट्रपति, श्री नरेंद्र अरूण बावीस्कर को रेयर मेटिरीयल्स प्रोजेक्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मैसूर में वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 'सी' के पद पर रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में 01 जून, 2009 के पूर्वार्ह्न से, आगामी आदेशों तक, अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

## परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 13 मार्च 2009

## आदेश

सं. 1/15(9)/2006-सत/185--जबकि यह आरोप था कि डॉ. (श्रीमती) तपोषी गांगुली, वैज्ञानिक अधिकारी 'डी', विकिरण एवं आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) दिनांक 31.12.2005 से अप्राधिकृत रूप से ड्यूटी पर अनुपस्थित रहें;

2. और जबकि उक्त डॉ. (श्रीमती) तपोषी गांगुली ने अपने उपरोक्त व्यवहार द्वारा कर्तव्य के प्रति निष्ठा का अभाव दर्शाया और इस प्रकार सरकारी कर्मचारी के रूप में अशोभनीय कार्य किया जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 के उप-नियम 1(ii) तथा उप-नियम 1(iii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया;

3. और जबकि उक्त डॉ. (श्रीमती) गांगुली को उन पर लगाए गए आरोप तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के तहत उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में दिनांक 30.10.2006 के ज्ञापन सं. 1/15(9)/2006-Vig/8317 के द्वारा सूचित किया गया था;

4. और जबकि उक्त डॉ. (श्रीमती) गांगुली ने अपने बचाव में दिए दिनांक 20.11.2006 के लिखित बयान के तहत उक्त आरोप से इंकार किया है;

5. और जबकि दिनांक 19.02.2007 के आदेश सं. 1/15(9)/2006-Vig/ के तहत जाँच प्राधिकारी नियुक्त करके केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के तहत जाँच आदेशित की गयी थी;

6. और जबकि उक्त डॉ. (श्रीमती) गांगुली ने उन पर लगाए गए आरोप प्राथमिक सुनवाई के दौरान बिना शर्त स्वीकार किए;

7. और जबकि जाँच कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् जाँच प्राधिकारी ने डॉ. (श्रीमती) गांगुली के विरुद्ध आरोप सिद्ध मानते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की;

8. और जबकि जाँच रिपोर्ट तथा इस मामले के अन्य संबंधित अभिलेखों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी, जाँच प्राधिकारी के जाँच परिणामों से सहमत हुए;

9. और जबकि जाँच रिपोर्ट के विरुद्ध लिखित अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो, प्रस्तुत करने हेतु जाँच रिपोर्ट की एक प्रति डॉ. (श्रीमती) गांगुली को दिनांक 09.04.2008 के ज्ञापन के तहत पंजीकृत रसीदी डाक द्वारा ज्ञात पते पर भेजी गयी;

10. और जबकि डॉ. (श्रीमती) गांगुली ने जाँच रिपोर्ट का कोई उत्तर नहीं दिया और उनकी ओर से न कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ;

11. और जबकि जाँच रिपोर्ट तथा इस मामले से संबंधित अन्य अभिलेखों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उक्त डॉ. (श्रीमती) गांगुली पर यदि 'सेवा से हटाने' की शास्ति लगायी जाए तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी;

12. और जबकि इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया गया। आयोग ने मामले के सभी संबंधित अभिलेखों तथा अन्य पहलुओं पर विचार करने के बाद दिनांक 10.02.2009 के पत्र सं. F.3/256/2008-SI (प्रतिलिपि संलग्न) के तहत डॉ. (श्रीमती) गांगुली को 'सेवा से हटाने' की शास्ति लगाने की सलाह दी है;

13. और जबकि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सलाह पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह स्वीकार करने और उक्त डॉ. (श्रीमती) गांगुली पर 'सेवा से हटाने' की शास्ति लगाने का निर्णय लिया है;

14. अतः अब राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 15(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा विकिरण एवं आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड की उक्त वैज्ञानिक अधिकारी/डी, डॉ. (श्रीमती) तपोषी गांगुली पर 'सेवा से हटाने' की शास्ति तत्काल प्रभाव से लगाते हैं;

15. दिनांक 31.12.2005 से लेकर यह आदेश जारी होने तक की उनकी अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि 'अकार्य दिवस' मानी जाए।

डॉ. (श्रीमती) तपोषी गांगुली  
वैज्ञानिक अधिकारी/डी,  
विकिरण एवं आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड,  
वाशी कॉम्प्लेक्स,  
नवी मुम्बई-400705

अनिल काकोडकर  
सचिव

## नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 30 सितम्बर 2009

सं. नाईस/काप्रभ-11/2-2008/655--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के श्री सीएच. मोगिली, वैज्ञानिक सहायक 'डी' को वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता 'सी' (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- तथा रु. 5,400/- के ग्रेड पे सहित) के रूप में दिनांक 01.02.2008 से, इसी इकाई में, स्थानापन हैसियत में, भावी आदेश होने तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ए. एस. लक्ष्मण राव  
प्रशासनिक अधिकारी-III

कम्पनी मामले मंत्रालय  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 सितम्बर 2009

सं. 560 (5)/6437--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं, और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :-

| क्र. सं. | सीआईएन न. | कम्पनी का नाम   |
|----------|-----------|---|
| 1        | 2         | 3   |
| 1.       | 148156    | मैसर्स सांफरोनिया रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड        |
| 2.       | 147855    | मैसर्स तपोमय एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड           |
| 3.       | 147678    | मैसर्स ज़ेबुलोन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 4.       | 147813    | मैसर्स मबली बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड     |
| 5.       | 156606    | मैसर्स इवेनिया रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड    |
| 6.       | 156469    | मैसर्स लालाजी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड     |
| 7.       | 156527    | मैसर्स इवीएडीएनई रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड  |
| 8.       | 147547    | मैसर्स मुईज़ रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड               |
| 9.       | 147607    | मैसर्स इबान बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड     |
| 10.      | 148048    | मैसर्स टाइएआइएन रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड            |
| 11.      | 158024    | मैसर्स एकान्था बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड  |

| 1   | 2      | 3   |
|-----|--------|---|
| 12. | 158087 | मैसर्स डियान्था बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड     |
| 13. | 158009 | मैसर्स डोरोन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड        |
| 14. | 158008 | मैसर्स एडीफियो बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड      |
| 15. | 158243 | मैसर्स हिमेट्ट बिल्डर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 169562 | मैसर्स यू टर्न इन्फ्राटैक प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड      |
| 17. | 161629 | मैसर्स इलहाना बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड       |
| 18. | 161824 | मैसर्स दिसबी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड        |
| 19. | 161628 | मैसर्स टाइमअस बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड       |
| 20. | 161632 | मैसर्स इन्दुभावा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड    |
| 21. | 148113 | मैसर्स नयरनी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड        |
| 22. | 164655 | मैसर्स एकामती बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड       |
| 23. | 164653 | मैसर्स एकावली रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड         |
| 24. | 164767 | मैसर्स काहिनी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड       |
| 25. | 162169 | मैसर्स कुशाधरा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड      |
| 26. | 158505 | मैसर्स मिजू बिल्डर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड    |
| 27. | 165179 | मैसर्स रुहायाना बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड     |
| 28. | 164649 | मैसर्स स्वर्णावो बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड    |
| 29. | 164654 | मैसर्स ताशवी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड        |
| 30. | 162174 | मैसर्स इशूका बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड        |
| 31. | 163297 | मैसर्स लकिनी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड        |
| 32. | 162163 | मैसर्स अबिस्त्य बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड     |
| 33. | 163069 | मैसर्स हनीफाह बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड       |
| 34. | 162171 | मैसर्स अधीरा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड        |

| 1   | 2      | 3  | 1   | 2      | 3  |
|-----|--------|--|-----|--------|--|
| 35. | 161630 | मैसर्स इशिता बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड         | 62. | 143802 | मैसर्स संचारी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड          |
| 36. | 163064 | मैसर्स हाज़िना बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड       | 63. | 144199 | मैसर्स श्रीला बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड        |
| 37. | 162304 | मैसर्स कुम्भरी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड       | 64. | 144277 | मैसर्स सिम्बाला बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड      |
| 38. | 037113 | मैसर्स डीएलएफ बजट होटल्स लिमिटेड                             | 65. | 144276 | मैसर्स तालिका रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड          |
| 39. | 037123 | मैसर्स डीएलएफ कसौली होटल्स प्राईवेट लिमिटेड                  | 66. | 144267 | मैसर्स त्रिशा रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड          |
| 40. | 037134 | मैसर्स डीएलएफ गोल्फ कोर्स होटल्स प्राईवेट लिमिटेड            | 67. | 144198 | मैसर्स तुहिना रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड          |
| 41. | 037112 | मैसर्स डीएलएफ बिज़नेस होटल्स लिमिटेड                         | 68. | 037150 | मैसर्स डीएलएफ एग्ज़ीजीवीशन सैन्टर प्राईवेट लिमिटेड           |
| 42. | 037132 | मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड             | 69. | 037203 | मैसर्स डीएलएफ जयपुर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड                  |
| 43. | 037115 | मैसर्स डीएलएफ कन्वेंशन सैन्टर्स लिमिटेड                      | 70. | 169141 | मैसर्स डीएलएफ मायनर रेस्टोरैन्स प्राईवेट लिमिटेड             |
| 44. | 037156 | मैसर्स डीएलएफ अर्चना सर्विस्ड अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड  | 71. | 161522 | मैसर्स किलया रिटेल प्राईवेट लिमिटेड                          |
| 45. | 037114 | मैसर्स डीएलएफ हैरिटेज होटल्स लिमिटेड                         | 72. | 147567 | मैसर्स टदालिया बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड       |
| 46. | 037310 | मैसर्स डीएलएफ गोवा कन्वेंशन सैन्टर प्राईवेट लिमिटेड          | 73. | 147772 | मैसर्स सीटोन बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड   |
| 47. | 037149 | मैसर्स डीएलएफ कन्वेंशन एण्ड एग्ज़ीजीवीशन प्राईवेट लिमिटेड    | 74. | 147575 | मैसर्स ओजिल्वी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड       |
| 48. | 037237 | मैसर्स डीएलएफ हैरिटेज होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 75. | 147761 | मैसर्स गास्पर बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड  |
| 49. | 037109 | मैसर्स डीएलएफ द्वारका कन्वेंशन सैन्टर प्राईवेट लिमिटेड       | 76. | 147540 | मैसर्स हरीनाक्षी एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड            |
| 50. | 148066 | मैसर्स कंसार बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड         | 77. | 037148 | मैसर्स डीएलएफ लेज़र एण्ड एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड       |
| 51. | 148068 | मैसर्स लिलियन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड        | 78. | 037152 | मैसर्स डीएलएफ बजट वैनवर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड              |
| 52. | 148069 | मैसर्स लुजूना बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड        | 79. | 037124 | मैसर्स डीएलएफ मुम्बई होटल्स प्राईवेट लिमिटेड                 |
| 53. | 148073 | मैसर्स माइरेस बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड        | 80. | 037128 | मैसर्स डीएलएफ रोहिनी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड                 |
| 54. | 163285 | मैसर्स याहवी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड         | 81. | 037128 | मैसर्स डीएलएफ होटल वैनवर्स प्राईवेट लिमिटेड                  |
| 55. | 158144 | मैसर्स अजनेता रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड          | 82. | 037145 | मैसर्स डीएलएफ एयरपोर्ट होटल्स प्राईवेट लिमिटेड               |
| 56. | 038197 | मैसर्स डीएलएफ अहमदाबाद कन्वेंशन सैन्टर प्राईवेट लिमिटेड      | 83. | 037130 | मैसर्स डीएलएफ डीलक्स होटल्स प्राईवेट लिमिटेड                 |
| 57. | 164657 | मैसर्स किनारी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड          | 84. | 037146 | मैसर्स डीएलएफ कन्वेंशन्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड        |
| 58. | 162166 | मैसर्स कुरीरा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड        | 85. | 171949 | मैसर्स डीएलएफ लिमिटलैस रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 59. | 164659 | मैसर्स रोली बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड          | 86. | 036804 | मैसर्स ऑरेलियो डेवलपर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 60. | 140786 | मैसर्स उमेद कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड                           |     |        |  |
| 61. | 148076 | मैसर्स कारलोटा बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड |     |        |  |

| 1   | 2      | 3  |
|-----|--------|--|
| 87. | 036808 | मैसर्स मर्सीड रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड                 |
| 88. | 037222 | मैसर्स डैक्सट्रीटी सिक्वोरिटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड    |
| 89. | 165414 | मैसर्स एडने बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड        |
| 90. | 165413 | मैसर्स अल्फोर्ड बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड    |
| 91. | 165443 | मैसर्स अल्डेसी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड     |
| 92. | 165411 | मैसर्स एल्डब्रिज बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड   |
| 93. | 165412 | मैसर्स एन्सले बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड      |
| 94. | 165455 | मैसर्स ब्रयूस्टर बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड   |
| 95. | 165419 | मैसर्स बारनम बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड       |
| 96. | 165416 | मैसर्स बोसलो बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड       |
| 97. | 165426 | मैसर्स क्रिस्टाबैल बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 98. | 139837 | मैसर्स नटवर बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड        |

एम. सी. सक्सेना  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में  
पटना, दिनांक 25 सितम्बर 2009

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(3)/910--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम                             |
|----------|------------|---|
| 1.       | 10100      | मैसर्स स्टारमेड रेमेडीज़ प्राईवेट लिमिटेड |
| 2.       | 6668       | मैसर्स वनविहार फाईनान्स इण्डिया लिमिटेड   |

के. एस. प्रधान  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में  
पटना, दिनांक 25 सितम्बर 2009

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(5)/910--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं, और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम   |
|----------|------------|---|
| 1.       | 11387      | मैसर्स स्पार्क मैक्स हाईटेक प्राईवेट लिमिटेड                            |
| 2.       | 1353       | मैसर्स साऊथ बिहार इंजीनियरिंग एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड |
| 3.       | 10067      | मैसर्स राजसी एनकन प्राईवेट लिमिटेड                                      |
| 4.       | 9610       | मैसर्स वेटाकॉम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड                  |
| 5.       | 7453       | मैसर्स ज्ञानती मार्केटिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड                      |
| 6.       | 4909       | मैसर्स सुप्रीम रेमेडीज़ प्राईवेट लिमिटेड                                |

के. एस. प्रधान  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वैलवर्थ एस्टेट एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुम्बई-400002, दिनांक 17 अगस्त 2009

सं. 239/030900/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वैलवर्थ एस्टेट एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित कर दी गई है।

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एकता एस्टेट एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुम्बई-400002, दिनांक 17 अगस्त 2009

सं. 233/030901/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एकता एस्टेट एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित कर दी गई है।

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. कै. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. कै. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



5

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डेक्कन इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
मुम्बई-400002, दिनांक 17 अगस्त 2009

सं. 248/06923/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डेक्कन इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स बीना एस्टेट्स एण्ड इनवेस्टमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
सम्बर्द्ध-400002, दिनांक 17 अगस्त 2009

सं. 534/27098/560(5)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बीना एस्टेट्स एण्ड इनवेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डॉ. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्वेलोर इनवेस्टमेंट्स एण्ड फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
सम्बर्द्ध-400002, दिनांक 17 अगस्त 2009

सं. 524/27092/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्वेलोर इनवेस्टमेंट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स हिमालय स्टील फोरजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मम्बई-400002, दिनांक 17 अगस्त 2009

सं. 947/26979/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हिमालय स्टील फोरजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स होटेल मनामा प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

सम्बर्द्ध-400002, दिनांक 17 अगस्त 2009

सं. 90/30305/560(5)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स होटेल मनामा प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रोमानी आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मम्बई-400002, दिनांक 17 अगस्त 2009

सं. 56/30303/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोमानी आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स त्रुप्ती कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

सम्बर्द्ध-400002, दिनांक 17 अगस्त 2009

सं. 181/60536/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ज़ुप्ती कैपिटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है।

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बी. बी. पेस्ट्रीसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 17 अगस्त 2009

सं. 667/23247/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बी. बी. पेस्ट्रीसाइड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र





कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पोरवाल एलॉय स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुम्बई-400002, दिनांक 17 अगस्त 2009

सं. 156/15136/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पोरवाल एलॉय स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गेमस्टार इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड एलाईड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुम्बई-400002, दिनांक 17 अगस्त 2009

सं. 614/31039/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गेमस्टार इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड एलाईड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी. के. गुप्ता  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में  
चेन्नै-600006, दिनांक 29 सितम्बर 2009

सं. 14147 से 17956 तक/560(5)/स्यो मोटो-2009--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम  |
|----------|------------|--|
| 1        | 2          | 3  |
| 1.       | 14147      | मैसर्स मरजापुत्तूर फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड                     |
| 2.       | 14181      | मैसर्स इलेक्ट्रोटेक कम्बाईन्स प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 3.       | 15008      | मैसर्स रागास केमिकल एन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड               |
| 4.       | 15012      | मैसर्स छामुन्डी सिलीकैट एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 5.       | 15023      | मैसर्स इनदेव ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड                            |
| 6.       | 15027      | मैसर्स रमाणी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                        |

| 1   | 2     | 3   |
|-----|-------|---|
| 7.  | 15047 | मैसर्स श्रीधर सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड                               |
| 8.  | 15048 | मैसर्स श्री लक्ष्मी सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 9.  | 15054 | मैसर्स राम्को इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 10. | 15063 | मैसर्स अरुण फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 11. | 15067 | मैसर्स ब्रज फार्म्स कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड                      |
| 12. | 15083 | मैसर्स जी. आर. एस. टूल्स प्राईवेट लिमिटेड                             |
| 13. | 15086 | मैसर्स रिजेन्ट पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड                              |
| 14. | 15088 | मैसर्स सी. एस. पी. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 15. | 15107 | मैसर्स शो स्पेस कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 16. | 15108 | मैसर्स क्रेसेन्ट ऑटोमोटिव्स एण्ड ट्रांसमिशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 17. | 15110 | मैसर्स मोहनोत कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 18. | 15150 | मैसर्स मरकरी हाऊसिंग डेवलपमेंट फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड     |
| 19. | 15151 | मैसर्स श्री एस. फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड                             |
| 20. | 15154 | मैसर्स शिवा धन्मुगा सबरी केमिकल प्राईवेट लिमिटेड                      |
| 21. | 15191 | मैसर्स केम पेक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                            |
| 22. | 15206 | मैसर्स मोनालीसा इलेक्ट्रॉनिक एण्ड जनरल एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड       |
| 23. | 15226 | मैसर्स रुद्रम प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड                            |
| 24. | 15229 | मैसर्स कम्प्यूटर रिसोर्सेस सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 25. | 15232 | मैसर्स परमेश्वरी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड                               |
| 26. | 15244 | मैसर्स फ्लोरा टूल्स एण्ड ट्रेवल्लस प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 27. | 15245 | मैसर्स रिहो पार्किंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 28. | 15252 | मैसर्स विडकॉम कैमरा एण्ड एक्सेसरीज प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 29. | 15299 | मैसर्स जेन्टल स्टीक लैंडर्स प्राईवेट लिमिटेड                          |
| 30. | 15311 | मैसर्स बी. जे. कामर्शियल क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 31. | 15312 | मैसर्स कंगारू इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 32. | 15329 | मैसर्स अंगला परमेश्वरी आयल्स प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 33. | 15334 | मैसर्स श्री केम प्राईवेट लिमिटेड                                      |
| 34. | 15358 | मैसर्स अर्चना फाईनेन्स एण्ड हायर प्रचेज प्राईवेट लिमिटेड              |
| 35. | 15404 | मैसर्स गुप्ता फाईनेन्स एण्ड हायर प्रचेज प्राईवेट लिमिटेड              |

| 1   | 2     | 3   | 1   | 2     | 3   |
|-----|-------|---|-----|-------|---|
| 36. | 15409 | मैसर्स शबरागम चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड                                       | 66. | 16260 | मैसर्स सुजाता एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                            |
| 37. | 15423 | मैसर्स सुमूखा पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड   | 67. | 16284 | मैसर्स ए. बी. जी. शिपिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 38. | 15454 | मैसर्स ट्रिनिटी स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                                      | 68. | 16378 | मैसर्स विरूधा फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड                               |
| 39. | 15545 | मैसर्स पालयम फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड  | 69. | 16383 | मैसर्स मेक होस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड                                |
| 40. | 15548 | मैसर्स कोरल फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड   | 70. | 16470 | मैसर्स सी-सेट मैनुफैक्चरर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड                |
| 41. | 15565 | मैसर्स इन्डक्वास प्राईवेट लिमिटेड   | 71. | 16499 | मैसर्स साउतो फाईनेन्स एण्ड लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 42. | 15606 | मैसर्स अनै फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड  | 72. | 16534 | मैसर्स रामकृष्ण फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड          |
| 43. | 15608 | मैसर्स विल पॉवर लिजिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड                      | 73. | 16539 | मैसर्स एवरग्रो इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड            |
| 44. | 15694 | मैसर्स चेन्दुर कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड                                  | 74. | 16540 | मैसर्स एम्ब्रोनिक्स टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 45. | 15718 | मैसर्स लक्ष्मीप्रिया फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड                                  | 75. | 16636 | मैसर्स वेल्पा मैग्नीसिया लिमिटेड                                      |
| 46. | 15729 | मैसर्स एकेडेमिक साइन्टिफिक टेक्नीकल पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड | 76. | 16728 | मैसर्स सनबीम फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड                                |
| 47. | 15749 | मैसर्स ऐश्वर्या डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड                          | 77. | 16754 | मैसर्स उद्यम फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड              |
| 48. | 15826 | मैसर्स मनीदेवी कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड             | 78. | 16789 | मैसर्स एम. एस. आर. फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड                          |
| 49. | 15838 | मैसर्स आदित्या मल्टी वाल सैक्स प्राईवेट लिमिटेड                                 | 79. | 16826 | मैसर्स सिस्टम्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड                           |
| 50. | 15862 | मैसर्स सानुम फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड  | 80. | 16891 | मैसर्स बालाजी स्पंज आयरन प्राईवेट लिमिटेड                             |
| 51. | 15877 | मैसर्स मुरली मैरीन एंसिलेरीज प्राईवेट लिमिटेड                                   | 81. | 17385 | मैसर्स नाऊ ऑन फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड                               |
| 52. | 15887 | मैसर्स विजय वर्धन स्पीनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड                               | 82. | 17404 | मैसर्स पेनिनसुलर कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड                  |
| 53. | 15910 | मैसर्स योगाम्बिगै पुलवराइज एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड                       | 83. | 17442 | मैसर्स सार्टीफिक इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                     |
| 54. | 15930 | मैसर्स स्वीसीरा ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड                                     | 84. | 17448 | मैसर्स तिरु मारन रियल एस्टेट्स एण्ड हाउसिंग फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 55. | 15968 | मैसर्स गैलेक्सी बैटरी प्राईवेट लिमिटेड  | 85. | 17455 | मैसर्स शिवा रेड्डी ब्रदर्स एग्रो हाई-टेक प्राईवेट लिमिटेड             |
| 56. | 15973 | मैसर्स सनसाईन अब्रासीव प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                              | 86. | 17660 | मैसर्स श्री पलनीयप्पा फाईनेन्स (मद्रास) प्राईवेट लिमिटेड              |
| 57. | 15974 | मैसर्स रोहिणी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड                                       | 87. | 17754 | मैसर्स होण्डा फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड                   |
| 58. | 16021 | मैसर्स अनन्या फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड   | 88. | 17796 | मैसर्स रामाकृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 59. | 16048 | मैसर्स आर्ट सिनेमाटोग्राफी ग्लोरियस डेवलपमेन्ट फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड         | 89. | 17836 | मैसर्स कुकवेल एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड                               |
| 60. | 16052 | मैसर्स हिल्डा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                                      | 90. | 17894 | मैसर्स गुड फ्रैण्ड्स फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 61. | 16066 | मैसर्स बी. एण्ड एम. ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड                                   | 91. | 17899 | मैसर्स गुडविल रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 62. | 16084 | मैसर्स सूयामेन्डेर इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड                               | 92. | 17900 | मैसर्स ओदी फ्यूजन अलॉयस प्राईवेट लिमिटेड                              |
| 63. | 16152 | मैसर्स प्रार्थना फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड                                      | 93. | 17904 | मैसर्स अनुगृहा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड                              |
| 64. | 16218 | मैसर्स सरवणा साल्वेन्ट प्राईवेट लिमिटेड   |     |       |   |
| 65. | 16236 | मैसर्स पल्सर फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                     |     |       |   |

| 1    | 2     | 3   |
|------|-------|---|
| 94.  | 17908 | मैसर्स शोडा होटल्स लिमिटेड                                  |
| 95.  | 17922 | मैसर्स छालानी फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड                     |
| 96.  | 17926 | मैसर्स विशाल लैंडर्स प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 97.  | 17929 | मैसर्स वस्तानी एक्सपोर्ट्स एण्ड प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 98.  | 17932 | मैसर्स इलूर ट्रीटेड टिम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड               |
| 99.  | 17949 | मैसर्स एन्प्लास्ट आर्गानिक्स प्राईवेट लिमिटेड               |
| 100. | 17956 | मैसर्स अरादी फुटवियर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड           |

सी. रूपचन्द्र  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स श्रीपदम फाईनेसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
कोच्चि-682021, दिनांक 24 सितम्बर 2009

सं. 560(3)एमसीआर/आरओसी/एरनाकुलम/560/2009/00046--  
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में  
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आज से तीन महीने के बाद  
मैसर्स श्रीपदम फाईनेसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल  
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त  
कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एस. एम. अमीरूल मिल्लथ  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
केरल एवं लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 23 सितम्बर 2009

सं. आरएपी/560(5)/जेटीए/डीएसके-122/2009--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती  
है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया  
है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

| क्र.<br>सं. | कम्पनी<br>सं. | कम्पनी का नाम  |
|-------------|---------------|--|
| 1           | 2             | 3  |
| 1.          | 18009         | मैसर्स डायना स्ट्रिप्स प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 2.          | 18014         | मैसर्स डिडामोंडा एक्वा रॉन्च एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3.          | 18015         | मैसर्स संभव प्रोजेक्ट्स लिमिटेड                                |

| 1   | 2     | 3   |
|-----|-------|---|
| 4.  | 18017 | मैसर्स टीम वर्क इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 5.  | 18018 | मैसर्स दत्ता मनिकन्टा टीक एण्ड सैण्डल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 6.  | 18020 | मैसर्स प्रीमियर एग्रो प्रोसेस लैम्ब प्राईवेट लिमिटेड            |
| 7.  | 18025 | मैसर्स श्री वेंकट पद्मा एक्वा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड          |
| 8.  | 18030 | मैसर्स एबल स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड             |
| 9.  | 18031 | मैसर्स कोलमेन एण्ड योमेन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड            |
| 10. | 18039 | मैसर्स मार्क शिप ब्रेकिंग लिमिटेड                               |
| 11. | 18047 | मैसर्स डी. सी. कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 12. | 18052 | मैसर्स रीयल पॉवर टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 13. | 18055 | मैसर्स हर्निमा कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड                  |
| 14. | 18061 | मैसर्स सुरभी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड                             |
| 15. | 18062 | मैसर्स श्री लक्ष्मी हैचरीज प्राईवेट लिमिटेड                     |
| 16. | 18064 | मैसर्स मेघाला फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड                          |
| 17. | 18066 | मैसर्स रेड कौक पोल्ट्री एण्ड फीड फार्म प्राईवेट लिमिटेड         |
| 18. | 18074 | मैसर्स राजकुमार साइज प्राईवेट लिमिटेड                           |
| 19. | 18081 | मैसर्स एस्मा लैम्ब प्राईवेट लिमिटेड                             |
| 20. | 18141 | मैसर्स के. एम. एस. फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड                     |
| 21. | 18142 | मैसर्स श्री वेन साई फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 22. | 18149 | मैसर्स उदय किरण फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 23. | 18157 | मैसर्स पद्मावती एक्सप्लोसिव केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड           |
| 24. | 18231 | मैसर्स एचन एक्वा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 25. | 18320 | मैसर्स स्पेन्सर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 26. | 18338 | मैसर्स इंटिग्रेटेड हैल्थ स्पोर्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड      |
| 27. | 18357 | मैसर्स चन्दाना सी-फूड्स लिमिटेड                                 |
| 28. | 18365 | मैसर्स स्टार टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 29. | 18375 | मैसर्स श्री शिरडी साई हैचरीज प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 30. | 18384 | मैसर्स श्री शिवा प्रिया सिमेन्ट्स लिमिटेड                       |
| 31. | 18392 | मैसर्स अखिला साम्या एक्वा प्राईवेट लिमिटेड                      |
| 32. | 18403 | मैसर्स गोल्डन स्ट्रीक फ्लोरिकल्चर लिमिटेड                       |
| 33. | 18415 | मैसर्स सत्या ललिता सी-फूड्स एण्ड प्रोसेसिंग कम्पनी लिमिटेड      |
| 34. | 18418 | मैसर्स सोना हार्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड                          |



| 1   | 2     | 3   | 1   | 2     | 3   |
|-----|-------|---|-----|-------|---|
| 35. | 18419 | मैसर्स एम. वाई. एम. फिल्मस लिमिटेड                              | 68. | 18973 | मैसर्स ए. एण्ड एम. ओरचाईस प्राईवेट लिमिटेड                |
| 36. | 18435 | मैसर्स क्रिप्स ग्रैनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड                      | 69. | 18974 | मैसर्स रेक्स इलैक्ट्रॉनिक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड       |
| 37. | 18437 | मैसर्स कासम रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                          | 70. | 18990 | मैसर्स लोरवन एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 38. | 18445 | मैसर्स भूमिका रीयल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड                    | 71. | 18999 | मैसर्स सन्ली ऑटोज प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड             |
| 39. | 18449 | मैसर्स आशिर्वाद एक्वा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड                  | 72. | 19010 | मैसर्स श्री राजकमल हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड               |
| 40. | 18469 | मैसर्स ईको फार्म सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड                      | 73. | 19011 | मैसर्स माधवी फिन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 41. | 18489 | मैसर्स सूर्या मोल्ड-प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड                    | 74. | 19016 | मैसर्स ए. पी. मेटल एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड          |
| 42. | 18507 | मैसर्स सियाराम टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड                     | 75. | 19023 | मैसर्स पैरीग्रैन सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड             |
| 43. | 18510 | मैसर्स गोल्ड फिन्च होल्डिंग्स लिमिटेड                           | 76. | 19041 | मैसर्स मॉडल एण्ड क्राफ्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड       |
| 44. | 18512 | मैसर्स आर. जी. मीडिया प्राईवेट लिमिटेड                          | 77. | 19042 | मैसर्स अम्बुथा कोराट्टला एग्रो टेक लिमिटेड                |
| 45. | 18516 | मैसर्स पार्वती कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड                   | 78. | 19045 | मैसर्स श्री तानाबी प्लाईवुड प्राईवेट लिमिटेड              |
| 46. | 18529 | मैसर्स कृषि पेपर एण्ड बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड                  | 79. | 19048 | मैसर्स साति रेड्डी प्रोन हैचरीज प्राईवेट लिमिटेड          |
| 47. | 18533 | मैसर्स रॉली प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड                          | 80. | 19049 | मैसर्स आन्ध्रा एग्रो बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड             |
| 48. | 18546 | मैसर्स मैगनम पॉवर इक्विपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                | 81. | 19052 | मैसर्स रेडिएन्ट रुबी रिसोर्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड |
| 49. | 18620 | मैसर्स गंगा सी-फूड्स लिमिटेड                                    | 82. | 19061 | मैसर्स गमालियर ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड                 |
| 50. | 18644 | मैसर्स श्री सन्तोषी पोलिमर्स लिमिटेड                            | 83. | 19069 | मैसर्स एस. के. शेर शॉप प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 51. | 18688 | मैसर्स सीगल एक्वा एस्टेट्स लिमिटेड                              | 84. | 19071 | मैसर्स श्री साई पद्मा प्लास्टिक वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड   |
| 52. | 18854 | मैसर्स कैप सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड                            | 85. | 19072 | मैसर्स ली-आदित्या रेयान्स लिमिटेड                         |
| 53. | 18855 | मैसर्स श्री साई कोस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड                    | 86. | 19090 | मैसर्स अन्वेषी एल्युमिनियम कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड        |
| 54. | 18857 | मैसर्स तिरुमाला एस्टेट्स लिमिटेड                                | 87. | 19093 | मैसर्स रोहिणी एक्वा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड              |
| 55. | 18861 | मैसर्स एशिया पैसिफिक एक्सपोर्ट्स लिमिटेड                        | 88. | 19100 | मैसर्स श्री चिनमई पौलट्री प्राईवेट लिमिटेड                |
| 56. | 18862 | मैसर्स रुद्राशेट्टी फर्नीचर्स प्राईवेट लिमिटेड                  | 89. | 19110 | मैसर्स श्रिवेन हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 57. | 18888 | मैसर्स कोजी शू कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड                          | 90. | 19114 | मैसर्स पैरागोन एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 58. | 18900 | मैसर्स डेक्कन एप्लायन्सेस प्राईवेट लिमिटेड                      | 91. | 19118 | मैसर्स सी. बी. आर. वीडियो डिज़िटल प्राईवेट लिमिटेड        |
| 59. | 18922 | मैसर्स क्रिशफिल फिल्ट्रेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड            | 92. | 19137 | मैसर्स श्रीविघात स्काई मोबाईल्स लिमिटेड                   |
| 60. | 18928 | मैसर्स मॉडल एग्रेस प्राईवेट लिमिटेड                             | 93. | 19141 | मैसर्स ब्रह्मास कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड             |
| 61. | 18929 | मैसर्स मॉडर्न प्लान्ट्स एण्ड एग्री एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड | 94. | 19149 | मैसर्स पर्ल एक्वा लिमिटेड                                 |
| 62. | 18933 | मैसर्स क्लासिक कैप्सूल्स लिमिटेड                                | 95. | 19152 | मैसर्स गोल्डन गोट फार्म्स एण्ड एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड  |
| 63. | 18936 | मैसर्स बोस सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड                            | 96. | 19156 | मैसर्स श्री हर्षा डेयरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड       |
| 64. | 18943 | मैसर्स दाचेपल्ली सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                     | 97. | 19164 | मैसर्स मैप्स-जी एम आर सिमेन्ट्स लिमिटेड                   |
| 65. | 18947 | मैसर्स शोभा एक्वा फार्म्स लिमिटेड                               | 98. | 19171 | मैसर्स मंगल ज्योति ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड              |
| 66. | 18958 | मैसर्स ईस्टर्न नोबल्टीज लिमिटेड                                 |     |       |   |
| 67. | 18972 | मैसर्स ट्वन्टी फर्स्ट सैच्युरी मूवी प्राईवेट लिमिटेड            |     |       |   |

| 1    | 2     | 3  |
|------|-------|--|
| 99.  | 19182 | मैसर्स नियो कैपिटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड                                 |
| 100. | 19184 | मैसर्स मेगपाई फूड्स प्राइवेट लिमिटेड   |
| 101. | 19188 | मैसर्स प्रतीश फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड                                       |
| 102. | 19189 | मैसर्स रिमिक्स कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड                               |
| 103. | 19197 | मैसर्स ओम श्री साई राम फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड                               |
| 104. | 19219 | मैसर्स श्री राज अम्युजमेन्ट्स एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड                         |
| 105. | 19221 | मैसर्स श्री शेशा साई हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड                                |
| 106. | 19247 | मैसर्स सम्पूर्णा फूड्स लिमिटेड   |
| 107. | 19373 | मैसर्स फोना एण्ड फ्लोरा फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड                             |
| 108. | 19561 | मैसर्स जीनियस फार्म्स एण्ड एस्टेट्स लिमिटेड                                  |
| 109. | 19572 | मैसर्स भारत एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड                                     |
| 110. | 19593 | मैसर्स एसडियन एग्रोटेक लिमिटेड   |
| 111. | 19613 | मैसर्स सरोज इस्पात लिमिटेड   |
| 112. | 19618 | मैसर्स अप्टो फार्मा लिमिटेड  |
| 113. | 19652 | मैसर्स फर्स्ट डाटा सिस्टम्स लिमिटेड  |
| 114. | 19684 | मैसर्स पेरीस इक्विपमेन्ट्स लिमिटेड   |
| 115. | 19915 | मैसर्स मेगा प्रिन्ट एण्ड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड                           |
| 116. | 19919 | मैसर्स मेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेन्ट एण्ड इन्फोमेशन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड |
| 117. | 19922 | मैसर्स गोल्डन हार्बेस्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड                         |
| 118. | 19928 | मैसर्स एस. एन. आर. एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड                              |
| 119. | 19938 | मैसर्स नागार्जुना मैडिकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड                           |
| 120. | 19941 | मैसर्स इण्डो-यूएस एन्वीरॉन प्राइवेट लिमिटेड                                  |
| 121. | 19984 | मैसर्स एनरिपाल रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड                                    |
| 122. | 19994 | मैसर्स इल्लूरि एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड                                     |

हेनरी रिचर्ड

कम्पनी रजिस्ट्रार

आन्ध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 23 सितम्बर 2009

सं. आरएपी/560(5)/डीएसके-124/2009--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती

है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम   |
|----------|------------|---|
| 1        | 2          | 3   |
| 1.       | 15995      | मैसर्स न्युलाईन हाऊसवेयर (इण्डिया) लिमिटेड                      |
| 2.       | 16186      | मैसर्स निकित कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड                    |
| 3.       | 16189      | मैसर्स पेनगंगा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड                         |
| 4.       | 16197      | मैसर्स रायनेर केपासिटर्स प्राइवेट लिमिटेड                       |
| 5.       | 16211      | मैसर्स विभा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड                         |
| 6.       | 16218      | मैसर्स स्टार रूरल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड                  |
| 7.       | 16233      | मैसर्स सामे स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड                           |
| 8.       | 16258      | मैसर्स बाम्बे होटल्स प्राइवेट लिमिटेड                           |
| 9.       | 16269      | मैसर्स जय बेल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड                      |
| 10.      | 16270      | मैसर्स पुट्य पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड                            |
| 11.      | 16274      | मैसर्स कोटला वेंकटरमईया एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 12.      | 16289      | मैसर्स एवर शाईन पावर इक्विपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड             |
| 13.      | 16316      | मैसर्स एप्रोच टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड                      |
| 14.      | 16324      | मैसर्स ग्रीनवर्त एग्रो लिमिटेड                                  |
| 15.      | 16328      | मैसर्स श्री विंध्यानारायणा ग्रैनेज प्राइवेट लिमिटेड             |
| 16.      | 16330      | मैसर्स काव्या एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड                      |
| 17.      | 16337      | मैसर्स एज्मी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड                          |
| 18.      | 16340      | मैसर्स अक्षय गुड्स कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड                    |
| 19.      | 16345      | मैसर्स नागार्जुना इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड               |
| 20.      | 16350      | मैसर्स सुवर्णा प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड                      |
| 21.      | 16354      | मैसर्स श्री चक्रा रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड                    |
| 22.      | 16355      | मैसर्स राम सरोवर इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड                 |
| 23.      | 16370      | मैसर्स श्री मनिकान्ता पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड                 |
| 24.      | 16384      | मैसर्स श्री गिरनार फ्लाईट कोरियर्स प्राइवेट लिमिटेड             |
| 25.      | 16386      | मैसर्स क्लास्कि इम्प्रीमियर प्राइवेट लिमिटेड                    |
| 26.      | 16390      | मैसर्स धरनी पेस्ट्रीसाईड्स प्राइवेट लिमिटेड                     |
| 27.      | 16391      | मैसर्स वेंकुटम होली रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड                  |
| 28.      | 16394      | मैसर्स डोलफिन एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड                 |

| 1   | 2     | 3  |
|-----|-------|--|
| 29. | 16396 | मैसर्स लुनार्क इलैक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 30. | 16399 | मैसर्स प्लाटिनियम टेक्नोग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड                 |
| 31. | 16401 | मैसर्स वरूना वाटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 32. | 16405 | मैसर्स हन्सा इन्फो-टेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 33. | 16435 | मैसर्स रायासम मैनेजमेंट कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड               |
| 34. | 16438 | मैसर्स अरुनोदाया पोलि बैग्स प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 35. | 16442 | मैसर्स क्रिश एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                          |
| 36. | 16444 | मैसर्स पुष्पा पाराबेन्स प्राईवेट लिमिटेड                           |
| 37. | 16445 | मैसर्स आंध्रा स्माल युनिट्स प्रोडक्ट्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 38. | 16453 | मैसर्स रंगा रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड                      |
| 39. | 16460 | मैसर्स शंकर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                           |
| 40. | 16466 | मैसर्स साई सानम ट्रेड्स लाईन्स प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 41. | 16471 | मैसर्स ब्लू बेस अक्वाटिक्स लिमिटेड                                 |
| 42. | 16485 | मैसर्स रत्न फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड                               |
| 43. | 16486 | मैसर्स पिनाकिनि एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड                          |
| 44. | 16499 | मैसर्स तिरुपति ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 45. | 16501 | मैसर्स काजा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड                              |
| 46. | 16503 | मैसर्स सागर प्रान्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड              |
| 47. | 16507 | मैसर्स सुप्रा आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड              |
| 48. | 16510 | मैसर्स डायमण्ड ऑटोमोटिव गैसकेट्स प्राईवेट लिमिटेड                  |
| 49. | 16512 | मैसर्स ट्रान्सफैट एक्सप्रेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड              |
| 50. | 16516 | मैसर्स अल कयूम ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड                           |
| 51. | 16520 | मैसर्स श्रीवत्सा फूड प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 52. | 16539 | मैसर्स आश्रया गृह निर्माण प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 53. | 16540 | मैसर्स सुवर्णा एक्वा फीड्स प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 54. | 16541 | मैसर्स सुप्रा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड                               |
| 55. | 16543 | मैसर्स कोट इन्फोर्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड           |
| 56. | 16552 | मैसर्स साई सरिता एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 57. | 16568 | मैसर्स पाना ओवरसीस प्राईवेट लिमिटेड                                |
| 58. | 16572 | मैसर्स कुमारनाग रीयल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड                     |
| 59. | 16575 | मैसर्स ज्योथिरमई साईसमिक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड                 |

| 1   | 2     | 3   |
|-----|-------|---|
| 60. | 16583 | मैसर्स मत्तुश्री कंज्यूमर सर्विसेस (स्वयम् कृषि) लिमिटेड      |
| 61. | 16596 | मैसर्स कोलामाला सिल्कस् प्राईवेट लिमिटेड                      |
| 62. | 16602 | मैसर्स तिरुमाला टॉवर्स प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 63. | 16604 | मैसर्स जय जय साईनात रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                |
| 64. | 16609 | मैसर्स सुजी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                      |
| 65. | 16617 | मैसर्स भाद्राद्री होटेल प्राईवेट लिमिटेड                      |
| 66. | 16622 | मैसर्स जयापरमात्मा कोथर प्राईवेट लिमिटेड                      |
| 67. | 16639 | मैसर्स ब्लू ओसियन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                |
| 68. | 16640 | मैसर्स नन्दीनि स्टेनरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड            |
| 69. | 16641 | मैसर्स हन्सा हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 70. | 16645 | मैसर्स सविता स्टील ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 71. | 16656 | मैसर्स भागवत गीता एक्वा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड              |
| 72. | 16660 | मैसर्स वर्मा इन्टरप्राइसेस पाइसेस (फीड्स) प्राईवेट लिमिटेड    |
| 73. | 16676 | मैसर्स हर्षाना नक्षा एगो-टेक प्राईवेट लिमिटेड                 |
| 74. | 16682 | मैसर्स निर्मला कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 75. | 16683 | मैसर्स सुपर सेरिकल्चर ग्रैनेज प्राईवेट लिमिटेड                |
| 76. | 16688 | मैसर्स मिड लैन्ड फार्म प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 77. | 16710 | मैसर्स महालक्ष्मी एग फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड                 |
| 78. | 16723 | मैसर्स श्री वेंकट साई कन्सल्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड           |
| 79. | 16752 | मैसर्स स्पहीता कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड                  |
| 80. | 16758 | मैसर्स कोस्टल कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड                  |
| 81. | 16764 | मैसर्स श्री अन्नापूर्णा केबल्स प्राईवेट लिमिटेड               |
| 82. | 16778 | मैसर्स अनंता माधावा प्रोमोटर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 83. | 16786 | मैसर्स पेट्रोकेम स्पेशलिटीस इण्डिया लिमिटेड                   |
| 84. | 16789 | मैसर्स सोलीड रॉक डाटा कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड          |
| 85. | 16790 | मैसर्स एल्फा प्रोसेस मेजरमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड             |
| 86. | 16801 | मैसर्स सुचाला फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 87. | 16804 | मैसर्स उमा पोल्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 88. | 16806 | मैसर्स कुमारी एगो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 89. | 16811 | मैसर्स मारुति प्रोलिप्रोप्लेन प्राईवेट लिमिटेड                |

| 1    | 2     | 3  | 1    | 2     | 3   |
|------|-------|--|------|-------|---|
| 90.  | 16812 | मैसर्स चलासानि मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड                     | 108. | 16887 | मैसर्स वम्सी फीड्स प्राईवेट लिमिटेड                 |
| 91.  | 16814 | मैसर्स प्राईम एप्लायन्सेस प्राईवेट लिमिटेड                     | 109. | 16899 | मैसर्स श्रीला एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड          |
| 92.  | 16815 | मैसर्स सुरक्षा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड                       | 110. | 16908 | मैसर्स मंगला ओडियो विडियो प्राईवेट लिमिटेड          |
| 93.  | 16820 | मैसर्स मारुति पेपर कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड               | 111. | 16910 | मैसर्स महाराज पिलग्रिमेज रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 94.  | 16822 | मैसर्स विवेक स्टूडियोस प्राईवेट लिमिटेड                        | 112. | 16924 | मैसर्स गोल्डवैट सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड           |
| 95.  | 16824 | मैसर्स मुरलीकृष्णा इन्टीग्रेटेड एक्वा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड | 113. | 16925 | मैसर्स पुरुषोत्तम कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड   |
| 96.  | 16825 | मैसर्स ताडिपारथी एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड                     | 114. | 16928 | मैसर्स साई लीला एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड        |
| 97.  | 16826 | मैसर्स श्री हनुमान एक्वा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड          | 115. | 16933 | मैसर्स शैल प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड             |
| 98.  | 16829 | मैसर्स निक्की एन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड                   | 116. | 16953 | मैसर्स विजया रॉकक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड          |
| 99.  | 16835 | मैसर्स सप्सवेन होटेल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड         | 117. | 16956 | मैसर्स गाडे एण्ड आलमोर मार्केटिंग (इण्डिया) लिमिटेड |
| 100. | 16836 | मैसर्स अनु फूड्स प्रोसेसेस एण्ड ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड       | 118. | 16957 | मैसर्स प्रिया होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड              |
| 101. | 16855 | मैसर्स ओगिराला एक्वा फार्म लिमिटेड                             | 119. | 16966 | मैसर्स सूर्या शेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड             |
| 102. | 16856 | मैसर्स दामिनि इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड                  | 120. | 16973 | मैसर्स एन. एम. यूरेतेर कायलिस्ट प्राईवेट लिमिटेड    |
| 103. | 16866 | मैसर्स रिच पाल्म प्राईवेट लिमिटेड                              | 121. | 16978 | मैसर्स एसोसिएटेड एक्वा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड     |
| 104. | 16869 | मैसर्स रोन्डो ट्रेस प्राईवेट लिमिटेड                           | 122. | 16982 | मैसर्स पल्सर साइबरनेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड    |
| 105. | 16873 | मैसर्स श्री शिवा प्रिया होटेल्स एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड         | 123. | 16988 | मैसर्स विजय क्लासिक एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड       |
| 106. | 16875 | मैसर्स देवी डेयरी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड                     | 124. | 16999 | मैसर्स भाग्यानगर एप्लाएन्स प्राईवेट लिमिटेड         |
| 107. | 16883 | मैसर्स अम्सन फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड                 |      |       |   |

हेनरी रिचर्ड  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
आन्ध्र प्रदेश

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Examination Notice No. : 03/2010-NDA-I

(Last Date for Receipt of Applications 16-11-2009)

NATIONAL DEFENCE ACADEMY AND  
NAVAL ACADEMY EXAMINATION (I), 2010(Commission's Website <http://www.upsc.gov.in>)

New Delhi, the 17th October 2009

F. No. 7/3/2009 E.I (B)—An Examination will be conducted by the Union Public Service Commission on 18th April, 2010, for admission to the Army, Navy and Air Force wings of the NDA for the 125th Course and Naval Academy for the 45th 10+2 (Executive Branch) Course commencing from 30th December, 2010. The approximate number of vacancies to be filled on the results of this examination will be 335 (195 for the Army, 39 for Navy, 66 for the Air Force and 35 for the Executive Branch of Naval Academy).

Vacancies are provisional and may be changed depending on the availability of training capacity of National Defence Academy.

N.B. (i) A candidate is required to specify clearly in col. 17(I) of the Application Form the Services for which he wishes to be considered in the order of his preference. He is also advised to indicate as many preferences as he wishes to opt so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to his preferences when making appointments.

(ii) Candidates should note that they will be considered for appointment to those services only for which they express their preferences and for no other service(s). No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his application will be entertained by the Commission.

(iii) Before indicating their preferences for different courses, the candidates should first decide their preference for the two Academies viz. National Defence Academy and Naval Academy (Executive Branch). If a candidate opts for National Defence Academy as his first choice, he must first indicate his preferences for different wings of National Defence Academy viz Army, Navy and Air Force followed by his preferences for Naval Academy (Executive Branch). Alternatively, if a candidate opts for Naval Academy (Executive Branch) as his first choice, he must first indicate his preference for Naval Academy (Executive Branch) as his first choice, followed by his preference for different wings of National Defence Academy. Thus candidates opting for Naval Academy (Executive Branch) Course as well as other courses of National Defence Academy must give Naval Academy (Executive Branch) as their first preference or the last preference. Naval Academy (Executive Branch) cannot be given as 2nd or 3rd preference. Even if Naval Academy (Executive Branch) is given as 2nd or 3rd preference by the candidate, it will be deemed to be the last preference.

(iv) Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by the Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination.

## 2. CENTRES OF EXAMINATION :

The Examination will be held at the following Centres :

Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Allahabad, Bangalore, Bareilly, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Cuttack, Dehradun, Delhi, Dharwad, Dispur, Gangtok, Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Jammu, Jorhat, Kochi, Kohima, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mumbai, Nagpur, Panaji (Goa), Patna, Port Blair, Raipur, Ranchi, Sambalpur, Shillong, Shimla, Srinagar, Thiruvananthapuram, Tirupati, Udaipur and Vishakhapatnam.

The centres and the date of holding the examination as mentioned above are liable to be changed at the discretion of the Commission. While every effort will be made to allot the candidates to the centre of their choice for examination, the Commission may, at their discretion, allot a different centre to a candidate, when circumstances so warrant. Candidates admitted to the examination will be informed of the time table and place or places of examination.

Candidates should note that no request for change of centre will normally be granted. When a candidate, however, desires a change in centre from the one he had indicated in his application form for the Examination, he must send a letter addressed to the Secretary, Union Public Service Commission, giving full justification as to why he desires a change in centre. Such requests will be considered on merits but requests received after 16th December, 2009 will not be entertained under any circumstances.

## 3. CONDITIONS OF ELIGIBILITY :

(a) Nationality : A candidate must either be :

- (i) a Citizen of India, or
- (ii) a subject of Bhutan, or
- (iii) a subject of Nepal, or

(iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

**(b) Age Limits, Sex and Marital Status :**

Only unmarried male candidates born not earlier than 2nd January, 1992 and not later than 1st July, 1994 are eligible.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificates. These certificates are required to be submitted only after the declaration of the result of the written part of the examination. No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted. The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

**NOTE 1 :** Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate available or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

**NOTE 2 :** Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at a subsequent examination on any ground whatsoever.

**NOTE 3 :** The candidates should exercise due care while entering their date of birth in column 8 of the application form for the Examination. If on verification at any subsequent stage any variation is found in their date of birth from the one entered in their Matriculation or equivalent examination certificate, disciplinary action will be taken against them by the Commission under the Rules.

**NOTE 4 :** Candidates must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application though successful at this or any subsequent Examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

**(c) Educational Qualifications :**

(i) For Army Wing of National Defence Academy :—12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination conducted by a State Education Board or a University.

(ii) For Air Force and Naval Wings of National Defence Academy and for the 10+2 (Executive Branch) Course at the Naval Academy :—12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent with Physics and

Mathematics conducted by a State Education Board or a University.

Candidates who are appearing in the 12th Class under the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination can also apply for this examination.

Such candidates who qualify the SSB interview but could not produce Matriculation/10+2 or equivalent certificate in original at the time of SSB interview should forward the certificates alongwith photocopies thereof to 'Addl. Directorate General of recruiting, Army HQ, West Block-III, R.K. Puram, New Delhi-110 066' and for Naval Academy candidates to 'Naval Headquarters, DMPR, R&R, Section, Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011' by 05th Dec, 2010 failing which their candidature will be cancelled. All other candidates who have produced their Matriculation and 10+2 pass or equivalent certificates in original at the time of attending the SSB interview and have got the same verified by the SSB authorities are not required to submit the same to Army HQ or Naval HQ as the case may be. Certificates in original issued by the Principals of the Institutions are also acceptable in cases where Boards/Universities have not yet issued certificates. Certified true copies/photostat copies of such certificates will not be accepted.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

**Note 1 :** Candidates appearing in the 11th class exam are not eligible for this examination.

**Note 2 :** Those candidates who have yet to qualify in the 12th class or equivalent examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the 12th class or equivalent examination by the prescribed date (i.e. 05th Dec, 2010) and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of Board/University Examination, delay in declaration of results or any other ground whatsoever.

**Note 3 :** Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

**Note 4 :** Those candidates who have failed INSB/PABT earlier are not eligible for Air Force.

**(d) Physical Standards :**

Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2010 as per guidelines given in Appendix-II.

(e) A candidate who has resigned or withdrawn on disciplinary Grounds from any of the training academies of Armed Forces is not eligible to apply.

#### 4. FEE:

(i) A candidate seeking admission to examination must pay to the Commission a fee of Rs. 50/- (Rupees Fifty only) through a single Central Recruitment Fee Stamp. Central Recruitment Fee Stamp (NOT postage stamp) of the requisite denomination may be obtained from the post office and affixed on the application form in the space provided therein. The stamp must be got cancelled from the issuing Post Office with the date stamp of the Post Office in such a manner that the impression of the cancellation mark partially overflows on the application form itself but within the space provided on the application form itself. The impression of the cancellation mark should be clear and distinct to facilitate the identification of date and the Post Office of issue.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or representative abroad as the case may be for credit to account head '051—Public Service Commission—Examination Fees' and attach the receipt with the application.

Application not complying with this requirement will be summarily rejected. This does not apply to the candidates who are seeking remission of the prescribed fee under the following paragraph.

Candidates belonging to scheduled castes/scheduled tribes are not required to pay any fee. No fee exemption is, however, available to OBC candidates and they are required to pay the full prescribed fee.

'Postage Stamps' will in no case be accepted in lieu of Central Recruitment Fee Stamp.

Candidates should note that the fee sent through Indian Postal Orders, Bank Draft, Money Orders, Crossed Cheque, Currency Notes or Treasury Challan etc. will not be accepted by the Commission and such applications will be treated as without fee and will be summarily rejected.

(ii) The children of Junior Commissioned Officers, Non-Commissioned Officers and Other Ranks of the Army and equivalent ranks in the Indian Navy and the Indian Air Force and children of Ex-Junior Commissioned Officers, Ex-Non-Commissioned Officers and Ex-Other Ranks of the Army and equivalent ranks in the Indian Navy and the Indian Air Force are not required to pay the prescribed fee if they satisfy the following conditions, viz.

(a) they are studying in the Military Schools (formerly known as King George's Schools), Sainik Schools run by the Sainik Schools Society, and

(b) their applications are forwarded by the Principal of the concerned School.

Note : Applications of candidates from the Military Schools/Sainik Schools forwarded by the principals of the

concerned schools will be scrutinised in the Commission's Office to determine whether such candidates are entitled to remission of fee in terms of para 4(ii) of the Notice above. The Principals of the Military Schools/Sainik Schools should however, satisfy themselves that students of their schools fulfil the requirements of the aforesaid provision of the Notice. While forwarding the application, the name of the applicant and his application form No. (8 digit) should be indicated in the forwarding letter. The forwarding letter should not be tagged or pinned with the application form. The Commission will not take any responsibility for any acts of omission or commission committed by the Principals.

No claim for a refund of fee once paid to the Commission will be entertained nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

#### 5. HOW TO APPLY :

(a) The UPSC have developed an application form common for all their examinations which can be processed on computerised machines. This application form along with an Information Brochure containing general instructions for filling up the form, an acknowledgement card and an envelope for sending the application will be obtainable from the designated Head Post Offices/Post Offices throughout the country as listed in Appendix-III of Notice against cash payment of Rs. 20/- (Rupees twenty only). Form should be purchased from the designated Head Post Offices/Post Offices only and not from any other agency. This form can be used only once and for only one examination. Candidates must use the form supplied with the Information Brochure only and they should in no case use photocopy/reproduction/unauthorisedly printed copy of the Form. Since this form is electronically scanned, due care should be taken to fill up the application form correctly. While filling up the application form, please refer to detailed instructions given in Appendix-II of this Notice. The candidates should also fill up in the relevant places of the Acknowledgement Card, their Application Form Number (8 digit) and the name of the examination. The applicants are required to affix the postage stamp of Rs. 6/- on the Acknowledgement Cards and send the same along with application form to UPSC. If an applicant fails to affix the postage stamp of requisite amounts his acknowledgement cards will not be dispatched and Commission will not be responsible for non-receipt of acknowledgement cards by the applicant. The duly filled in application form and the acknowledgement card should then be mailed in the special envelope supplied with the Information Brochure. The candidate should also write the name of examination viz. "National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2010" on the envelope before despatching it to "Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110069". Candidates should mention their Tele. No./Fax No.

(b) All candidates whether already in Govt. Service, Government owned industrial undertakings or other similar organisations or private employment should submit their applications direct to the Commission. If any candidate

forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application, even if submitted to the employer before the closing date, will not be considered. Persons already in Government Service whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under the Public Enterprises are however, required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for this Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled. Candidates serving in the Armed Forces must submit their application through their Commanding Officer who will forward it to the Commission indicating in the forwarding letter the name of the applicant and his Application Form Number (8 digit). The applications of Sailors (including boys and artificers apprentices) of the Indian Navy will be entertained only if these have been duly recommended by their Commanding Officer.

Cadets of Rashtriya Indian Military College (previously known as Sainik School, Dehradun), Students of Military Schools (formerly known as King George's Schools) and Sainik Schools run by Sainik Schools Society should submit their applications through Principal of College/School concerned who will forward it to the Commission indicating in the forwarding letter the name of the applicant and his Application Form Number (8 digit). The forwarding letter should not be tagged or pinned with the application form.

NOTE 1. WHILE FILLING IN THE APPLICATION FORM, THE CANDIDATE SHOULD CAREFULLY DECIDE ABOUT HIS CHOICE FOR THE CENTRE FOR THE EXAMINATION. MORE THAN ONE APPLICATION FROM A CANDIDATE GIVING DIFFERENT CENTRES WILL NOT BE ACCEPTED IN ANY CASE. EVEN IF A CANDIDATE SENDS MORE THAN ONE COMPLETED APPLICATION, THE COMMISSION WILL ACCEPT ONLY ONE APPLICATION AT THEIR DISCRETION AND THE COMMISSION'S DECISION IN THE MATTER SHALL BE FINAL.

IF ANY CANDIDATE APPEARS AT A CENTRE OTHER THAN THE ONE INDICATED BY THE COMMISSION IN HIS ADMISSION CERTIFICATE, THE PAPERS OF SUCH A CANDIDATE WILL NOT BE VALUED AND HIS CANDIDATURE WILL BE LIABLE TO CANCELLATION.

NOTE 2: APPLICATIONS NOT ACCOMPANIED BY THE PRESCRIBED FEE (UNLESS REMISSION OF FEE IS CLAIMED AS IN PARA 4 ABOVE) OR INCOMPLETE OR DEFECTIVE APPLICATIONS SHALL BE SUMMARILY REJECTED. NO REPRESENTATION OR CORRESPONDENCE REGARDING SUCH REJECTION SHALL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES. CANDIDATES ARE NOT REQUIRED TO SUBMIT

ALONGWITH THEIR APPLICATIONS ANY CERTIFICATE IN SUPPORT OF THEIR CLAIMS REGARDING AGE, EDUCATIONAL QUALIFICATIONS, SCHEDULED CASTES/ SCHEDULED TRIBES/OTHER BACKWARD CLASSES AND FEE REMISSION ETC. THEY SHOULD THEREFORE, ENSURE THAT THEY FULFILL ALL THE ELIGIBILITY CONDITIONS FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION. THEIR ADMISSION TO THE EXAMINATION WILL ALSO THEREFORE BE PURELY PROVISIONAL. IF ON VERIFICATION AT ANY LATER DATE IT IS FOUND THAT THEY DO NOT FULFILL ALL ELIGIBILITY CONDITIONS, THEIR CANDIDATURE WILL BE CANCELLED. THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION IS LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF JULY, 2010.

ALL CANDIDATES CALLED FOR INTERVIEW MUST CARRY THEIR ORIGINAL MATRICULATION CERTIFICATE OR EQUIVALENT EXAMINATION CERTIFICATE TO THE SERVICES SELECTION BOARD (SSB). ORIGINALS WILL HAVE TO BE PRODUCED BY THE CANDIDATES WHO QUALIFY AT THE SSB INTERVIEW SOON AFTER THE INTERVIEW. THE ORIGINALS WILL BE RETURNED AFTER VERIFICATION. THOSE CANDIDATES WHO HAVE ALREADY PASSED 10+2 EXAMINATION MUST CARRY THEIR ORIGINAL 10+2 PASS CERTIFICATE OR MARKS SHEET FOR THE SSB INTERVIEW. IF ANY OF THEIR CLAIMS IS FOUND TO BE INCORRECT THEY MAY RENDER THEMSELVES LIABLE TO DISCIPLINARY ACTION BY THE COMMISSION IN TERMS OF THE FOLLOWING PROVISIONS :

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :

- (i) obtaining support for his candidature by any means, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means during the examination, or
- (viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s), or
- (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (x) harassing or doing bodily harm to the Staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or



- (xi) being in possession of or using mobile phone, pager or any electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination, or
- (xii) violating any of the instructions issued to candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
- (xiii) attempting to commit or as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable :
  - (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate and/or
  - (b) to be debarred either permanently or for a specified period
    - (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
    - (ii) by the Central Government from any employment under them; and
  - (c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rules shall be imposed except after :—

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation, in writing as he may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

#### 6. LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS :

(i) The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110069 on or before 16th Nov., 2009.

(ii) In respect of applications received only by post (by post/speed post) from candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu & Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad, the last date for receipt of applications is 23rd November, 2009.

The benefit of extended time will be available only in respect of applications received by post/speed post from the above mentioned areas/regions. In the case of applications received by hand or through courier service, benefit of extended time will not be available regardless of the place of residence of the applicant.

Candidates who are claiming the benefit of extended time should clearly indicate in column 13 (II) of the

Application Form, the area code of region (e.g. Assam, Meghalaya, J&K etc.) where they are residing. In case they fail to do so, the benefit of extended time will not be allowed to them.

NOTE I : Candidates should clearly note that the Commission will in no case be responsible for non-receipt of their application or any delay in receipt thereof on any account whatsoever. No application received after the prescribed last date will be entertained under any circumstances and all the late applications will be summarily rejected. They should, therefore, ensure that their applications reach the Commission's Office on or before the prescribed last date.

NOTE II : Candidates can also deliver their applications personally at the Commission's counter against proper acknowledgement. The Commission will not be responsible for the applications delivered to any other functionary of the Commission.

NOTE III : Applications received through Couriers or Courier Services of any type shall be treated as having been received "By hand" at the Commission's Counter.

NOTE IV : Candidates should note that applications will be received by hand, only one at a time, at the designated counter(s) and not in bulk, till 5 PM only.

#### 7. ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS :

Immediately on receipt of an application from a candidate, the Acknowledgement Card submitted by him alongwith the application form will be despatched to him by the Commission's office in token of receipt of his Application. If a candidate does not receive the Acknowledgement Card within 30 days, he should at once contact the Commission by quoting his Application Form No. (8-digit) and name & year of examination. Candidates delivering the application form in person at the Commission's Counter will be issued Acknowledgement Card at the Counter itself. The mere fact that a candidate's application has been acknowledged by the Commission does not mean that his candidature for the examination has been accepted by the Commission. Candidates will be informed at the earliest possible about their admission to the examination or rejection of their application.

#### 8. CORRESPONDENCE WITH THE COMMISSION/ ARMY/NAVAL/AIR HEAD QUARTERS :

The Commission will not enter into any correspondence with the candidates about their candidature except in the following cases :

- (i) Admission certificates, indicating the Roll Nos., Centre and the Courses to which admitted will be issued to the candidates who are admitted to the examination. The admission certificate will bear the photograph of the candidate. If a candidate does not receive his admission certificate or any other communication regarding his candidature for the examination three weeks before the commencement of the examination, he should at once

contact the Commission. On receipt of such a communication, Admission Certificate or a duplicate copy thereto will be issued to the admitted candidate. Information in this regard can also be obtained from the Facilitation Counter located in the Commission's Office either in person or over Phone Nos. 011-23385271, 011-23381125, 011-23098543. In case no communication is received in the Commission's Office from the candidate regarding non-receipt of his admission certificate at least three weeks before the examination, he himself will be solely responsible for non-receipt of his Admission Certificate. It may be noted that the Admission Certificate will be issued at the address as photo-copied from the application form filled in by the candidate. The candidate should, therefore, ensure that the address given by him in the application form is correct and complete with pin code.

No candidate will ordinarily be allowed to take the examination unless he holds a certificate of admission for the examination. On receipt of Admission Certificate, check it carefully and bring discrepancies/errors, if any, to the notice of the UPSC immediately. The courses to which the candidates are admitted will be according to their eligibility as per educational qualifications for different courses and the preferences given by the candidates.

The candidates should note that their admission to the examination will be purely provisional based on the information given by them in the application form. This will be subject to verification of all the eligibility conditions by the UPSC.

- (ii) In the event of a candidate receiving more than one admission certificate from the Commission, he should use only one of these admission certificates for appearing in the examination and return the other(s) to the Commission's Office.
- (iii) If a candidate receives an admission certificate in respect of some other candidate on account of processing error, the same should be immediately returned to the Commission with a request to issue the correct Admission Certificate. Candidates may note that they will not be allowed to take the examination on the strength of an Admission Certificate issued in respect of another candidate.
- (iv) The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the Examination shall be final.
- (v) Candidates should note that the name in the Admission Certificate in some cases, may be abbreviated due to technical reasons.
- (vi) A candidate must see that communications sent to him at the address stated in his application are redirected, if necessary. Change in address should be communicated to the Commission at the earliest

opportunity. Although the Commission make every effort to take account of such changes, they cannot accept any responsibility in the matter.

**IMPORTANT : ALL COMMUNICATIONS TO THE COMMISSION SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS :**

1. NAME AND YEAR OF THE EXAMINATION.
2. APPLICATION FORM NO. (8 DIGIT).
3. ROLL NUMBER (IF RECEIVED).
4. NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK LETTERS).
5. POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN THE APPLICATION.

N.B. (i) : COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

N.B. (ii) : IF A LETTER/COMMUNICATION IS RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN EXAMINATION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS FULL NAME AND ROLL NUMBER, IT WILL BE IGNORED AND NO ACTION WILL BE TAKEN THEREON.

CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMISSION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLICATION FOR THE EXAMINATION SHOULD IMMEDIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO :—

For candidates with Army as first choice—Army Headquarters, A.G's Branch, RTG (NDA Entry), West Block-III, Wing-1, R.K. Puram, New Delhi-110066, Phone No. 26175473.

For candidates with Navy/Naval Academy as first choice—Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment, R & R Section, R. No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011, Phone No. 23010097/230112820.

For candidates with Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), Room No. 17, 'J' Block, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110011, Phone No. 23010231 Extn. No. 7081.

**FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTER FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD.**

Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board should address enquiries or requests, if any, relating to their interview direct as follows :—

For candidates with Army as first choice—Army Headquarters, AG's Branch, RTG (NDA Entry), West Block III, Wing-1, R.K. Puram, New Delhi-110066, Phone No. 26175473.

For candidates with Navy/Naval Academy as first choice—Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment, R & R Section, Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhavan, New Delhi-110011, Phone No. 23010097/23011282.

For candidates with Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), Room No. 17, 'J' Block, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110011, Phone No. 23010231 Extn. No. 7081/7082.

Candidates are required to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Requests for postponing interview will only be considered in exceptional circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army Headquarters will be the sole deciding authority. Such requests should be addressed to the Administrative Officer of the Selection Centre from where the call letter for interview has been received. No action will be taken on letters received by Army/Navy/Air HQs. SSB interview for the candidates qualified in the written examination will be held during the months of September, 2010—Oct., 2010 or as suitable to Recruiting Directorate.

#### 9. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSES OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES:

The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission at their discretion. Such candidates shall appear before a Services Selection Board for intelligence and Personality Test where candidates for the Army/Navy wings of the NDA and 10+2 Executive Branch of Naval Academy will be assessed on officers potentiality and those for the Air Force in Pilot Aptitude Test and for officers potentiality.

#### TWO STAGE SELECTION PROCEDURE

Two Stage selection procedure based on Psychological Aptitude Test and Intelligence Test has been introduced at Selection Centres/Air Force Selection Boards. All the candidates will be put to stage one test on first day of reporting at Selection Centres/Air Force Selection Boards. Only those candidates who qualify at stage one will be admitted to the second stage/remaining tests. Those candidates who qualify stage II will be required to submit the original Certificates along with one photocopy each of: (i) Original Matriculation pass certificate, (ii) Original 10+2 pass certificate or equivalent in support of educational qualification.

Candidates who appear before the Services Selection Board and undergo the test there, will do so at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence

of any person or otherwise. Parents or guardians of the candidates will be required to sign a certificate to this effect.

To be acceptable, candidates for the Army/Navy and Naval Academy should secure the minimum qualifying marks separately in (i) Written examination and (ii) Officer potentiality test, as fixed by the Commission at their discretion, and candidates for the Air Force should secure the minimum qualifying marks separately in (i) Written examination (ii) Officer potentiality test, and (iii) Pilot Aptitude Test as fixed by the Commission at their discretion.

Subject to these conditions the qualified candidates will then be placed in the final order of merit on the basis of total marks secured by them in the Written examination, and the Services Selection Board Tests in three separate lists—one for the Army and the Navy, the second one for the Air Force and the third for the Course at the Naval Academy. The names of candidates who qualify for all the Services of NDA and the Naval Academy will appear in all the three Merit Lists. The final selection for admission to the Army and Naval Wings of the National Defence Academy will be made in order of merit upto the number of vacancies available from the merit list for the Army and Naval Wings, for the Air Force Wing from the merit list for the Air Force; and for the Executive Branch of Naval Academy upto the number of vacancies available from the merit list for the Naval Academy, subject to medical fitness and suitability in all other respects. The candidates who are common to all the three merit lists will be considered for selection from all the three lists with reference to their order of preferences and in the event of their final selection from one list, names will be cancelled from the other lists.

N. B. : EVERY CANDIDATE FOR THE AIR FORCE IS GIVEN PILOT APTITUDE TEST ONLY ONCE. THE GRADE SECURED BY HIM AT THE FIRST TEST WILL THEREFORE HOLD GOOD FOR EVERY SUBSEQUENT INTERVIEW HE HAS WITH THE AIR FORCE SELECTION BOARD. A CANDIDATE WHO FAILS IN THE FIRST PILOT APTITUDE TEST CANNOT APPLY FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY EXAMINATION FOR THE AIR FORCE WING OR GENERAL DUTIES (PILOT) BRANCH OR NAVAL AIR ARM.

Candidates who have been given the Pilot Aptitude Test for any previous N.D.A. course should submit their application for this examination for the Air Force Wing only if they have been notified as having qualified in the Pilot Aptitude Test.

The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success in the examination confers no right of admission to the Academy. A candidate must satisfy the appointing authority that he is suitable in all respects for admission to the Academy.

#### 10. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE:

Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, or to the Executive Branch of Naval Academy but were removed therefrom for lack of officer-like qualities or on disciplinary grounds will not be admitted to the Academy.

Candidates who were previously withdrawn from the National Defence Academy or Naval Academy on medical grounds or left the above Academy voluntarily are however, eligible for admission to the Academy provided they satisfy the medical and other prescribed conditions.

#### 11. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

12. The details regarding (a) the scheme and syllabus of the examination, (b) Physical standards for admission to the National Defence Academy and Naval Academy and (c) Brief particulars of the service etc., for candidates joining the National Defence Academy and Naval Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

KULDEEP KUMAR SAHARAWAT  
Deputy Secy.  
UPSC

#### APPENDIX-I

(The scheme and syllabus of examination)

##### A. SCHEME OF EXAMINATION

1. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows:—

| Subject              | Code | Duration | Maximum Marks |
|----------------------|------|----------|---------------|
| Mathematics          | 01   | 2½ Hours | 300           |
| General Ability Test | 02   | 2½ Hours | 600           |
| Total                |      |          | 900           |

2. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. THE QUESTION PAPERS (TEST BOOKLETS) OF MATHEMATICS AND PART "B" OF GENERAL ABILITY TEST WILL BE SET BILINGUALLY IN HINDI AS WELL AS ENGLISH.

3. In the question papers, wherever necessary, questions involving the metric system of Weights and Measures only will be set.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

6. The candidates are not permitted to use calculator or Mathematical or logarithmic table for answering objective type papers (Test Booklets). They should not therefore, bring the same inside the Examination Hall.

##### B. SYLLABUS OF THE EXAMINATION

###### PAPER-I

###### MATHEMATICS

(Code No. 01)

(Maximum Marks-300)

###### 1. ALGEBRA

Concept of a set, operations on sets, Venn diagrams. De Morgan laws, Cartesian product, relation, equivalence relation.

Representation of real numbers on a line. Complex numbers—basic properties, modulus, argument, cube roots of unity. Binary system of numbers. Conversion of a number in decimal system to binary system and vice-versa. Arithmetic, Geometric and Harmonic progressions. Quadratic equations with real coefficients. Solution of linear inequations of two variables by graphs. Permutation and Combination. Binomial theorem and its applications. Logarithms and their applications.

###### 2. MATRICES AND DETERMINANTS

Types of matrices, operations on matrices. Determinant of a matrix, basic properties of determinants. Adjoint and inverse of a square matrix, Applications - Solution of a system of linear equations in two or three unknowns by Cramer's rule and by Matrix Method.

###### 3. TRIGONOMETRY

Angles and their measures in degrees and in radians. Trigonometrical ratios. Trigonometric identities Sum and difference formulae. Multiple and Sub-multiple angles. Inverse trigonometric functions. Applications - Height and distance, properties of triangles.

###### 4. ANALYTICAL GEOMETRY OF TWO AND THREE DIMENSIONS

Rectangular Cartesian Coordinate system. Distance formula. Equation of a line in various forms. Angle between two lines. Distance of a point from a line. Equation of a circle in standard and in general form. Standard forms of parabola,

ellipse and hyperbola. Eccentricity and axis of a conic. Point in a three dimensional space, distance between two points. Direction Cosines and direction ratios. Equation of a plane and a line in various forms. Angle between two lines and angle between two planes. Equation of a sphere.

#### 5. DIFFERENTIAL CALCULUS

Concept of a real valued function—domain, range and graph of a function. Composite functions, one to one, onto and inverse functions. Notion of limit, Standard limits—examples. Continuity of functions—examples, algebraic operations on continuous functions. Derivative of function at a point, geometrical and physical interpretation of a derivative—applications. Derivatives of sum, product and quotient of functions, derivative of a function with respect to another function, derivative of a composite function. Second order derivatives. Increasing and decreasing functions. Application of derivatives in problems of maxima and minima.

#### 6. INTEGRAL CALCULUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS

Integration as inverse of differentiation, integration by substitution and by parts, standard integrals involving algebraic expressions, trigonometric, exponential and hyperbolic functions. Evaluation of definite integrals—determination of areas of plane regions bounded by curves—applications. Definition of order and degree of a differential equation, formation of a differential equation by examples. General and particular solution of a differential equations, solution of first order and first degree differential equations of various types—examples. Application in problems of growth and decay.

#### 7. VECTOR ALGEBRA

Vectors in two and three dimensions, magnitude and direction of a vector. Unit and null vectors, addition of vectors, scalar multiplication of a vector, scalar product or dot product of two vectors. Vector product or cross product of two vectors. Applications—work done by a force and moment of a force, and in geometrical problems.

#### 8. STATISTICS AND PROBABILITY

Statistics : Classification of data, Frequency distribution, cumulative frequency distribution—examples. Graphical representation—Histogram, Pie Chart, frequency polygon—examples. Measures of Central tendency—Mean, median and mode. Variance and standard deviation—determination and comparison. Correlation and regression.

Probability : Random experiment, outcomes and associated sample space, events, mutually exclusive and exhaustive events, impossible and certain events. Union and Intersection of events. Complementary, elementary and composite events. Definition of probability—classical and statistical—examples. Elementary theorems on probability—simple problems. Conditional probability, Bayes' theorem—simple problems. Random variable as function on a sample space. Binomial distribution, examples of random experiments giving rise to Binominal distribution.

### PAPER-II

#### GENERAL ABILITY TEST

(Code No. 02)

(Maximum Marks-600)

#### Part 'A'—ENGLISH

(Maximum Marks-200)

The question paper in English will be designed to test the candidate's understanding of English and workman like use of words. The syllabus covers various aspects like : Grammar and usage, vocabulary, comprehension and cohesion in extended text to test the candidate's proficiency in English.

#### Part 'B'—GENERAL KNOWLEDGE

(Maximum Marks-400)

The question paper on General Knowledge will broadly cover the subjects : Physics, Chemistry, General Science, Social Studies, Geography and Current Events.

The syllabus given below is designed to indicate the scope of these subjects included in this paper. The topics mentioned are not to be regarded as exhaustive and questions on topics of similar nature not specifically mentioned in the syllabus may also be asked. Candidate's answers are expected to show their knowledge and intelligent understanding of the subject.

#### Section 'A' (Physics)

Physical Properties and States of Matter, Mass, Weight, Volume, Density and Specific Gravity, Principle of Archimedes, Pressure Barometer.

Motion of objects, Velocity and Acceleration, Newton's Laws of Motion, Force and Momentum, Parallelogram of Forces, Stability and Equilibrium of bodies, Gravitation, elementary ideas of work, Power and Energy.

Effects of Heat, Measurement of Temperature and heat, change of State and Latent Heat, Modes of transference of Heat.

Sound waves and their properties, Simple musical instruments.

Rectilinear propagation of Light, Reflection and refraction. Spherical mirrors and Lenses, Human Eye.

Natural and Artificial Magnets, Properties of a Magnet, Earth as a Magnet.

Static and Current Electricity, conductors and Non-conductors, Ohm's Law, Simple Electrical Circuits, Heating, Lighting and Magnetic effects of Current, Measurement of Electrical Power, Primary and Secondary Cells, Use of X-Rays.

General Principles in the working of the following :

Simple Pendulum, Simple Pulleys, Siphon, Levers, Balloon, Pumps, Hydrometer, Pressure Cooker, Thermos Flask, Gramophone, Telegraphs, Telephone, Periscope, Telescope, Microscope, Mariner's Compass; Lightning Conductors, Safety Fuses.

## Section 'B' (Chemistry)

Physical and Chemical changes. Elements, Mixtures and Compounds, Symbols, Formulae and simple Chemical Equations. Law of Chemical Combination (excluding problems). Properties of Air and Water.

Preparation and Properties of Hydrogen, Oxygen, Nitrogen and Carbondioxide, Oxidation and Reduction.

Acids, bases and salts.

Carbon—different forms.

Fertilizers—Natural and Artificial.

Material used in the preparation of substances like Soap, Glass, Ink, Paper, Cement, Paints, Safety Matches, and Gun-Powder.

Elementary ideas about the structure of Atom, Atomic Equivalent and Molecular Weights, Valency.

## Section 'C' (General Science)

Difference between the living and non-living.

Basis of Life—Cells, Protoplasm and Tissues.

Growth and Reproduction in Plants and Animals.

Elementary knowledge of human Body and its important organs.

Common Epidemics, their causes and prevention.

Food—Source of Energy for man. Constituents of food, Balanced Diet.

The Solar System—Meteors and Comets, Eclipses.

Achievements of Eminent Scientists.

## Section 'D' (History, Freedom Movement etc.)

A broad survey of Indian History, with emphasis on Culture and Civilisation.

Freedom Movement in India.

Elementary study of Indian Constitution and Administration.

Elementary knowledge of Five Year Plans of India.

Panchayati Raj, Co-operatives and Community Development.

Bhoodan, Sarvodaya, National Integration and Welfare State, Basic Teachings of Mahatma Gandhi.

Forces shaping the modern world; Renaissance, Exploration and Discovery; War of American Independence, French Revolution, Industrial Revolution and Russian Revolution. Impact of Science and Technology on Society. Concept of

one World, United Nations, Panchsheel, Democracy, Socialism and Communism. Role of India in the present world.

## Section 'E' (Geography)

The Earth, its shape and size. Latitudes and Longitudes, Concept of time, International Date Line. Movements of Earth and their effects.

Origin of Earth. Rocks and their classification; Weathering—Mechanical and Chemical, Earthquakes and Volcanoes.

Ocean Currents and Tides.

Atmosphere and its composition; Temperature and Atmospheric Pressure, Planetary Winds, Cyclones and Anti-cyclones; Humidity; Condensation and Precipitation; Types of Climate, Major Natural regions of the World.

Regional Geography of India—Climate, Natural vegetation. Mineral and Power resources; location and distribution of agricultural and industrial activities.

Important Sea ports and main sea, land and air routes of India. Main items of Imports and Exports of India.

## Section 'F' (Current Events)

Knowledge of Important events that have happened in India in the recent years.

Current important world events.

Prominent personalities—both Indian and International including those connected with cultural activities and sports.

## NOTE :

Out of maximum marks assigned to part 'B' of this paper, questions on Sections 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' and 'F' will carry approximately 25%, 15%, 10%, 20%, 20% and 10% weightages respectively.

## Intelligence and Personality Test

In addition to the interview the candidates will be put to Intelligence Tests both verbal and non-verbal, designed to assess their basic intelligence. They will also be put to Group Tests such as group discussions, group planning, outdoor group tasks, and asked to give brief lectures on specified subjects. All these tests are intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also his social traits and interests in current affairs.

## APPENDIX-II

## GUIDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY.

Note : CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY AND MENTALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED

PHYSICAL STANDARDS. THE GUIDELINES FOR THE SAME ARE GIVEN BELOW.

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE, THEREFORE, ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

Candidates are also advised to rectify minor defects/ailments in order to speed up finalisation of medical examination conducted at the Military Hospital after being recommended at the SSB.

Few of such commonly found defects/ailments are listed below :

- (a) Wax (Ears)
- (b) Deviated Nasal Septum
- (c) Hydrocele/Phimosis
- (d) Overweight/Underweight
- (e) Under Sized Chest
- (f) Piles
- (g) Gynaecomastia
- (h) Tonsillitis
- (i) Varicocele

Civilian candidates appearing for all types of commission in the Armed Forces will be entitled to out-patients treatment from service sources at public expense for injuries sustained or diseases contracted during the course of their examination by the Selection Board. They will also be entitled to in-patient treatment at public expense in the Officer's ward of a hospital provided—

- (a) the injury is sustained during the tests or,
- (b) the disease is contracted during the course of the examination by selection board and there is no suitable accommodation in local civil hospital or it is impracticable to remove the patient to the civil hospital; or,
- (c) the medical board requires the candidate's admission for observation.

NOTE : They are not entitled to special nursing.

A candidate recommended by the Services Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. Only those candidates will be admitted to the academy who are declared fit by the Medical Board. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. However, the candidates declared unfit will be intimated by the President of the

Medical Board and the procedure for request for an Appeal Medical Board will also be intimated to the candidate.

Candidates declared unfit during Appeal Medical Board will be intimated about the provision of Review Medical Board.

(a) The candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/disability which is likely to interfere with the efficient performance of Military duties.

(b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or under weight. The Candidate should not be over weight or obese.

(c) The minimum acceptable height is 157.5 cms. (162.5 cms. for Air Force). For Gorkhas and individuals belonging to hills of North-Eastern region of India, Garhwal and Kumaon, the minimum acceptable height will be 5 cms. less. In case of candidates from Lakshadweep the minimum acceptable height can be reduced by 2 cms. Height and weight standards are given below :

#### HEIGHT/WEIGHT STANDARDS FOR ARMY/AIR FORCE

TABLE-I

| Height in Centimetres (Without shoes) | Weight in Kgs. |             |             |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
|                                       | 16-17 years    | 17-18 years | 18-19 years |
| 152                                   | 42.5           | 44.0        | 45.0        |
| 155                                   | 43.5           | 45.5        | 47.0        |
| 157                                   | 45.0           | 47.0        | 48.0        |
| 160                                   | 46.5           | 48.0        | 49.0        |
| 162                                   | 48.0           | 50.0        | 51.0        |
| 165                                   | 50.0           | 52.0        | 53.0        |
| 167                                   | 51.0           | 53.0        | 54.0        |
| 170                                   | 52.5           | 55.0        | 56.0        |
| 173                                   | 54.5           | 57.0        | 58.0        |
| 175                                   | 56.0           | 59.0        | 60.0        |
| 178                                   | 58.0           | 61.0        | 62.0        |
| 180                                   | 60.0           | 63.0        | 64.5        |
| 183                                   | 62.5           | 65.0        | 66.5        |

## HEIGHT/WEIGHT STANDARDS FOR NAVY

TABLE-II

| Height in<br>Centimetres<br>(Without shoes) | Weight in Kgs. |             |             |
|---|----------------|-------------|-------------|
|   | 16<br>years    | 18<br>years | 20<br>years |
| 152   | 44             | 45          | 46          |
| 155   | 45             | 46          | 47          |
| 157   | 46             | 47          | 49          |
| 160   | 47             | 48          | 50          |
| 162   | 48             | 50          | 52          |
| 165   | 50             | 52          | 53          |
| 168   | 52             | 53          | 55          |
| 170   | 53             | 55          | 57          |
| 173   | 55             | 57          | 59          |
| 175   | 57             | 59          | 61          |
| 178   | 59             | 61          | 62          |
| 180   | 61             | 63          | 64          |
| 183   | 63             | 65          | 67          |

A  $\pm$  10% (A  $\pm$  6 Kg for Navy) departure from the average weight given in the Table I above is to be considered within normal limit. However, in individuals with heavy bones and broad built as well as individuals with thin build but otherwise healthy this may be relaxed to some extent on merit.

NOTE 1 : Height relaxable upto 2.5 cm. (5 cm. for Navy) may be allowed where the Medical Board certifies that the candidate is likely to grow and come up to the required standard on completion of his training.

NOTE 2 : To meet special requirement as a pilot in the Air Force the acceptable measurements of leg length, thigh length and sitting height will be as under :—

|                | Minimum    | Maximum     |
|----------------|------------|-------------|
| Leg length     | 99.00 cms. | 120.00 cms. |
| Thigh Length   | —          | 64.00 cms.  |
| Sitting Height | 81.50 cms. | 96.00 cms.  |

On account of lower age of NDA candidates, a margin of upto 5.0 cm. in height, 2.5 cm. in leg length (minimum) and 1.0 cm. sitting height (minimum) may be given provided it is certified by the Medical Board that the candidate is likely to grow and come upto the required standard on completion of his training in NDA.

- (d) Chest should be well developed. Fully expanded chest should not be less than 81 cms. The minimum range of expansion after full inspiration should be 5 cms.

The measurement will be taken with a tape so adjusted that its lower edge should touch the nipple in front and the upper part of the tape should touch the lower angle of the shoulder blades behind. X-Ray of the chest is compulsory and will be taken to rule out any disease of the chest.

- (e) There should be no maldevelopment or impairment of function of the bones or joint.

## Spinal Conditions

- (f) Past medical history of diseases or injury of the spine or sacro iliac joints, either with or without objective signs which have prevented the candidate from successfully following a physically active life, is a case for rejection for commissioning in IAF. History of spinal fracture/prolapsed intervertebral disc and surgical treatment for these conditions will entail rejection. The following conditions detected during medical exam will disqualify a candidate for Air Force service :

- (i) Granulomatous disease of spine
- (ii) Arthritides/spondylosis
  - Rheumatoid arthritis and allied disorders
  - Ankylosing spondylitis
  - Osteoarthritis, spondylosis and degenerative joint diseases
  - Non articular rheumatism (e.g. lesions of the rotator cuff, tennis elbow, recurrent lumbago etc)
  - Miscellaneous disorders including SLE, dermatomyositis, polymyositis, vasculitis.
- (iii) Spondylolisthesis/spondylolysis.
- (iv) Compression fracture of vertebrae.
- (v) Scheuerman's disease (Adolescent kyphosis)
- (vi) Loss of cervical lordosis when associated with clinically restricted movements of cervical spine.
- (vii) unilateral/bilateral cervical ribs with demonstrable neurological or circulatory deficit.
- (viii) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's method.
- (ix) Herniated nucleus pulposus.
- (x) Presence of Schmorl's nodes at more than one level.
- (xi) Atlanto-occipital and atlantoaxial anomalies.
- (xii) Hemi vertebrae and/or incomplete block (fused) vertebrae at any level in cervical, dorsal or lumbar spine and complete block (fused) vertebrae at more than one level in cervical or dorsal spine.



- (xiii) Unilateral Sacralisation or lumbarisation (Complete or incomplete) at all levels and bilateral incomplete sacralisation or lumbarisation.
- (xiv) Any other abnormality if so considered by the specialist.
- (g) Mild Kyphosis or Lordosis where deformity is barely noticeable and there is no pain or restriction of movement will not preclude acceptance.
- (h) In case of noticeable Scoliosis or suspicion of any other abnormality or spinal deformity, more than mild, appropriate X-rays of the spine are to be taken and the Examinee referred for specialist's advice.
- (i) The following conditions detected on X-ray examination will be disqualifying for entry to Armed Forces :
- (i) Granulomatous disease of spine.
  - (ii) Arthritides/spondylosis
  - (iii) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's Method (10 degree for Army).
  - (iv) More than mild Kyphosis/Lordosis
  - (v) Spondylothesis/Spondylosis.
  - (vi) Herniated nucleus pulposus.
  - (vii) Compression fracture of Vertebra.
  - (viii) Sacralisation Disease
  - (ix) Cervical ribs with demonstrable neurological or Circulatory deficit.
  - (x) Presence of Schmorl's node at more than one level.
  - (xi) Atlanto-occipital and atlanto-axial anomalies.
  - (xii) Incomplete Sacralisation Unilateral or Bilateral
  - (xiii) Spinabifida other than SV I and LV 5
  - (xiv) Any other abnormality, if so considered by specialist.
- (j) A candidate should have no past history of mental breakdown or fits.
- (k) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms. in a quiet room. There should be no evidence of present or past disease of the ear, nose and throat. Audiometric test will be done for AF. Audiometric loss should not exceed + 20 db in frequencies between 250Hz and 4000 Hz. There is no impediment of speech.
- (l) There should be no signs of functional or organic disease of the heart and blood vessels. Blood pressure should be normal.
- (m) There should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen will be a cause for rejection.
- (n) Un-operated hernias will make a candidate unfit. In case of Hernia which has been operated, a minimum of 6 months must have passed prior to final medical examination before commencement of the course.
- (o) There should be no hydrocele, varicocele or piles.
- (p) Urine examination will be done and any abnormality if detected will be a cause for rejection.
- (q) Any disease of skin which is likely to cause disability or disfigurement will also be a cause for rejection.
- (r) A candidate should be able to read in a distant vision chart 6/6 in better eye and 6/9 in worse eye with or without glasses. Myopia should not be more than 2.5 D and hypermetropia not more than 3.5 D including Astigmatism. Internal examination of the eye will be done by means of ophthalmoscope to rule out any disease of the eye. A candidate must have good binocular vision. The colour vision standard will be (CP-III) for Army. A candidate should be able to recognise red and green colours. Candidates will be required to give certificates that neither he nor any member of his family has suffered from congenital night blindness. Candidates who have undergone or have the evidence of having undergone Radial Keratotomy, to improve the visual acuity will be permanently rejected for all the services. Candidates who have undergone Laser Surgery for correction of refractive error are also not acceptable to defence services.

#### Vision standard for Naval candidates

Uncorrected without glass 6/6

Corrected with glass 6/6

Limits of Myopia -0.75

Limits of Hypermetropia +1.5

Binocular vision III

Limits of colour preception I

Ocular Muscle Balance Heterophoria with the Maddox Rod Test must not exceed :

- (i) At 6 metre— Exophoria 8 prism dioptries,  
Esophoria 8 prism dioptries,  
Hyperphoria 1 prism dioptries.

- (ii) at 33 cm      Exophoria 16 prism dioptries,  
                           Esophoria 6 prism dioptries,  
                           Hyperphoria 1 prism dioptries.

#### Visual Standards for Air Force

Candidates who habitually wear spectacles are not eligible for Air Force. Minimum distant vision 6/6 in one eye and 6/9 in other, correctable to 6/6 only for Hypermetropia. Colour vision CP-1 Hypermetropia : +2.0 D Sph Manifest Myopia : Nil Retinoscopic Myopia : 0.5 in any meridian permitted Astigmatism : +0.75 D Cyl (within +2.0 d-Max) maddox Rod Test

- (i) at 6 meters      Exo-6 prism D  
                           Eso-6 prism D  
                           Hyper-1 prism D  
                           Hypo-1 Prism D
- (ii) at 33 cms      Exo-16 prism D  
                           Eso-6 prism D  
                           Hyper-1 prism D  
                           Hypo-1 Prism D

Hand held Stereoscope—All of BSV grades Convergence—Up to 10 cm Cover test for distant and near—Lateral divergence/convergence recovery rapid and complete Radial keratotomy, Photo Refractive keratotomy/laser in Situ, keratomileusis (PRK/Lasik) surgeries for correction of refractive errors are not permitted for any Air Force duties. Candidates having undergone cataract surgery with or without IOL implants will also be declared unfit.

Binocular vision—must possess good binocular vision (fusion and stereopsis with good amplitude and depth.

Candidates who have undergone LASIK surgery are not considered fit for permanent commission in flying branch in IAF.

- (s) USG abdomen examination will be carried out and any congenital structural anomaly or disease of the abdominal organs will be a cause for rejection in Armed Forces.
- (t) The candidates should have sufficient number of natural and sound teeth. A minimum of 14 dental points will be acceptable. When 32 teeth are present, the total dental points are 22. A candidate should not be suffering from severe pyorrhoia.
- (u) Routine ECG and EEG for Air Force candidates must be within normal limits.

- (v) Physical conditioning : Prospective candidates are advised to keep themselves in good physical condition, by following the undermentioned routine :—

- (a) Running 2.4 Km in 15 minutes  
 (b) Skipping  
 (c) Push ups and sit ups (minimum 20 each)  
 (d) Chin ups (minimum 08)  
 (e) Rope climbing 3-4 metres.

#### APPENDIX-III

##### (BRIEF PARTICULARS OF THE SERVICE ETC.)

1. Before a candidate joins the Academy, the parent or guardian will be required to sign :—

(a) A certificate to the effect that he fully understands that he or his son or ward shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which his son or ward may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) A bond to the effect that if, on account of his dismissal or discharge or withdrawal from National Defence Academy for knowingly furnishing false particulars or suppressing material information in his application for admission to the said National Defence Academy or in the event of his being dismissed or discharged or withdrawn on disciplinary grounds from the said, National Defence Academy or for any reason not beyond the control of the cadet, he does not complete the prescribed period of training, or he, the cadet, does not accept a Commission if offered as conventated above, then the Guarantors and the cadet shall jointly and severally be liable to pay forthwith to Government in cash sums as the Government shall fix but not exceeding such expenses as shall have been incurred by the Government on account of the Cadet on his training and all the money received by the Cadets as pay and allowance from the Government together with interest on the said money calculated at the rate in force for Government loans.

2. The cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets, will however, be required to meet their pocket and other private expenses. Normally, these expenses are not likely to exceed Rs. 400.00 p.m. If in any case a cadet's parents or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance upto Rs. 400.00 p.m. for the 1st and 2nd years. Rs. 400.00 p.m. for the 3rd year training at NDA and

Rs. 400.00 p.m. for the further specialised training in Army/ Navy/Air Force Training Establishments may be granted by the Government. No cadet whose parent's or guardian's income exceeds Rs. 1500/- per month and Rs. 2000/- per month if more than one son/ward simultaneously undergoing training at NDA, IMA, OTA and corresponding training establishment in the Navy and Air Force would be eligible for the grant of financial assistance.

The parent/guardian of a candidate desirous of having financial assistance from the Government should immediately after his son/ward having been finally selected for training at the National Defence Academy submit an application through the District Magistrate of his District who will forward the application with his recommendation to the Commandant, National Defence Academy, Khadakwasla, Pune-411023.

3. Candidates finally selected for training at the Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant, National Defence Academy, on arrival there :

|  |                    |
|--|--------------------|
| (a) Pocket allowance for five months           | Rs. 2000.00        |
| at Rs. 400.00 per month.                       |                    |
| (b) For items of clothing and equipment        | Rs. 3200.00        |
| (c) Incidental Expenditure during 1st Semester | Rs. 425.00         |
| Total  | <u>Rs. 5625.00</u> |

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the candidate in the event of financial aid being sanctioned to them.

|  |             |
|--|-------------|
| (a) Pocket allowance for five months                   | Rs. 2000.00 |
| at Rs. 400.00 per month                                |             |
| (b) For items of clothing and equipment approximately. | Rs. 475.00  |

4. The following Scholarships/Financial Assistance are tenable at the National Defence Academy.

(1) **PARASHURAM BHAI PATWARDHAN SCHOLARSHIP**—This scholarship is granted to boys who belong to MAHARASHTRA AND KARNATAKA and whose parents income is between Rs. 350.00 and 500.00 per month from all sources. The value of the scholarship is equal to the Government financial assistance. It is admissible for the duration of a Cadet's stay in the National Defence Academy and other Pre-commission training establishment subject to the Cadet's good conduct and satisfactory progress in the training and his parents income remaining below the prescribed limit. Cadets who are granted this scholarship, will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(2) **COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL SCHOLARSHIP**—This scholarship is of the value of Rs. 360.00 per annum and awarded to a MARATHA cadet who should be the son of an ex-serviceman. The Scholarship is in addition to any financial assistance from the Government.

(3) **KAUR SINGH MEMORIAL SCHOLARSHIP**—Two scholarships are awarded to cadets who obtain the highest position amongst candidates from BIHAR. The value of each scholarship is Rs. 37.00 per mensem tenable for a maximum period of 4 years during the training at the National Defence Academy, Khadakwasla and thereafter at the Indian Military Academy, Dehra Dun and the Air Force Flying College; and Naval Academy, Cochin where the cadets may be sent for training on completion of their training at the National Defence Academy. The scholarship will, however, be continued subject to maintaining good progress at the above institution.

(4) **ASSAM GOVERNMENT SCHOLARSHIP**—Two scholarships will be awarded to the cadets from ASSAM. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per mensem and is tenable for the duration of a cadet's stay at the National Defence Academy. The scholarships will be awarded to the two best cadets from ASSAM without any reference to the income of their parents. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(5) **UTTAR PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—Two scholarships each of the value of Rs. 30.00 per month and an outfit stipend of Rs. 400.00 are awarded to two cadets who belong to UTTAR PRADESH on merit-cum-means basis and are tenable for a period of three years subject to satisfactory performance by the cadets at National Defence Academy. Cadets who are granted these Scholarships are not entitled to any other financial assistance from Government.

(6) **KERALA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—One merit scholarship of the value of Rs. 480/- per annum for the entire period of training at NDA, will be awarded by the State Government of Kerala to a Cadet who is domiciled resident of the State of KERALA and who secures the first position in the All India UPSC Entrance Examination to NDA irrespective of the fact whether he has passed out from RIMC or from any of the Sainik Schools in India. The financial position of a cadet's father/guardian is not taken into consideration.

(7) **BIHARI LAL MANDAKINI PRIZE**—This is cash prize of Rs. 500.00 available for the best BENGALI boy in each Course of the Academy. Application forms are available with the Commandant, National Defence Academy.

(8) **ORISSA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—These scholarships, one for the Army, one for the Navy and the other for the Air Force of the value of Rs. 80.00 each per month will be awarded by the Government of Orissa to the cadets who are permanent residents of the State of ORISSA. Two of these scholarships will be awarded on the basis of merit-cum-means of the cadets whose parent's or guardian's income does not exceed Rs. 5,000/- per annum and the other one will be given to the best cadet irrespective of his parent's or guardian's income.

(9) **WEST BENGAL GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—Following categories of scholarships are awarded by the West Bengal Government to those cadets who are permanent residents of WEST BENGAL :—

#### Scheme-I

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Number of Scholarships       | - Six per year.  |
| Distribution of Scholarships | - One each for Army, Navy and Air Force for each of two terms commencing every year.   |
| Financial grant per Award    | - 1st year - Lumpsum clothing grant of Rs. 2500/- and Pocket Allowance of Rs. 125/- per month. 2nd/3rd/4th year—Pocket Allowance of Rs. 125/- per month. |

#### Scheme-II

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Number of Scholarships       | - Six per year.  |
| Distribution of Scholarships | - As in Scheme-I.  |
| Financial grant per Award    | - 1st/2nd/3rd/4th year - Lumpsum grant of Rs. 100/- each year. |

(10) **PILOT OFFICER GURMEET SINGH BEDI MEMORIAL SCHOLARSHIP**—One scholarship of Rs. 420.00 per annum is granted to the cadet who stands highest in the overall order of merit amongst Air Force Cadets at the end of the 4th term. It is for the duration of one year (during 5th and 6th terms). This scholarship will be withdrawn if the recipient is relegated or withdrawn during the period of its receipts. The cadet who is already in receipt of any such merit scholarship or financial assistance is not entitled to this scholarship.

(11) **HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—Four scholarships will be awarded to cadets from HIMACHAL PRADESH. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per month during the first two years of training and Rs. 48.00 per month during the third year of

training. These scholarships will be available to those cadets whose parent's income is below Rs. 500.00 per month. No cadet in receipt of financial assistance from the Government will be eligible for this scholarship.

(12) **TAMIL NADU GOVERNMENT SCHOLARSHIP**—The Government of Tamil Nadu has instituted at NDA one scholarship per course of the value of Rs. 30/- per month plus an outfit allowance of Rs. 400/- (one only during the entire period of cadet's training) to be awarded to a cadet belonging to the State of TAMIL NADU whose parent's/guardian's monthly income does not exceed Rs. 500/-. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

(13) **KARNATAKA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—The Government of Karnataka has awarded 18 scholarships (Eighteen Scholarships) 9 in respect of course commencing from January and 9 in respect of course commencing from July every year for award to cadets from Karnataka State who join the National Defence Academy after completion of their education at the Sainik School, Bijapur or at the Rashtriya Indian Military College, Dehra Dun. The value of the scholarship shall be Rs. 480/- (Rupees Four hundred and eighty) each per annum. Four more scholarships (two per term) at the rate of Rs. 480/- per annum for the cadets of Karnataka State who join NDA after completion of education other than at Sainik School, Bijapur/RIM College, Dehra Dun have been awarded.

(14) **ALBERT EKKA SCHOLARSHIP**—The Government of Bihar has instituted at NDA 25 Merit Scholarships at Rs. 50/- per month for entire period of six terms at the NDA and Rs. 650/- one time towards clothing and equipment. The cadet awarded the above merit scholarship would not be eligible for any other scholarship or financial assistance from the Government. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

(15) **FG OFFICER DV PINTOO MEMORIAL SCHOLARSHIP**—Gp Capt M Vashishta has instituted 3 scholarships of Rs. 125/- each per month at NDA for one term to be awarded to the first three cadets in the order of merit on completion of their first semester till end of second term. The cadets in receipt of Govt. Financial Assistance will not be eligible for the above scholarships. The application for eligible cadets can be made to the Commandant, NDA on arrival.

#### (16) FINANCIAL ASSISTANCE TOWARDS OF EX-SERVICEMEN—MAHARASHTRA STATE

The wards of Maharashtrian ex-service officers/men who are undergoing training as Cadets at NDA/IMA/Air Force Academy and Naval Academy will be given pocket expenses

prescribed by the Training Establishment at the following rates :

|               |   |
|---------------|---|
| Ex-Officers : | 50% of total pocket expenses for entire duration of training. |
| Ex-JCOs :     | 75% -do-  |
| Ex-ORs :      | 100% -do-   |

The parents/guardians of the wards should submit their applications to their respective Zila Sainik Welfare Office alongwith the certificates obtained from the academy, showing the rates of pocket money, based on which the amount will be remitted to the applicant's parents.

Terms and conditions governing these scholarships are obtainable from the Commandant, National Defence Academy, KHADAKWASLA, PUNE (411 023).

5. Immediately after the selected candidates join the Academy, a preliminary examination will be held in the following subjects :

- (a) English;
- (b) Mathematics;
- (c) Science;
- (d) Hindi.

The standard of the examination in the subjects, at (a), (b) and (c) will not be higher than that of the Higher Secondary Examination of an Indian University or Board of Higher Secondary Education. The paper in the subject at (d) is intended to test the standard attained by the candidate in Hindi at the time of joining the Academy.

Candidates are, therefore, advised not to neglect their studies after the competitive examination.

#### Training

6. The selected candidates for the three services, viz., Army, Navy and Air Force are given preliminary training both academic and physical for a period of 3 years at the National Defence Academy which is an Inter-Service Institution. The training during the first two and half years is common to the cadets of three wings. The cadets on passing out will be awarded B.Sc./B. Sc. (Computer)/B.A. degree from Jawaharlal Nehru University, Delhi.

The selected candidates of Naval Academy will be given preliminary training both academic and physical, for a period of 04 years at Naval Academy, Ezhimala. The cadets of 10+2 (Executive Branch) will be awarded a B. Tech Degree on successful completion of training.

7. On passing out from the National Defence Academy, Army Cadets go to the Indian Military Academy, Dehra Dun, Naval Cadets to the Cadets Trainingship and Air Force cadets to AFA, HYDERABAD.

8. At the I.M.A. Army Cadets are known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military training for a period of one year aimed at turning officer capable of leading infantry Sub-units. On successful completion of training

Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lt. subject to being medically fit in "SHAPE" one.

9. The Naval cadets are selected for the Executive, Engineering and Electrical Branches of the Navy, on passing out from the National Defence Academy and are given sea training on the Cadet Trainingship for a period of six months on successful completion of which they are promoted to the rank of Midshipmen. After a further training of 6 months in the respective branches to which they are allocated they are promoted to the rank of sub Lieutenants.

10. Air Force Cadets receive flying training for a period of 1½ years. However, at the end of 1 year of training they are given provisional Commission in the rank of Flying Officer. After successful completion of further training of six months they are absorbed as permanent commissioned officers on probation for a period of one year.

#### TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES

11. Army Officers and equivalent ranks in Air Force and Navy

##### (i) Stipend for Cadet Training

Gentlemen cadets during the entire duration of training in Service academies i.e. during training period at IMA and OTA shall be entitled to stipend of Rs. 21,000/- p.m. (Rs. 15,600/- as pay in pay Band plus Grade Pay of Rs. 5,400/-).

##### (ii) Pay

##### (a) Rank Pay band (Rs.)

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lt. to Maj         | Rs. 15,600—39,100 (PB-3)   |
| Lt. Col to Maj Gen | Rs. 37,400—67,000 (PB-4)   |
| Lt. Gen            | HAG Scale 67000-(annual increment@3%)-79000<br>HAG+ Scale* 75000-(annual increment@3%)-80000 |

(\*Admissible to 1/3rd of total strength of Lt. Gens)

VCOAS/ARMY Cdr/Lt. Gen (NMSG) 80,000 (fixed)

COAS 90,000 (fixed)

(b) In addition to pay, Grade pay will also be given as under :—

|         |              |
|---------|--------------|
| Lt      | Rs. 5,400/-  |
| Capt.   | Rs. 6,100/-  |
| Major   | Rs. 6,600/-  |
| Lt Col  | Rs. 8,000/-  |
| Col     | Rs. 8,700/-  |
| Brig    | Rs. 8,900/-  |
| Maj Gen | Rs. 10,000/- |

(c) A Fixed sum of Rs. 6,000/- p.m. is also payable as Military Service Pay (MSP) to the officers from the rank of Lt. to Brig.

### (iii) QUALIFICATION PAY AND GRANT

Officers possessing certain prescribed qualification are entitled to lumpsum Qualification Grant of Rs. 6000/-, 9,000/-, 15,000/- or 20,000/- based on the qualification held by them.

The Army Aviators (Pilots) serving in Army Aviation Corps are entitled to the Qualification Pay, based on the Qualification held by them, as under :—

- (i) Master Aviation Instructor—Rs. 500/- p.m.
- (ii) Senior Aviation Instructor Class I—Rs. 400/- p.m.
- (iii) Senior Aviation Instructor Class II—Rs. 280/- p.m.
- (iv) Aviators holding Master Green Card—Rs. 400/- p.m.
- (v) Aviators holding Green Card Rs. 280/- p.m.

The Army Aviators (Pilots) serving in the Army Aviation Corps are entitled to flying allowance as under :—

- (a) Brig & above Rs. 10,500/-
- (b) Maj to Col. Rs. 14,000/-
- (c) Capt. Rs. 11,000/-
- (d) Lt. Rs. 9,000/-

### (iv) Allowances

In addition to pay, an officer at present receives the following allowances :

(a) Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time.

(b) A kit maintenance allowances of Rs. 400/- p.m.

(c) Depending upon rank and area of posting, officer posted to Field Areas will be eligible for compensatory Highly Active Field Area Allowance at the rate of Rs. 6,780/- to Rs. 8,400/- p.m., Compensatory Field Area Allowance at the rate of Rs. 4,200/- to Rs. 5,200/- p.m. and Compensatory Modified Field Area Allowance at the rate of Rs. 16,000/- to Rs. 2,000/- p.m.

(d) In addition to the Compensatory Field Area Allowance, officers posted to areas situated at a height of 9000 ft. and above are entitled for High Altitude Allowance

in the range of Rs. 1,060 p.m. to Rs. 11,200 p.m. depending upon rank of the officer and place of posting.

(e) Uniform allowance : Initial allowance for one time kit @ Rs. 14,000/- and Rs. 3,000/- for every three years.

(f) Transport allowance : Transprot @ Rs. 3,200/- + DA thereon p.m. in A-1/A class Cities and Rs. 1600/- + DA thereon p.m. at other places shall be admissible to officers.

12. (a) Army Group Insurance Fund is a Compulsory contributory group scheme, which provides insurance cover for Rs. 8 lac on payment of one time premium of Rs. 4250/- for 3 years paid in advance in lump Sum by the cadets including Naval and Air Force Cadets of NDA from the date of joining for Pre-commission training till completion of training at NDA. In case of relegation an additional premium Rs. 770/- per relegated term will be paid immediately on occurrence. For those who are medically boarded out of NDA on account of Disability, the cover provided is 50 percent of the insured amount for 100 percent disability i.e. Rs. 4 lac. for 100 percent disability which is proportionately reduced to Rs. 80,000/- for 20 percent disability. Cadets being boarded out with less than 20 percent will be given an ex-gratia grant of Rs. 20,000/-. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the disease of pre enrolment origin will not qualify for disability benefits and ex-gratia. In addition, a cadet withdrawn on disciplinary grounds or as undesirable or voluntarily leaves the Academy will also not be eligible for disability benefits and ex-gratia.

(b) At IMA when in receipt of stipend, the Gentlemen Cadets are provided insurance cover of Rs. 30 lac. wef from 01 Jan 2009 as per main AGI scheme as applicable to regular officers. Those who are medically boarded out of IMA on account of disability, the cover provided is 50 percent of the insured amount for 100 percent disability, i.e. Rs. 15 lac. for 100 percent disability which is proportionately reduced to Rs. 3 lac for 20 per cent and an ex-gratia grant of Rs. 20,000/- for less than 20 percent disability. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases fo pre enrolment origin will not qualify for disability benefits and ex-gratia. In addition, cadet withdrawn on disciplinary grounds or a as undesirable or voluntarily leaves the Academy will also not be eligible for disability benefits and ex-gratia.

### 13. RETIREMENT BENEFITS

Pension, gratuity and casualty pensionary award will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

### 14. LEAVE

Leave will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

KULDEEP KUMAR SAHARWAT  
Dy. Secy.

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 30th September 2009

No. DP/PERS.II/2007/3154/A-19017/1/2007—Shri Ravi Chander Gupta, relinquished the charge of the post of Private Secretary, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 30.09.2009 on attaining the age of superannuation.

Sd./- Illegible  
Administrative Officer (Pers.)

## BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 30th September 2009

No. PD/2(5)/2007/R-IV/7292—President is pleased to appoint Shri Narendra Arun Baviskar as Scientific Officer grade 'C' in the Pay Band of Rs. 15,600—31,100+5,400 (Grade Pay) in Rare Materials Project, Bhabha Atomic Research Centre, Mysore in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01st June, 2009 until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 13th March 2009

No. 1/15(9)/2006-Vig./185—Whereas it was alleged that Dr. (Smt.) Taposhi Ganguly, Scientific Officer 'D', Board of Radiation and Isotope Technology (BRIT) remained unauthorizedly absent from duty since 31.12.2005;

2. And whereas the said Dr. (Smt.) Taposhi Ganguly by her aforesaid action has shown lack of devotion to duty and has thus acted in a manner unbecoming of a Government servant thereby contravening the provisions of sub-rule 1 (ii) and 1 (iii) of Rule 3 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964;

3. And whereas the said Dr. (Smt.) Ganguly was informed of the charge and of the action proposed to be taken against her under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, vide Memorandum No. 1/15(9)/2006-Vig/8317 dated 30.10.2006;

4. And whereas the said Dr. (Smt.) Ganguly vide her written statement of defence dated 20.11.2006 had denied the charge;

5. And whereas an inquiry under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 was ordered by appointing an Inquiring Authority, vide Order No. 1/15(9)/2006-Vig/dated 19.02.2007;

6. And whereas the said Dr. (Smt.) Ganguly during the preliminary hearing unconditionally accepted the charge levelled against her;

7. And whereas after completion of the inquiry proceedings, the Inquiring Authority submitted his report,

holding the charge against the said Dr. (Smt.) Ganguly as proved;

8. And whereas after careful consideration of the inquiry report and other relevant records of the case, the Disciplinary Authority agreed with the findings of the Inquiring Authority;

9. And whereas a copy of the inquiry report was sent to Dr. (Smt.) Ganguly vide memorandum dated 09.04.2008 under registered A.D. to her known addresses for submitting written representation, if any, against the inquiry report;

10. And whereas the said Dr. (Smt.) Ganguly did not respond to the inquiry report and no representation was received from her;

11. And whereas after careful consideration of the inquiry report and other relevant records of the case, the Disciplinary Authority came to the conclusion that ends of justice would be met if the penalty of 'removal from service' is imposed on the said Dr. (Smt.) Ganguly;

12. And whereas the Union Public Service Commission (UPSC) was consulted in the matter. The Commission after considering all relevant records and other aspects of the case, advised the imposition of the penalty of 'removal from service' on the said Dr. (Smt.) Ganguly vide its letter No. F.3/256/2008-SI dated 10.02.2009 (Copy Enclosed);

13. And whereas after careful consideration of the advice of UPSC, the Disciplinary Authority has decided to accept the advice of the Commission and to impose the penalty of 'removal from service' on the said Dr. (Smt.) Ganguly;

14. Now, therefore, the President in exercise of the powers conferred under Rule 15(4) of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 hereby imposes the penalty of 'removal from service' on the said Dr. (Smt.) Taposhi Ganguly, Scientific Officer/D, Board of Radiation and Isotope Technology with immediate effect.

15. The period of unauthorized absence from 31.12.2005 till the date of issue of this order shall be treated as dies-non.

ANIL KAKODKAR  
Secy.

Dr. (Smt.) Taposhi Ganguly,  
Scientific Officer/D,  
Board of Radiation and Isotope Technology, Vashi  
Complex,  
New Mumbai-400705.

## NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 30th September 2009

No. NFC/PAR.II/2-2008/655—The President is pleased to appoint Shri Ch. Mogili, Scientific Assistant 'D' of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the grade of Scientific Officer/Engineer 'C' (Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay

of Rs. 5,400/-) with effect from 01.02.2008 in the same unit, in an officiating capacity, until further orders.

A. S. LAXMAN RAO  
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
O/o THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

New Delhi-110019, the 24th September 2009

No. ROC/DELHI/560(5)/Regular/6437—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the undermentioned Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies, Delhi and Haryana and are dissolved :-

| S. No. | CIN No. | Name of the Company                                |
|--------|---------|--|
| 1      | 2       | 3  |
| 1.     | 148156  | M/s. Sophronia Real Estates Private Limited        |
| 2.     | 147855  | M/s. Tapomay Estate Developers Private Limited     |
| 3.     | 147678  | M/s. Zebulon Builders & Developers Private Limited |
| 4.     | 147813  | M/s. Mabli Builders & Developers Private Limited   |
| 5.     | 156606  | M/s. EVANIA Real Estate Developers Private Limited |
| 6.     | 156469  | M/s. Lalage Real Estate Developers Private Limited |
| 7.     | 156527  | M/s. Evadne Real Estate Developers Private Limited |
| 8.     | 147547  | M/s. Mueez Real Estates Private Limited            |
| 9.     | 147607  | M/s. Eban Builders & Developers Private Limited    |
| 10.    | 148048  | M/s. IAIN Real Estates Private Limited             |
| 11.    | 158024  | M/s. Acantha Builders & Developers Private Limited |
| 12.    | 158087  | M/s. Diantha Builders & Developers Private Limited |
| 13.    | 158009  | M/s. Doron Builders & Developers Private Limited   |
| 14.    | 158008  | M/s. Adephio Builders & Developers Private Limited |

| 1   | 2      | 3  |
|-----|--------|--|
| 15. | 158243 | M/s. Hematite Builders & Consturctions Private Limited |
| 16. | 169562 | M/s. U-Tum Infratech Projects Private Limited          |
| 17. | 161629 | M/s. Ilhāna Builders & Developers Private Limited      |
| 18. | 161824 | M/s. Thisbe Real Estate Developers Private Limited     |
| 19. | 161628 | M/s. Timeus Builders & Developers Private Limited      |
| 20. | 161632 | M/s. Indubhava Builders & Developers Private Limited   |
| 21. | 148113 | M/s. Nairne Builders & Developers Private Limited      |
| 22. | 164655 | M/s. Ekamati Builders & Developers Private Limited     |
| 23. | 164653 | M/s. Ekavali Real Estate Developers Private Limited    |
| 24. | 164767 | M/s. Kahini Builders & Developers Private Limited      |
| 25. | 162169 | M/s. Kushandhara Builders & Developers Private Limited |
| 26. | 158505 | M/s. Mizu Builders & Constructions Private Limited     |
| 27. | 165179 | M/s. Ruhayana Builders & Developers Private Limited    |
| 28. | 164649 | M/s. Swarnavo Builders & Developers Private Limited    |
| 29. | 164654 | M/s. Tashvi Builders & Developers Private Limited      |
| 30. | 162174 | M/s. Ishukaa Builders & Developers Private Limited     |
| 31. | 163297 | M/s. Lakini Builders & Developers Private Limited      |
| 32. | 162163 | M/s. Abista Builders & Developers Private Limited      |
| 33. | 163069 | M/s. Hanifah Builders & Developers Private Limited     |
| 34. | 162171 | M/s. Adhira Builders & Developers Private Limited      |
| 35. | 161630 | M/s. Ikshita Builders & Developers Private Limited     |
| 36. | 163064 | M/s. Hazina Builders & Developers Private Limited      |



| 1   | 2      | 3  | 1   | 2      | 3   |
|-----|--------|--|-----|--------|---|
| 37. | 162304 | M/s. Kumbhari Builders & Developers Private Limited    | 62. | 143802 | M/s. Sanchali Real Estate Developers Private Limited      |
| 38. | 037113 | M/s. DLF Budget Hotels Limited                         | 63. | 144199 | M/s. Shrila Builders & Developers Private Limited         |
| 39. | 037123 | M/s. DLF Kasuli Hotels Private Limited                 | 64. | 144277 | M/s. Simbala Builders & Developers Private Limited        |
| 40. | 037134 | M/s. DLF Golf Course Hotels Private Limited            | 65. | 144276 | M/s. Talika Real Estate Developers Private Limited        |
| 41. | 037112 | M/s. DLF Business Hotels Limited                       | 66. | 144267 | M/s. Trisha Real Estate Developers Private Limited        |
| 42. | 037132 | M/s. DLF Cyber City Hotels Private Limited             | 67. | 144198 | M/s. Tuniha Real Estate Developers Private Limited        |
| 43. | 037115 | M/s. DLF Convention Centres Limited                    | 68. | 037150 | M/s. DLF Exhibition Center Private Limited                |
| 44. | 037156 | M/s. DLF Arachana Serviced Apartments Private Limited  | 69. | 037203 | M/s. DLF Jaipur Hotels Private Limited                    |
| 45. | 037114 | M/s. DLF Heritage Hotels Limited                       | 70. | 169141 | M/s. DLF Minor Restaurants Private Limited                |
| 46. | 037310 | M/s. DLF Goa Convention Center Private Limited         | 71. | 161522 | M/s. Kilya Retail Private Limited                         |
| 47. | 037149 | M/s. DLF Convention & Exhibition Private Limited       | 72. | 147567 | M/s. Adaliya Builders & Developers Private Limited        |
| 48. | 037237 | M/s. DLF Heritage Hotels & Resorts Private Limited     | 73. | 147772 | M/s. Seaton Builders & Developers Private Limited         |
| 49. | 037109 | M/s. DLF Dwarka Convention Center Private Limited      | 74. | 147575 | M/s. Ogilvy Builders & Developers Private Limited         |
| 50. | 148066 | M/s. Kessare Builders & Developers Private Limited     | 75. | 147761 | M/s. Gaspar Builders and Constructions Private Limited    |
| 51. | 148068 | M/s. Lillion Builders & Developers Private Limited     | 76. | 147540 | M/s. Harinakshi Estates Developers Private Limited        |
| 52. | 148069 | M/s. Lujua Builders & Developers Private Limited       | 77. | 037148 | M/s. DLF Leisure & Entertainment Private Limited          |
| 53. | 148073 | M/s. Mireys Builders & Developers Private Limited      | 78. | 037152 | M/s. DLF Budget Venture Hotels Private Limited            |
| 54. | 163285 | M/s. Yahavi Builders & Developers Private Limited      | 79. | 037124 | M/s. DLF Mumbai Hotels Private Limited                    |
| 55. | 158144 | M/s. Agneta Real Estate Developers Private Limited     | 80. | 037128 | M/s. DLF Rohini Hotels Private Limited                    |
| 56. | 038197 | M/s. DLF Ahmedabad Convention Center Limited           | 81. | 037128 | M/s. DLF Hotel Ventures Private Limited                   |
| 57. | 164657 | M/s. Kinnari Real Estate Developers Private Limited    | 82. | 037145 | M/s. DLF Airport Hotels Private Limited                   |
| 58. | 162166 | M/s. Kurira Builders & Developers Private Limited      | 83. | 037130 | M/s. DLF Deluxe Hotels Private Limited                    |
| 59. | 164659 | M/s. Rolee Builders & Developers Private Limited       | 84. | 037146 | M/s. DLF Conventions And Hotels Private Limited           |
| 60. | 140786 | M/s. Umed Constructions Private Limited                | 85. | 171949 | M/s. DLF Limitless Real Estate Developers Private Limited |
| 61. | 148076 | M/s. Carlotta Builders & Constructions Private Limited | 86. | 036804 | M/s. Aurelio Developers & Constructions Private Limited   |

| 1   | 2      | 3   |
|-----|--------|---|
| 87. | 036808 | M/s. Mercede Real Estate Private Limited              |
| 88. | 037222 | M/s. Dexterity Security Services Private Limited      |
| 89. | 165414 | M/s. Adney Builders & Developers Private Limited      |
| 90. | 165413 | M/s. Alford Builders & Developers Private Limited     |
| 91. | 165443 | M/s. Alderco Builders & Developers Private Limited    |
| 92. | 165411 | M/s. Aldridge Builders & Developers Private Limited   |
| 93. | 165412 | M/s. Ainsley Builders & Developers Private Limited    |
| 94. | 165455 | M/s. Brewster Builders & Developers Private Limited   |
| 95. | 165419 | M/s. Barnum Builders & Developers Private Limited     |
| 96. | 165416 | M/s. Bosley Builders & Developers Private Limited     |
| 97. | 165426 | M/s. Christabel Builders & Developers Private Limited |
| 98. | 139837 | M/s. Natwar Builders & Developers Private Limited     |

M. C. SAXENA  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Patna, the 25th September 2009

No. ROC/PAT/560/(3)/910—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved :—

| Sl. No. | Reg. No. | Name of the Company                   |
|---------|----------|---------------------------------------|
| 1.      | 10100    | M/s. Starmed Remedies Private Limited |
| 2.      | 6668     | M/s. Vanvihar Finance India Limited   |

K. S. PRADHAN  
Registrar of Companies  
Bihar & Jharkhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Patna, the 25th September 2009

No. ROC/PAT/560/(5)/910—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register and the said company are dissolved :—

| Sl. No. | Reg. No. | Name of the Company  |
|---------|----------|--|
| 1.      | 11387    | M/s. Spark Max Hi-Tech Private Limited                             |
| 2.      | 1353     | M/s. South Bihar Engineering & Chemical Industries Private Limited |
| 3.      | 10067    | M/s. Rajarshi Encon Private Limited                                |
| 4.      | 9610     | M/s. Betacom Information Technology Private Limited                |
| 5.      | 7453     | M/s. Gyanti Marketing Network Private Limited                      |
| 6.      | 4909     | M/s. Supreme Remedies Private Limited                              |

K. S. PRADHAN  
Registrar of Companies  
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wellworth Estate and Holdings Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 239/560/030900—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Wellworth Estate and Holdings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ekta Estates and Holding Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 233/560/030901—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ekta Estates and Holding Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pam Service and Engineering Company Private  
Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 127/560/021150—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pam Service and Engineering Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Emboshell Engraving Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 173 /560/059005—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Emboshell Engraving Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Parth Fabchem Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 573/560/089654—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Parth Fabchem Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Essential Machine Tools Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 642 /560/058313—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Essential Machine Tools Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. New Source Electronics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 991/560/062302—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. New Source Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Utility Cartons Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 178/560/147727—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Utility Cartons Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajebahadur Constructions Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 112 /560/030312—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajebahadur Constructions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manohar Impex Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 39/560/031522—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manohar Impex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mahashakti Roadlines Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 378/560/20548—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mahashakti Roadlines Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Precise Tapmatics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 196/560/048626—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Precise Tapmatics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Spik Skipper Shipping Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 215/560/020656—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Spik Skipper Shipping Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arna Paints Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 401/560/030953—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arna Paints Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Master Machinery Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 25/560/047775—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Master Machinery Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arihant Pactronics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 223/560/030831—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arihant Pactronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mehra Brothers Investments and Holdings Private  
Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 219/560/030832—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mehra Brothers Investments and Holdings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vishwamangal Investments Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 224/560/020653—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vishwamangal Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wing Electronics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 720/560/045409—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Wing Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ANG Communications Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 370/560/123056—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ANG Communications Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Premier Industrial Appliances Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 250/560/020631—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Premier Industrial Appliances Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Virsun Plast Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 188/560/050353—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Virsun Plast Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sindhu Samachar Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 12/560/015096—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sindhu Samachar Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nytonics (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 132/560/020997—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nytonics (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Benevolent Chit and Finance Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1355/560/015066—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Benevolent Chit and Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gem Consultants Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 146/560/030318—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gem Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Speedlink Tourist Services Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 246/560/030330—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Speedlink Tourist Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Polar Surgical Company Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 202/560/030826—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Polar Surgical Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Munira Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 226/560/030341—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Munira Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aditi Automobiles (Dhulia) Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 206/560/030842—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aditi Automobiles (Dhulia) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bombay Port Navigation Co. Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 568/560/027111—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bombay Port Navigation Co. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gagan Hotels Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 291/560/030892—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gagan Hotels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Banka Engineering Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 312/560/030876—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Banka Engineering Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Golf-Links Hotel Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 116/560/017934—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Golf-Links Hotel Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Zorex Overseas Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 314/560/068509—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Zorex Overseas Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Touchtex Electronics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 519/560/135917—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Touchtex Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Strategic Consultants Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 215/560/030342—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Strategic Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Beekay Electronics India Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 139/560/133212—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Beekay Electronics India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Raigadh Organics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 290/560/102866—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Raigadh Organics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Taj Bajina Investment Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 205/560/017967—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Taj Bajina Investment Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Diamond Trading Finance Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 20/560/016803—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Diamond Trading Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paramount Savings and Finance Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 29/560/016804—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Paramount Savings and Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Supanekar Machine Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 470/560/015776—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Supanekar Machine Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prime Batteries Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 101/560/095141—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prime Batteries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. New Kali Engineering Works Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 823/560/054702—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. New Kali Engineering Works Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sea-View Properties Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 272/560/030894—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sea-View Properties Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Haramain Electricals Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 512/560/033720—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Haramain Electricals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Coastal Estate Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 259/560/030896—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Coastal Estate Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Champles Systems Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 495/560/046030—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Champles Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Esbee Apartments Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 352/560/020583—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Esbee Apartments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bharat Train Control Systems and Innovations  
Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 482/560/146590—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bharat Train Control Systems and Innovations Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kelvin Electroswitches Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 418/560/139012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kelvin Electroswitches Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aar Vee Flame Pack Systems Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 835/560/029389—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aar Vee Flame Pack Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ansho India Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 382/560/043009—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ansho India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ectacom Educational Aids Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 274/560/018001—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ectacom Educational Aids Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. P.P. Engineering Company Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 232/560/017977 Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. P.P. Engineering Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Associated Coast Lighterage Company Private  
Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 88/560/016836—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Associated Coast Lighterage Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jeetendra Films Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 100/560/016841—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jeetendra Films Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Desai Consultants and Constructors  
Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 121/560/016845—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Desai Consultants and Constructors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dalvi Bhogle Constructions Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 412/560/027072—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dalvi Bhogle Constructions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Reality Constructions Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 536/560/030904—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Reality Constructions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. West-End Properties Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 523/560/030905—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. West-End Properties Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sun Micro Systems and Services Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 75/560/079398—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sun Micro Systems and Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Great Wall Tools Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 707/560/147528—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Great Wall Tools Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shri Datta Tools Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 779/560/146882—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Datta Tools Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amisons Agencies Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 148/560/017945—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amisons Agencies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bruno Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 526/560/06483—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bruno Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bombay Hotel Owners Asson. Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 91/560/007015—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bombay Hotel Owners Asson. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mystique Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 178/560/052490—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mystique Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Baraki Trading Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 576/560/030967—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Baraki Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Square Industrial Projects Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 161/560/099240—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Square Industrial Projects Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dahlia Softec Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 254/560/058117—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dahlia Softec Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tapovan Electrocraft Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 82/560/114039—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tapovan Electrocraft Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hari Laxmi Financier P Chit Funds Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 91/560/015580—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hari Laxmi Financier P Chit Funds Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gleitlager Metals and Alloys Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1045/560/064168—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gleitlager Metals and Alloys Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Maitry Builders Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 459/560/030923—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Maitry Builders Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanjay Housing Developers Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 437/560/030933—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanjay Housing Developers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kalyan Basu Trading And Finance Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 318/560/030865—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kalyan Basu Trading And Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hotel Seble Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 443/560/030929—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hotel Seble Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Armor Gadgets Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 690/560/142273—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Armor Gadgets Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Someshwar Transport Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 642/560/030976—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Someshwar Transport Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Berar Holdings Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 116/560/030313—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Berar Holdings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Guardian Locks Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 694 /560/136631—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Guardian Locks Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Modern Battery and Ancillaries Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 116/560/86636—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Modern Battery and Ancillaries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Certitude Electronics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 363/560/142658—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Certitude Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Filtration Fluid Dynamics India Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 731/560/132012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Filtration Fluid Dynamics India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. SJK Compu-Tech Systems Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 63/560/140172—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. SJK Compu-Tech Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Red Haven Hotels Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 354/560/30903—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Red Haven Hotels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wellworth Resorts Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 284/560/30893—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Wellworth Resorts Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pemasu Chemicals Manufacturing Company  
Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 335/560/30852—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pemasu Chemicals Manufacturing Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. N. Gaduram Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1038/560/13123—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. N. Gaduram Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tissot Appliances Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 720/560/133007—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tissot Appliances Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pittie Agencies Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 374/560/6701—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pittie Agencies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jwala Products (Bombay) Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 309/560/66265—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jwala Products (Bombay) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shanamish Holding and Trading Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 246/560/26584—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shanamish Holding and Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Nathuji Electronics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 319/560/66177—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Nathuji Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chemisol Agencies Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 154/560/31444—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chemisol Agencies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kig Electricals Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 341/560/64332—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kig Electricals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Upadhyay Engineers Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 177/560/51461—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Upadhyay Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hotelitadel Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 325/560/30353—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hotelitadel Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tradition Fabrics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1035/560/17563—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tradition Fabrics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Republic Corpn. Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 485/560/6574—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Republic Corpn. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vapi Transport Co. Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 160/560/31438—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vapi Transport Co. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanjay Saving Scheme and Building Construction  
Co. Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 209/560/15824—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanjay Saving Scheme and Building Construction Co. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shebro Synthetic Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 59/560/31491—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shebro Synthetic Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Excelsior Needles Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 590/560/11208—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Excelsior Needles Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Metropolitan Exim Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 836/560/29167—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Metropolitan Exim Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Daksha Holding and Trading Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 318/560/26586—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Daksha Holding and Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Antares Trading Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 584/560/26443—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Antares Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Huns Industrial Agencies Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1220/560/26542—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Huns Industrial Agencies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Secular Steel Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 182/560/53347—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Secular Steel Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Khyber Paper Koaters Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 124/560/26563—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Khyber Paper Koaters Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anil-Bina Estates Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 365/560/26588—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anil-Bina Estates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. Dalpatlal Diamonds Manufacturing  
Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1232/560/26560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. Dalpatlal Diamonds Manufacturing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. John Frank Developers Private Limited.

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 363/560/26530—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. John Frank Developers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amish Holding and Trading Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 296/560/26585—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amish Holding and Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Elmar Shipping and Technical Services  
Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 180/560/31416—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Elmar Shipping and Technical Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sai Prasad Machinery Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 347/560/29139—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sai Prasad Machinery Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nasik Ferro Alloys Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 632/560/71742—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nasik Ferro Alloys Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lokafema Alloys Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 569/560/60414—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lokafema Alloys Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. D. M. Dambale Cotton Merchants Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 293/560/15170—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. D. M. Dambale Cotton Merchants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arihant Aluminium and Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1427/560/28425—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arihant Aluminium and Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dr. Kashikar Laboratories Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 26/560/112744—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dr. Kashikar Laboratories Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paramount Shipping Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1280/560/015061—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Paramount Shipping Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Benaaz Builders Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 173/560/029169—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Benaaz Builders Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sindhu Ratna Publications Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 441/560/030978—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sindhu Ratna Publications Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kailash Darshan Trading Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 344/560/131173—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kailash Darshan Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lesomna (Steel) Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1205/560/015057—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lesomna (Steel) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mutual Plastics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 3/560/015081—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mutual Plastics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Venus Impex Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 434/560/030977—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Venus Impex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sal Transports Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 666/560/031103—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sal Transports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kalika Engineering and Springs Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 311/560/043496—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kalika Engineering and Springs Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Godhwani Impex Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 809/560/031037—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Godhwani Impex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sailex Batteries Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 93/560/119182—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sailex Batteries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prabash Machines Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 619/560/031044—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prabash Machines Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Konkan Friendship Shipping Lines Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 940/560/026978—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Konkan Friendship Shipping Lines Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jit Auto Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 578/560/031022—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jit Auto Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aspeage Cardtel Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 283/560/122001—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aspeage Cardtel Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Omelco Electronics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 535/560/039304—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Omelco Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rama Garment Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 302/560/073002—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rama Garment Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sapphire Movies Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 58/560/017900—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sapphire Movies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wagh Wagons Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 139/560/017944—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Wagh Wagons Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mascot Engineering Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 78/560/016828—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mascot Engineering Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sindhwa Films Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 274/560/051756—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sindhwa Films Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jeebee Adhesives Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 80/560/035403—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jeebee Adhesives Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vijay Techno Plast Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 193/560/104175—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vijay Techno Plast Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Satyasi Engineers and Contractors Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 521/560/031002—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Satyasi Engineers and Contractors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Soni Enterprises Wood and Wood Products  
Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 136/560/020691—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Soni Enterprises Wood and Wood Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Suman Investments Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 72/560/020727—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name M/s. Suman Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Continental Cargo Conveyors Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 152/560/020688—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Continental Cargo Conveyors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. Gordhandas Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 146/560/020690—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. Gordhandas Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Khanna Shuttles Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 188/560/020663—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Khanna Shuttles Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vivek Chemical Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 254/560/017986—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vivek Chemical Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cuffe Parade Investment and Trading Company  
Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 214/560/017970—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cuffe Parade Investment and Trading Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shubh Marble Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 560/560/031624—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shubh Marble Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Supreme Pharmafab Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 511/560/030906—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Supreme Pharmafab Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Stronachs Advertising Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1309/560/015062—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Stronachs Advertising Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Physicom Tools Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 197/560/099223—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Physicom Tools Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Neo Dies and Tools Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 71/560/017906—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Neo Dies and Tools Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Stone Traders Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1251/560/015060—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Stone Traders Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Coronation Electronics and Electricals  
Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 596/560/031058—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Coronation Electronics and Electricals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Suhas Electronics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 716/560/047344—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Suhas Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kandoi Electronics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 410/560/044353—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kandoi Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ivan Trading Company Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1248/560/035896—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ivan Trading Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Habs Electronics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 711/560/047580—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Habs Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Harmonit Products Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 127/560/007006—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Harmonit Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trade Lines Chits and Finance Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1348/560/015065—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Trade Lines Chits and Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Khetan Sons Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 516/560/006468—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Khetan Sons Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Travel Lines Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1331/560/015063—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Travel Lines Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Joshi Investments Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 7/560/017870—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Joshi Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rasul Wire Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 644/560/133590—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rasul Wire Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashok Beekay Housing Developers Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 418/560/030941—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ashok Beekay Housing Developers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dinanath Roadways Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 409/560/030947—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dinanath Roadways Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Maharashtra Ore Dressing Equipment  
Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 394/560/030957—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Maharashtra Ore Dressing Equipment Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mithila Marble and Granite Products Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 86/560/035407—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mithila Marble and Granite Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ledia Estate Developers Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 265/560/030895—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ledia Estate Developers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Simba Trading Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 565/560/030965—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Simba Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amelon Synthetics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 545/560/030952—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amelon Synthetics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pratiksha Sales and Services Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 343/560/030843—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pratiksha Sales and Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ruparelia Theatres Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 64/560/017903—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ruparelia Theatres Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kranti Agro Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 154/560/017946—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kranti Agro Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Five Star Diamonds Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 499/560/030907—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Five Star Diamonds Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nagarjuna Distributors and Agents Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 85/560/017919—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nagarjuna Distributors and Agents Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kaushlya Films Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 475/560/030915—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kaushlya Films Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Padma Steel and Agencies Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 91/560/017921—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Padma Steel and Agencies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Usam Impex Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 229/560/030827—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Usam Impex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. K. Intech Services Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 930/560/138313—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. K. Intech Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jewel Movies Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 226/560/027054—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jewel Movies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Austindia and Company Wool Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 369/560/020553—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Austindia and Company Wool Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Enpee Agencies Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 601/560/031033—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Enpee Agencies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. R. Investments Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 340/560/020588—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. R. Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rao Construction Engineers Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 498/560/059173—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rao Construction Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Flame Caring Enclosures (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 885/560/126135—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Flame Caring Enclosures (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Braband Corporation Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1256/560/008764—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Braband Corporation Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mardex Leatherwear Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 176/560/059817—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mardex Leatherwear Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Niranjana Raman Lal Investments Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 3337/560/020589—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Niranjana Raman Lal Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Palghar Motors Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 78/560/031470—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Palghar Motors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nirmal Swich Gears Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 532/560/031367—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nirmal Swich Gears Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paduka Leather Works Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 285/560/028370—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Paduka Leather Works Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shivas Tools and Rolls Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 162/560/061274—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shivas Tools and Rolls Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Charon Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 165/560/031437—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Charon Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Advance Burglar Alarms Systems Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 347/560/063600—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Advance Burglar Alarms Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Marudhar Dye-Chem (Ichalkaranji) Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 586/560/065109—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marudhar Dye-Chem (Ichalkaranji) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sufala Systems Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 98/560/030306—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sufala Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Virag Electromech Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 2262/560/099180—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Virag Electromech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kharkar Data Services Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1027/560/080469—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kharkar Data Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vatsa Interiors Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 484/560/026423—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vatsa Interiors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mena Fabrics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 807/560/026955—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mena Fabrics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ambazari Industrial Chemicals and Polymer  
Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 164/560/015147—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ambazari Industrial Chemicals and Polymer Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Elmot Electronics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 31/560/017891—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Elmot Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cemi Consultants Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 25/560/017886—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cemi Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Avtar Agricultural Implements Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 435/560/027076—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Avtar Agricultural Implements Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Techno Mechanic Company (Bombay)  
Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 570/560/031651—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Techno Mechanic Company (Bombay) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Deutz India Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 534/560/012766—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Deutz India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Deccan Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 248/560/006923—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Deccan Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Beena Estates and Investment Co. Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 534/560/027098—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Beena Estates and Investment Co. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Swelore Investments and Finance Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 524/560/027092—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Swelore Investments and Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Himalaya Steel Forgings Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 947/560/026979—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Himalaya Steel Forgings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bombay Underground Sound Audio Visual  
Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 193/560/060519—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bombay Underground Sound Audio Visual Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Majithia Builders Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 131/560/020697—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Majithia Builders Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vakharia Properties Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 916/560/026974—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vakharia Properties Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Em Em Electricals Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 243/560/039176—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Em Em Electricals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Technica International Engineering Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 107/560/020726—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Technica International Engineering Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rising Star Investments and Finance Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 589/560/027114—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rising Star Investments and Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. K. Suraj Fabrications and Electronics  
Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 105/560/111102—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. K. Suraj Fabrications and Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pankaj Mercantile Company Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 54/560/020732—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pankaj Mercantile Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gambs Hotels and Investments Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 39/560/020734—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gambs Hotels and Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kshitij Estates and Ware Houses Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 33/560/020736—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kshitij Estates and Ware Houses Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Multi Maganetics Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 21/560/020753—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Multi Maganetics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rahul Farm Aids Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 276/560/032405—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rahul Farm Aids Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hotel Manama Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 90/560/030305—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hotel Manama Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Romani Arts Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 56/560/030303—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Romani Arts Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trupti Capitals Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 181/560/060536—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Trupti Capitals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. B. B. Pesticides Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 667/560/023247—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. B. B. Pesticides Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kavico Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 40/560/035325—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kavico Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dac Engineers Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 165/560/139633—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dac Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Maso Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 212/560/035630—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Maso Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mankish Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 377/560/0026944—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mankish Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manordas Madhavji and Company Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1225/560/010906—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manordas Madhavji and Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nagoda Winery Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 85/560/139322—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nagoda Winery Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Johnson & Phillips Electricals (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 75/560/014776—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Johnson & Phillips Electricals (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ketu Textiles Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1054/560/017263—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ketu Textiles Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aurangabad Medical Care and Research Centre  
Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 135/560/035618—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aurangabad Medical Care and Research Centre Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Central India Prestressing Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 1295/560/028525—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Central India Prestressing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Indo-Gulf Overseas Trade Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 353/560/029137—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Indo-Gulf Overseas Trade Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Marathwada Roller Flour Mills Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 192/560/029168—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marathwada Roller Flour Mills Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Asian Manpower Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 307/560/029145—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Asian Manpower Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anand Office Systems and Applications Private  
Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 558/560/026440—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anand Office Systems and Applications Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Calpro Chemical Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 694/560/026354—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Calpro Chemical Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. D V M Investments Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 335/560/026587—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. D V M Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Porwal Alloy Steel Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 156/560/015136—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Porwal Alloy Steel Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gamestar Electronics and Allied Private Limited

Mumbai-400002, the 17th August 2009

No. 614/560/031039—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gamestar Electronics and Allied Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the  
following Companies

Chennai-600006, the 29th September 2009

No. ROC/Chennai/Suo Moto/560(5)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies have this day been struck off the register of the Registrar of Companies, and the said Companies are dissolved :—

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company  |
|---------|-------------|--|
| 1.      | 14147       | M/s. Marjaputhur Finance Private Limited                       |
| 2.      | 14181       | M/s. Electrotech Combines Private Limited                      |
| 3.      | 15008       | M/s. Ragaas Chemical Enterprises Private Limited               |
| 4.      | 15012       | M/s. Chamundi Silicate and Chemical Industries Private Limited |
| 5.      | 15023       | M/s. Indev Travels Private Limited                             |
| 6.      | 15027       | M/s. Ramani Exports Private Limited                            |
| 7.      | 15047       | M/s. Sridhar Sea Foods Private Limited                         |
| 8.      | 15048       | M/s. Srilakshmi Sea Foods Private Limited                      |
| 9.      | 15054       | M/s. Ramco Electronics Private Limited                         |

| 1   | 2     | 3  |
|-----|-------|--|
| 10. | 15063 | M/s. Argus Pharmaceuticals Private Limited                         |
| 11. | 15067 | M/s. Brij Farms Consultants Private Limited                        |
| 12. | 15083 | M/s. G R S Tools Private Limited                                   |
| 13. | 15086 | M/s. Regent Packaging Private Limited                              |
| 14. | 15088 | M/s. C S P Exports Private Limited                                 |
| 15. | 15107 | M/s. Show Space Communications Private Limited                     |
| 16. | 15108 | M/s. Crescent Automotives and Transmission Systems Private Limited |
| 17. | 15110 | M/s. Mohnot Constructions Private Limited                          |
| 18. | 15150 | M/s. Mercury Housing Development Finance and Investment Limited    |
| 19. | 15151 | M/s. Three Ace Finance Private Limited                             |
| 20. | 15154 | M/s. Shiva Shanmuga Sabari Chemical Private Limited                |
| 21. | 15191 | M/s. Chem Pec Products Private Limited                             |
| 22. | 15206 | M/s. Monalisa Electronic and General Agencies Private Limited      |
| 23. | 15226 | M/s. Rudrham Plastics Private Limited                              |
| 24. | 15229 | M/s. Computer Resources Centre Private Limited                     |
| 25. | 15232 | M/s. Parmeswari Chits Private Limited                              |
| 26. | 15244 | M/s. Flora Tours and Travels Private Limited                       |
| 27. | 15245 | M/s. Rhino Piping Systems Private Limited                          |
| 28. | 15252 | M/s. Vidcam Camera and Accessories Private Limited                 |
| 29. | 15299 | M/s. Gentle Stich Leather Private Limited                          |
| 30. | 15311 | M/s. Vee Jay Commercial Credits Private Limited                    |
| 31. | 15312 | M/s. Kangaroo Investments Private Limited                          |
| 32. | 15329 | M/s. Angala Parameswari Oils Private Limited                       |
| 33. | 15334 | M/s. Sri Kem Private Limited                                       |
| 34. | 15358 | M/s. Archana Finance and Hire Purchase Private Limited             |
| 35. | 15404 | M/s. Gupta Finance & Hire Purchase Private Limited                 |
| 36. | 15409 | M/s. Subaragam Chit Funds Private Limited                          |

| 1   | 2     | 3  | 1   | 2     | 3  |
|-----|-------|--|-----|-------|--|
| 37. | 15423 | M/s. Sumukha Polymers Private Limited                                      | 66. | 16260 | M/s. Sujatha Exports Private Limited                             |
| 38. | 15454 | M/s. Trinity Sports Private Limited  | 67. | 16284 | M/s. A V G Shipping Services Private Limited                     |
| 39. | 15545 | M/s. Palayam Finance Private Limited                                       | 68. | 16378 | M/s. Virudha Finance Private Limited                             |
| 40. | 15548 | M/s. Coral Finance Private Limited   | 69. | 16383 | M/s. Merc Hospitals Limited                                      |
| 41. | 15565 | M/s. Intaquas Private Limited  | 70. | 16470 | M/s. Se-Sat Manufacturers (India) Private Limited                |
| 42. | 15606 | M/s. Annai Finance Private Limited   | 71. | 16499 | M/s. Sauto Finance and Leasing Private Limited                   |
| 43. | 15608 | M/s. Will Power Leasing and Investment Private Limited                     | 72. | 16534 | M/s. Ramkribha Finance and Investment Private Limited            |
| 44. | 15694 | M/s. Chendur Constructions Private Limited                                 | 73. | 16539 | M/s. Evergrow Engineering Constructions Private Limited          |
| 45. | 15718 | M/s. Lakshmipriya Finance Limited  | 74. | 16540 | M/s. Embryonics Technology Private Limited                       |
| 46. | 15729 | M/s. Academic Scientific Technical Publishers Distributors Private Limited | 75. | 16636 | M/s. Velpa Magnesia Limited                                      |
| 47. | 15749 | M/s. Ayeswaria Departmental Stores Private Limited                         | 76. | 16728 | M/s. Sunbeam Finance Private Limited                             |
| 48. | 15826 | M/s. Manidevi Constructions and Finance Company Private Limited            | 77. | 16754 | M/s. Udhayam Finance & Investment Private Limited                |
| 49. | 15838 | M/s. Aditya Multi Wall Sacks Private Limited                               | 78. | 16789 | M/s. M S R Finance Private Limited                               |
| 50. | 15862 | M/s. Sanum Finance Private Limited   | 79. | 16826 | M/s. Systems International Private Limited                       |
| 51. | 15877 | M/s. Murali Marine Ancillairies Private Limited                            | 80. | 16891 | M/s. Balaji Sponge Iron Private Limited                          |
| 52. | 15887 | M/s. Vijayvardan Spinning Mills Private Limited                            | 81. | 17385 | M/s. Now On Finance Private Limited                              |
| 53. | 15910 | M/s. Yogambigai Pulverisers & Chemicals Private Limited                    | 82. | 17404 | M/s. Peninsular Computer Services Private Limited                |
| 54. | 15930 | M/s. Swisira Granites Private Limited                                      | 83. | 17442 | M/s. Scientific Investments Private Limited                      |
| 55. | 15968 | M/s. Galaxy Battery Private Limited  | 84. | 17448 | M/s. Thiru Maaran Real Estates & Housing Finance Private Limited |
| 56. | 15973 | M/s. Sunshine Abrasive Products Private Limited                            | 85. | 17455 | M/s. Siva Reddy Brothers Agro Hi-Tech Private Limited            |
| 57. | 15974 | M/s. Rohini Marketing Private Limited                                      | 86. | 17660 | M/s. Sri Palanippa Finance (Madras) Private Limited              |
| 58. | 16021 | M/s. Anantha Finance Private Limited                                       | 87. | 17754 | M/s. Honda Finance & Investments Limited                         |
| 59. | 16048 | M/s. Art Cinematography Glorious Development Films Private Limited         | 88. | 17796 | M/s. Ramakrishna Exports Private Limited                         |
| 60. | 16052 | M/s. Hilda Exports Private Limited   | 89. | 17836 | M/s. Cookwel Agencies Private Limited                            |
| 61. | 16066 | M/s. B and M Traders Private Limited                                       | 90. | 17894 | M/s. Good Friends Financiers Private Limited                     |
| 62. | 16084 | M/s. Suyamendher Investment Private Limited                                | 99. | 17899 | M/s. Goodwill Roller Flour Mills Private Limited                 |
| 63. | 16152 | M/s. Prarthana Finance Private Limited                                     | 92. | 17900 | M/s. Othi Fusion Alloys Private Limited                          |
| 64. | 16218 | M/s. Saravana Solvent Private Limited                                      | 93. | 17904 | M/s. Anugraha Chemicals Private Limited                          |
| 65. | 16236 | M/s. Pulsar Finance & Investment Private Limited                           |     |       |  |

| 1    | 2     | 3   |
|------|-------|---|
| 94.  | 17908 | M/s. Shida Hotels Limited                           |
| 95.  | 17922 | M/s. Chhallani Finance Private Limited              |
| 96.  | 17926 | M/s. Vishal Leathers Private Limited                |
| 97.  | 17929 | M/s. Vastani Exports and Processing Private Limited |
| 98.  | 17932 | M/s. Eloor Treated Timbers Private Limited          |
| 99.  | 17949 | M/s. Enplast Organics Private Limited               |
| 100. | 17956 | M/s. Arathi Footwear Industries Private Limited     |

C. RUPACHANDAR  
Asstt. Registrar of Companies  
Tamilnadu, Andaman & Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sreepadam Financing Company Private Limited

Ernakulam-682021, the 24th September 2009

No. 560(3)/MCA/ROC-Ernakulam/sec 560/2009/00046—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from date hereof the name of  
M/s. Sreepadam Financing Company Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
register of the Registrar of Companies, and the said company  
will be dissolved.

AMEERUL MILLATH S.M.  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakhadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Hyderabad-500195, the 23rd September 2009

No. RAP/560(5)/JTA/DSK-122/2009—Notice is hereby  
given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the  
Companies Act, 1956 that the name of following  
Companies have this day been struck off the register of  
Registrar of Companies, and the said Companies are  
dissolved :-

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company                                  |
|---------|-------------|--|
| 1.      | 18009       | M/s. Dyna Strips Private Limited                     |
| 2.      | 18014       | M/s. Didamond Aqua Ranch and Exports Private Limited |
| 3.      | 18015       | M/s. Sambhav Projects Limited                        |
| 4.      | 18017       | M/s. Teamwork Impex Private Limited                  |

| 1   | 2     | 3  |
|-----|-------|--|
| 5.  | 18018 | M/s. Datta Manikanta Teak and Sandal Estates Private Limited |
| 6.  | 18020 | M/s. Premier Agro Process Labs Private Limited               |
| 7.  | 18025 | M/s. Sri Venkat Padma Aqua Farms Private Limited             |
| 8.  | 18030 | M/s. Able Stock Broking Services Private Limited             |
| 9.  | 18031 | M/s. Colmen and Yeomen Marketing Private Limited             |
| 10. | 18039 | M/s. Mark Ship Breaking Limited                              |
| 11. | 18047 | M/s. Dee Cee Communications Private Limited                  |
| 12. | 18052 | M/s. Real Power Technologies Private Limited                 |
| 13. | 18055 | M/s. Harnima Constructions Private Limited                   |
| 14. | 18061 | M/s. Surbhi Foods Private Limited                            |
| 15. | 18062 | M/s. Sri Lakshmi Hatcheries Private Limited                  |
| 16. | 18064 | M/s. Meghalaa Farms Private Limited                          |
| 17. | 18066 | M/s. Red Cock Poultry and Feed Farm Private Limited          |
| 18. | 18074 | M/s. Rajkumar Sarees Private Limited                         |
| 19. | 18081 | M/s. Esma Labs Private Limited                               |
| 20. | 18141 | M/s. K. M. S. Fams Private Limited                           |
| 21. | 18142 | M/s. Sri Ven Sai Farms Private Limited                       |
| 22. | 18149 | M/s. Udai Kiran Farms Private Limited                        |
| 23. | 18157 | M/s. Padmavathi Explosive Chemicals Private Limited          |
| 24. | 18231 | M/s. A-One Aqua Farms Limited                                |
| 25. | 18320 | M/s. Spencer Exports Private Limited                         |
| 26. | 18338 | M/s. Integrated Health Support Systems Private Limited       |
| 27. | 18357 | M/s. Chandana Seafoods Limited                               |
| 28. | 18365 | M/s. Star Techonologies Private Limited                      |
| 29. | 18375 | M/s. Sri Shiridi Sai Hatcheries Private Limited              |
| 30. | 18384 | M/s. Sri Siva Priya Cements Limited                          |
| 31. | 18392 | M/s. Akhila Soumya Aqua Private Limited                      |
| 32. | 18403 | M/s. Golden Streak Floriculture Limited                      |
| 33. | 18415 | M/s. Satya Lalitha Sea Foods and Processing Company Limited  |

| 1   | 2     | 3   | 1   | 2     | 3  |
|-----|-------|---|-----|-------|--|
| 34. | 18418 | M/s. Sona Harvests Private Limited                  | 66. | 18947 | M/s. Eastren Novelties Limited                     |
| 35. | 18419 | M/s. M. Y. M. Films Limited                         | 67. | 18958 | M/s. Twenty First Century Movie Private Limited    |
| 36. | 18435 | M/s. Crips Granites Private Limited                 | 68. | 18972 | M/s. A and M Orchards Private Limited              |
| 37. | 18437 | M/s. Kaasam Resorts Private Limited                 | 69. | 18973 | M/s. Rex Electronic Services Private Limited       |
| 38. | 18445 | M/s. Bhoomika Real Estates Private Limited          | 70. | 18974 | M/s. Lorven Estates Private Limited                |
| 39. | 18449 | M/s. Aashirwad Aqua Farms Private Limited           | 71. | 18990 | M/s. Sunlee Autos Products Limited                 |
| 40. | 18469 | M/s. Eco Farm Systems Private Limited               | 72. | 18999 | M/s. Sri Rajkamal Housing Private Limited          |
| 41. | 18489 | M/s. Surya Mould-Plast Private Limited              | 73. | 19010 | M/s. Madhavi Finvest Private Limited               |
| 42. | 18507 | M/s. Siyaram Textiles Private Limited               | 74. | 19011 | M/s. A. P. Mettal and Tubes Private Limited        |
| 43. | 18510 | M/s. Gold Finch Holdings Limited                    | 75. | 19016 | M/s. Peregrine Silk Mills Private Limited          |
| 44. | 18512 | M/s. R. G. Media Private Limited                    | 76. | 19023 | M/s. Model and Crafts (India) Private Limited      |
| 45. | 18516 | M/s. Parvathi Cold Storage Private Limited          | 77. | 19041 | M/s. Amrutha Koratla Agro Tech Limited             |
| 46. | 18529 | M/s. Krushi Paper and Boards Private Limited        | 78. | 19042 | M/s. Sri Thanabi Plywood Private Limited           |
| 47. | 18533 | M/s. Rali Plastics Private Limited                  | 79. | 19045 | M/s. Sathi Reddy Prawn Hatcheries Private Limited  |
| 48. | 18546 | M/s. Magnum Power Equipments Private Limited        | 80. | 19048 | M/s. Andhra Agro Biotech Private Limited           |
| 49. | 18620 | M/s. Ganga Sea Foods Limited                        | 81. | 19049 | M/s. Radiant Ruby Resorts (India) Private Limited  |
| 50. | 18644 | M/s. Shree Santoshi Polymers Limited                | 82. | 19052 | M/s. Gamalial Graphics Private Limited             |
| 51. | 18688 | M/s. Seaguil Acqua Estates Limited                  | 83. | 19061 | M/s. Eskay Share Shoppe Private Limited            |
| 52. | 18854 | M/s. Cap Systems Private Limited                    | 84. | 19069 | M/s. Sri Sai Padma Plastic Works Private Limited   |
| 53. | 18855 | M/s. Sri Sai Cosmetics Private Limited              | 85. | 19071 | M/s. Le-Aditya Rayons Limited                      |
| 54. | 18857 | M/s. Thirumala Estates Limited                      | 86. | 19072 | M/s. Anveshi Aluminium Company Private Limited     |
| 55. | 18861 | M/s. Asia Pacific Exports Limited                   | 87. | 19090 | M/s. Rohini Aqua Farms Private Limited             |
| 56. | 18862 | M/s. Rudrashetty Furnitures Private Limited         | 88. | 19093 | M/s. Sri Chinmai Poultry Private Limited           |
| 57. | 18888 | M/s. Cozy Shoe Company Private Limited              | 89. | 19100 | M/s. Sriven Housing Private Limited                |
| 58. | 18881 | M/s. Deccan Appliances Private Limited              | 90. | 19110 | M/s. Paragon Exim Private Limited                  |
| 59. | 18900 | M/s. Krisfil Filtration Systems Private Limited     | 91. | 19114 | M/s. CVR Video Digital Private Limited             |
| 60. | 18922 | M/s. Model Agros Private Limited                    | 92. | 19118 | M/s. Shriviyath Skymobiles Limited                 |
| 61. | 18928 | M/s. Modern Plants and Agri Exports Private Limited | 93. | 19137 | M/s. Brahmas Consultants Private Limited           |
| 62. | 18929 | M/s. Classic Capsules Limited                       | 94. | 19141 | M/s. Pearl Aqua Limited                            |
| 63. | 18933 | M/s. Boss Systems Private Limited                   | 95. | 19149 | M/s. Golden Goat Farms and Estates Private Limited |
| 64. | 18936 | M/s. Dachepally Cements Private Limited             | 96. | 19152 | M/s. Sree Harsha Dairy Products Private Limited    |
| 65. | 18943 | M/s. Shobha Aqua Farms Limited                      |     |       |  |

| 1    | 2     | 3   |
|------|-------|---|
| 97.  | 19156 | M/s. Maps-GMR Cements Limited   |
| 98.  | 19164 | M/s. Mangaljiyoti Traders Private Limited                                   |
| 99.  | 19171 | M/s. Neo Capital Services Private Limited                                   |
| 100. | 19182 | M/s. Magpie Foods Private Limited   |
| 101. | 19184 | M/s. Pratheesh Farms Private Limited  |
| 102. | 19188 | M/s. Remax Constructions Private Limited                                    |
| 103. | 19189 | M/s. Om Sri Sairam Films Private Limited                                    |
| 104. | 19219 | M/s. Shriraj Amusements and Resorts Limited                                 |
| 105. | 19221 | M/s. Sri Sessa Sai Housing Private Limited                                  |
| 106. | 19247 | M/s. Sampoorana Foods Limited   |
| 107. | 19373 | M/s. Fauna and Flora Pharmaceuticals Limited                                |
| 108. | 19561 | M/s. Genius Farms and Estates Limited                                       |
| 109. | 19572 | M/s. Bharat Agro Foods Limited  |
| 110. | 19593 | M/s. Esdien Agrotech Limited  |
| 111. | 19613 | M/s. Saroj Ispat Limited  |
| 112. | 19618 | M/s. Aptto Pharma Limited   |
| 113. | 19652 | M/s. First Data Systems Limited   |
| 114. | 19684 | M/s. Perry's Equipments Limited   |
| 115. | 19915 | M/s. Mega Print and Packages Private Limited                                |
| 116. | 19919 | M/s. Mega Software Development and Information Technologies Private Limited |
| 117. | 19922 | M/s. Golden Harvest Exports Private Limited                                 |
| 118. | 19928 | M/s. SNR Exports Private Limited  |
| 119. | 19938 | M/s. Nagarjuna medical Services Private Limited                             |
| 120. | 19941 | M/s. Indo-US Environ Limited  |
| 121. | 19984 | M/s. Nripal Resorts Private Limited   |
| 122. | 19994 | M/s. Illuri Estates Private Limited   |

HENRY RICHARD  
Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the Following Companies

Hyderabad-500195, the 23rd September 2009

No. RAP/560(5)/DSK-124/2009—Notice is hereby given  
pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the names of following Companies have from  
this day been struck off from the register of Companies, and  
the same are dissolved :—

| Sl. | Com. No. | Name of the Company  |
|-----|----------|--|
| 1.  | 15995    | M/s. Nuline Housewares (India) Limited                         |
| 2.  | 16186    | M/s. Nikith Constructions Private Limited                      |
| 3.  | 16189    | M/s. Penganga Minerals Private Limited                         |
| 4.  | 16197    | M/s. Rayner Capacitors Private Limited                         |
| 5.  | 16211    | M/s. Vibha Marketing Private Limited                           |
| 6.  | 16218    | M/s. Star Rural Projects Private Limited                       |
| 7.  | 16223    | M/s. Samay Styles Private Limited                              |
| 8.  | 16258    | M/s. Baabaay Hotels Private Limited                            |
| 9.  | 16269    | M/s. Jay Bel Exports Private Limited                           |
| 10. | 16270    | M/s. Putta Papers Private Limited                              |
| 11. | 16274    | M/s. Kotla Venkataramaiah Agricultural Holding Private Limited |
| 12. | 16289    | M/s. Ever Shine Power Equipments Private Limited               |
| 13. | 16316    | M/s. Approach Technologies Private Limited                     |
| 14. | 16324    | M/s. Greenworth Agro Limited                                   |
| 15. | 16328    | M/s. Sri Vidyaranya Grainage Private Limited                   |
| 16. | 16330    | M/s. Kavya Exports Private Limited                             |
| 17. | 16337    | M/s. Azmi Builders Private Limited                             |
| 18. | 16340    | M/s. Akshay Goods Carriers Private Limited                     |
| 19. | 16345    | M/s. Nagarjuna Electronics Private Limited                     |
| 20. | 16350    | M/s. Suvarna Printers Private Limited                          |
| 21. | 16354    | M/s. Sri Chakra Resorts Private Limited                        |
| 22. | 16355    | M/s. Ram Sarovar Enterprises Private Limited                   |
| 23. | 16370    | M/s. Sree Manikantha Polymers Private Limited                  |
| 24. | 16384    | M/s. Sri Girnar Flight Couriers Private Limited                |
| 25. | 16386    | M/s. Classique Impemiere Private Limited                       |
| 26. | 16390    | M/s. Dharani Pesticides Private Limited                        |
| 27. | 16391    | M/s. Vaikuntam Holy Resorts Private Limited                    |
| 28. | 16394    | M/s. Dolphin Agro Products Private Limited                     |

| 1   | 2     | 3  |
|-----|-------|--|
| 29. | 16396 | M/s. Lunarc Electrodes Private Limited                     |
| 30. | 16399 | M/s. Platinum Technographics Private Limited               |
| 31. | 16401 | M/s. Varuna Water Systems Private Limited                  |
| 32. | 16405 | M/s. Hansa Info-Tech Systems Private Limited               |
| 33. | 16435 | M/s. Rayasam Management Consultants Private Limited        |
| 34. | 16438 | M/s. Arunodaya Poly Bags Private Limited                   |
| 35. | 16442 | M/s. Kris Exports Private Limited                          |
| 36. | 16444 | M/s. Pushpa Parabens Private Limited                       |
| 37. | 16445 | M/s. Andhra Small Units Products Marketing Private Limited |
| 38. | 16453 | M/s. Ranga Roller Flour Mills Private Limited              |
| 39. | 16460 | M/s. Shankar Exports Private Limited                       |
| 40. | 16466 | M/s. Sai Sanam Trades Lines Private Limited                |
| 41. | 16471 | M/s. Blue Base Auqatics Limited                            |
| 42. | 16485 | M/s. Ratan Farms Private Limited                           |
| 43. | 16486 | M/s. Pinakini Estates Private Limited                      |
| 44. | 16499 | M/s. Tirupathi Granites Private Limited                    |
| 45. | 16501 | M/s. Kaza Inpex Private Limited                            |
| 46. | 16503 | M/s. Sagar Prawns and Exports Private Limited              |
| 47. | 16507 | M/s. Supra Ice and Cold Storage Private Limited            |
| 48. | 16510 | M/s. Diamond Automotive Gaskets Private Limited            |
| 49. | 16512 | M/s. Transfreight Express Services Private Limited         |
| 50. | 16516 | M/s. Al Quyum Travels Limited                              |
| 51. | 16520 | M/s. Srivatsa Food Processors Private Limited              |
| 52. | 16539 | M/s. Ashrya Gruha Nirman Private Limited                   |
| 53. | 16540 | M/s. Suvarna Aqua Feeds Private Limited                    |
| 54. | 16541 | M/s. Supra Sales Private Limited                           |
| 55. | 16543 | M/s. Cat Information and Communication Private Limited     |
| 56. | 16552 | M/s. Saisarita Estates Private Limited                     |
| 57. | 16568 | M/s. Pana Overseas Private Limited                         |

| 1   | 2     | 3  |
|-----|-------|--|
| 58. | 16572 | M/s. Kumarnag Real Estates Private Limited                   |
| 59. | 16575 | M/s. Jyothirmai Saismic Services Private Limited             |
| 60. | 16583 | M/s. Mathrusri Consumer Services [Swayam Krishi] Limited     |
| 61. | 16596 | M/s. Kolamla Silks Private Limited                           |
| 62. | 16602 | M/s. Thirumala Towers Private Limited                        |
| 63. | 16604 | M/s. Jai Jai Sainath Resorts Private Limited                 |
| 64. | 16609 | M/s. Suji Exports Private Limited                            |
| 65. | 16617 | M/s. Bhadradi Hotel Private Limited                          |
| 66. | 16622 | M/s. Jayaparamatma Coir Private Limited                      |
| 67. | 16639 | M/s. Blue Ocean Exports Private Limited                      |
| 68. | 16640 | M/s. Nandini Stationery Products Private Limited             |
| 69. | 16641 | M/s. Hansa Housing Private Limited                           |
| 70. | 16645 | M/s. Savita Steel Tubes Private Limited                      |
| 71. | 16656 | M/s. Bhagwathgeetha Aqua Farms Private Limited               |
| 72. | 16660 | M/s. Varma Enterprises [Pisces Feeds] Private Limited        |
| 73. | 16676 | M/s. Harshana Naksha Agro-Tech Private Limited               |
| 74. | 16682 | M/s. Nirmala Conductors Private Limited                      |
| 75. | 16683 | M/s. Super Sericulture Granage Private Limited               |
| 76. | 16688 | M/s. Mid Land Farm Private Limited                           |
| 77. | 16710 | M/s. Mahalakshmi Egg Farms Private Limited                   |
| 78. | 16723 | M/s. Sri Venkata Sai Constructions Private Limited           |
| 79. | 16752 | M/s. Samhita Constructions Private Limited                   |
| 80. | 16758 | M/s. Coastal Communications Private Limited                  |
| 81. | 16764 | M/s. Sri Annapurna Cables Private Limited                    |
| 82. | 16778 | M/s. Anantha Maadhava Promoters and Builders Private Limited |
| 83. | 16786 | M/s. Petrochem Specialities India Limited                    |
| 84. | 16789 | M/s. Solid Rock Data Communications Private Limited          |
| 85. | 16790 | M/s. Alpha Process Measurments Private Limited               |

| 1    | 2     | 3  | 1    | 2     | 3   |
|------|-------|--|------|-------|---|
| 86.  | 16801 | M/s. Suchala Farms Private Limited                         | 107. | 16883 | M/s. Amsun Pharmaceuticals Private Limited          |
| 87.  | 16804 | M/s. Uma Pultries Private Limited                          | 108. | 16887 | M/s. Varnsee Feeds Private Limited                  |
| 88.  | 16806 | M/s. Kumari Agro Farms Private Limited                     | 109. | 16899 | M/s. Srila Exports Private Limited                  |
| 89.  | 16811 | M/s. Maruthi Polypropylene Private Limited                 | 110. | 16908 | M/s. Mangala Audio Video Private Limited            |
| 90.  | 16812 | M/s. Chalasani Marketing Private Limited                   | 111. | 16910 | M/s. Maharaj Pilgrimage Resorts Private Limited     |
| 91.  | 16814 | M/s. Prime Appliances Private Limited                      | 112. | 16924 | M/s. Goldworth Sea Foods Private Limited            |
| 92.  | 16815 | M/s. Suraksha Impex Private Limited                        | 113. | 16925 | M/s. Purushotham Constructions Private Limited      |
| 93.  | 16820 | M/s. Maruthi Paper Components Private Limited              | 114. | 16928 | M/s. Sai Leela Expots Private Limited               |
| 94.  | 16822 | M/s. Vevek Studies Private Limited                         | 115. | 16933 | M/s. Shell Plastics Private Limited                 |
| 95.  | 16824 | M/s. Murali Krishna Intergrated Aqua Farms Private Limited | 116. | 16953 | M/s. Vijaya Rockcrafts Private Limited              |
| 96.  | 16825 | M/s. Tadiparthi Estates Private Limited                    | 117. | 16956 | M/s. Gade and Allmore Marketing [India] Limited     |
| 97.  | 16826 | M/s. Sri Hanuman Aqua Exports Private Limited              | 118. | 16957 | M/s. Priya Hotels Private Limited                   |
| 98.  | 16829 | M/s. Nikky Enterprises Private Limited                     | 119. | 16966 | M/s. Surya Shelters Private Limited                 |
| 99.  | 16835 | M/s. Sapsven Hotels and Resorts Private Limited            | 120. | 16973 | M/s. N. M. Urethare Catalyst Private Limited        |
| 100. | 16836 | M/s. Anu Food Processors nad Traders Private Limited       | 121. | 16978 | M/s. Associated Aqua Farms Private Limited          |
| 101. | 16855 | M/s. Ogirala Aqua Farm Limited                             | 122. | 16982 | M/s. Pulsar Cybernation and Systems Private Limited |
| 102. | 16856 | M/s. Damini Electronics Private Limited                    | 123. | 16988 | M/s. Vijay Classic Estates Private Limited          |
| 103. | 16866 | M/s. Rich Palm Private Limited                             | 124. | 16999 | M/s. Bhagyanagar Appliance Private Limited          |
| 104. | 16869 | M/s. Rondo Trays Private Limited                           |      |       |   |
| 105. | 16873 | M/s. Sri Siva Priya Hotels and Resots Limited              |      |       |   |
| 106. | 16875 | M/s. Devi Dairy Farms Private Limited                      |      |       |   |

HENRY RICHARD  
Registrar of Companies  
Andhra Pradesh